

## NEWS इन ब्रीफ

## सीपी राधाकृष्णन को राज्यपाल बनाने का स्वागत

रांची। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं कोयंबटूर से दो बार सांसद रहे सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया है। स्वागत करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश, नेता विधायक दल सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेन्द्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री सह सांसद आदित्य साहू, डॉ. प्रदीप वर्मा, बालमुकुंद सहाय सहित अन्य प्रदेश पदाधिकारी शामिल हैं। नेतागण ने कहा कि राधाकृष्णन के अनुभवों का लाभ झारखंड की जनता को मिलेगा।

## शिवू सोरेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज

रांची। शहर के इरबा स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता और राज्यसभा सांसद शिवू सोरेन तीन दिनों के बाद रविवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। शिवू सोरेन का इलाज कर रहे डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि उन्हें जो भी समस्या थी उसकी दवा दे दी गई है। फिलहाल, वे राहत महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि शिवू सोरेन को कई हिदायतों के साथ डिस्चार्ज किया गया है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उसके हिसाब से खाने-पीने में परहेज करने की भी सलाह दी गई है। उल्लेखनीय है कि शिवू सोरेन को सांस लेने में तकलीफ और नींद नहीं आने की समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उनकी सटीक जांच की गई। कुछ घंटों बाद उनकी हालत स्थिर बताई गयी।

## हत्याकांड का खुलासा दो सगे भाई गिरफ्तार

रांची। बेड़ो थाना पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो अपराधियों रंजीत उरांव और अमित उरांव गिरफ्तार किया है। दोनों बेड़ो के अंबाटोली के रहनेवाले हैं और दोनों सगे भाई हैं। इनके पास से हत्या में प्रयोग किया गया चाकू दो मोबाइल फोन और खून लगा कपड़ा बरामद किया गया है। ग्रामीण एसपी नोशाद आलम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गत चार फरवरी को घाघरा टिकरा टोली निवासी प्रेम प्रकाश उरांव ने थाने में एक लिखित आवेदन दिया था। एसपी ने बताया कि डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी शाखा, ड्रॉग स्वबायड एवं एफएसएल टीम के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए घाघरा जंगल के पास से दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया।



## नवीन मेल नेटवर्क। रांची

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कोयंबटूर से पूर्व सांसद सीपी. राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में रमेश बैस का स्थान लिया है। बैस को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया गया है। इस संबंध में जारी पत्र के अनुसार सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल केवलय त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का, सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का और शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल

# राष्ट्रपति मुर्मू ने की 13 नये राज्यपालों की नियुक्ति

## तमिलनाडु भाजपा नेता राधाकृष्णन बने झारखंड के नये गवर्नर

प्रदेश का, एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का व गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार कुछ राज्यपालों को दूसरे राज्यों में नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को मणिपुर का, मणिपुर के राज्यपाल गणेशन को नागालैंड का, बिहार के राज्यपाल फगू चौहान को मेघालय का,



## किसान परिवार से रही है पृष्ठभूमि

झारखंड में नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की पृष्ठभूमि आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी से रही है। उनका तमिलनाडु के वरिष्ठ बीजेपी नेता में शुमार होता है। वे दो बार कोयंबटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। वे तमिलनाडु भाजपा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में वे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। उन्हें पार्टी नेतृत्व की ओर से केरल का प्रभारी भी बनाया था। वे 2016 से लेकर 2019 तक अखिल भारतीय कॉर्र बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। 2004, 2012 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वे कोयंबटूर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रहे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिला में एक साधारण परिवार में हुआ। 16 साल की उम्र में वे आरएसएस से जुड़ गए। फिर जनसंघ से सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। उनकी परिवारिक पृष्ठभूमि किसान परिवार की रही है।



हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर को बिहार का नया

## मुख्यमंत्री ने नवनि्युक्त राज्यपाल को दी बधाई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि झारखंड के नवनि्युक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राज्य की जनता की ओर से अनेक-अनेक बधाई और जोहार। झारखंड की भूमि पर स्वागत किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने रमेश बैस को महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किये जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। उल्लेखनीय है कि सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल होंगे। दूसरी ओर राज्यपाल रमेश बैस ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवू सोरेन से उनके आवास पर जाकर भेंट की तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे।



राज्यपाल बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त विमोडियर डॉ. बी.डी. मिश्रा को लद्दाख का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया

है। उपरोक्त नियुक्तियां उन तारीखों से प्रभावी होंगी, जिन तारीखों से वे अपने-अपने कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करेंगे।

## ईडी-सीबीआई से गैर भाजपा सरकारों को किया जा रहा अस्थिर

# बिहार में भाजपा के साथ कर दिया खेला : तेजस्वी

## राजद को मजबूत करने हर महीने दौरे पर आने की कवायद

नवीन मेल संवाददाता। रांची झारखंड में राजद मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। रविवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रांची में मिलन समारोह कर मिशन 2024 का आगाज किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर गैर भाजपा सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कार्निवल हॉल में आयोजित मिलन समारोह में कहा



कि प्रदेश में राजद का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम इस इतिहास को दोहराएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा : बीते दिनों उन्होंने प्लान किया था कि झारखंड में पार्टी को सशक्त करने

## भूकंप से मरनेवालों का आंकड़ा 28 हजार के पार

एजेंसी। अंकारा/दमिश्क छह फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरनेवालों की संख्या 28 हजार से अधिक हो गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, दो अज्ञात समूहों के बीच शनिवार को हुई झड़प के बाद बचाव अभियान रोक दिया गया था, लेकिन तुर्की सेना द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के बाद यह फिर से शुरू हो गया है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि बंदूक की नोक पर राशन लूटने के आरोप में करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीबीसी ने एक बचावकर्ता के हवाले से कहा



कि चूँकि खाद्य आपूर्ति घट रही है, इसलिए हालात बिगड़ने की आशंका है। आपदा क्षेत्र की यात्रा के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तईप एर्दोगन ने कहा : हमने आपातकाल की घोषणा कर दी है और कानून तोड़नेवालों को दंडित करने के लिए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करेंगे।

## अपराधियों व पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़, दो जवान शहीद

## बाल-बाल बचे थानेदार, दो अपराधी गिरफ्तार

नवीन मेल संवाददाता। देवघर देवघर नगर थाना क्षेत्र स्थित श्याम गंज रोड अंडा पट्टी मोहल्ले में शनिवार देर रात 12:30 बजे पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में मछली व्यवसायी सुधाकर झा की सुरक्षा में तैनात दो पुलिस जवान शहीद हो गए। यह मुठभेड़ नगर थाने से 500 मीटर की दूरी पर हुई है। शहीद जवान साहिबगंज जिले के रहनेवाले रवि कुमार मिश्रा और संतोष यादव हैं। सूचना पाकर नगर थाना प्रभारी केके साहू कुशवाहा जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस

दौरान अपराधियों ने थाना प्रभारी की गाड़ी पर भी फायरिंग की। इस घटना में थाना प्रभारी भी बाल-बाल बच गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में एक अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर एसपी सुभाष चंद्र जाट, एसडीपीओ पवन कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों ने सुधाकर झा पर हमला किया। शनिवार की देर रात हथियारों से लैस अपराधियों ने जब सुधाकर झा के घर पर हमला बोला तो



सुरक्षा गार्डों को संभलने का मौका नहीं मिला। इसके बावजूद उन्होंने जवाबी फायरिंग की, लेकिन सुरक्षित मोर्चे से गोलीबारी कर रहे अपराधियों की गोली लगने से दोनों पुलिस जवानों की मौत हो

गई। मुठभेड़ के दौरान तलवारों की चर्चो। कुछ दिन पहले सुधाकर झा के मुंशी भी जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद उन्होंने एसपी से सुरक्षा की मांग की थी। तब दो पुलिस जवानों को उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। इस घटना में तलवारबाजी से सुधाकर झा भी घायल हुए हैं। दोनों पुलिस जवान शहीद होकर मछली व्यवसायी सुधाकर झा की जान बचाने में सफल रहे। व्यवसायी का शस्त्र से साथ विवादजनकारी के अनुसार, व्यवसायी सुधाकर झा और पुष्प सिंह नामक एक शस्त्र के बीच विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले पुराने विवाद में सुधाकर झा के एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद उन्होंने एसपी से सुरक्षा की मांग की थी। तब दो पुलिस जवानों को उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

## मुद्दा

## नेपाली कांग्रेस भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रही है

# नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी : शशांक

एजेंसी। काठमांडू नेपाल में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के बाद संसद में पांचवीं शक्ति बन गई है। संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस भी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रही है। नेपाली कांग्रेस के सांसद डॉ. शशांक कोइराला ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर देते हुए इसके लिए जनमत संग्रह कराने की भी मांग की है। नेपाल के नवलपरासी में आयोजित श्रीमद्भगवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को संबोधित करते हुए डॉ. शशांक कोइराला ने कहा: जनमत संग्रह के जरिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। वह

वीपी कोइराला के सबसे छोटे बेटे हैं, जो नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के संस्थापक नेता हैं। इसलिए उनकी अभिव्यक्ति सार्थक मानी जाती है, लेकिन नेपाली कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बन गई है। अब उस दल में हिन्दू राष्ट्र के समर्थकों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हिन्दूत्ववादी राष्ट्र पक्षधर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के समर्थन से पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल में प्रधानमंत्री बने और नेपाली कांग्रेस को भी सरकार में शामिल किया। सरकार में शामिल होने के बाद नेपाली कांग्रेस के मंत्रियों ने हिंदू राष्ट्र और



राजशाही के पक्ष में बोलकर राजनीतिक लहर ला दी है। प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से मंत्री बने सांसदों को गणतंत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के

खिलाफ न कहने की चेतावनी दी है, लेकिन सरकार में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के मंत्रियों के बीच बहस छिड़ी हुई है। इसी वजह से प्रचंड सरकार के गठबंधन सदस्यों के बीच अनबन बढ़ती जा रही है। वर्ष 2015 में जारी संविधान में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया था। लोगों ने इस कदम का विरोध किया है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का शीर्ष नेतृत्व धर्मनिरपेक्ष के पक्ष में बोलता रहा है। नेपाली कांग्रेस में भी कुछ प्रभावशाली नेता हिन्दू

राष्ट्र के पक्ष में खुलकर बोलने लगे हैं। नया संविधान जारी होने से पहले नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। वर्ष 2015 के संविधान में हिंदू राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने में प्रचंड की मुख्य भूमिका थी। उस समय इसके खिलाफ आवाज उठी थी, लेकिन वह उतनी मजबूत नहीं थी। हाल के दिनों में हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आवाज तेज होती जा रही है। इस मुद्दे के बल पर चुनाव से पहले प्रभावशाली नेताओं ने धार्मिक स्थल का दौरा कर उसकी तस्वीरें प्रकाशित की थीं। इस दौड़ में नेपाली कांग्रेस नेताओं के अलावा कम्युनिस्ट नेता भी शामिल थे।

## महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया

## जेमिमा रोड्रिगज ने खेली अर्धशतकीय पारी

एजेंसी। केपटाउन जेमिमा रोड्रिगज की अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने महिला टी-20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराकर जीत से आगाज किया है। हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप में उतरी टीम इंडिया ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। टीम का अगला मुकाबला 15 फरवरी को केपटाउन पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जाएगा। यह टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में पाक पर 5वीं जीत है। विमेंस टी-20 क्रिकेट के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को 11वीं बार हराया है। केपटाउन के



न्यूलैंड्स मैदान पर रविवार को पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 149 रन बनाए। टीम की ओर से आंशिका नसीम ने 25 गेंदों पर 43 रनों की विस्फोटक पारी खेली। वहीं, कप्तान बिस्मिलह मरूफ ने 55 गेंद पर नाबाद 68 रन

का योगदान दिया। जवाब में टीम इंडिया ने 6 बॉल शेष रहते तीन विकेट पर जीत के लिए जरूरी रन बना लिए। टीम की ओर से जेमिमा रोड्रिगज ने (53 रन) अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने रिचा घोष के साथ 33 गेंदों पर 58 रनों की अविजित साझेदारी की।



## NEWS इनट्रीफ

शिव की 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन की सजी झाकियां



**हरिहरगंज।** प्रखंड क्षेत्र के सेमरवार पंचायत अंतर्गत ढाब खुर्द में रविवार को महाशिवरात्रि उत्सव के उपलक्ष्य में औरंगाबाद जिले के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता बहन की नेतृत्व में भावान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन झांकी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्रह्माकुमारी सविता बहन, सुमन, बेबी, बबली, निकिता के अलावे मुखिया जितेंद्र पासवान, वार्ड सदस्य उपेन्द्र कुमार यादव एवं दिनेश के द्वारा किया गया। वहीं सोमनाथ, वैद्यनाथ, ओंकारेश्वर, विश्वनाथ, केदारनाथ सहित 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन झांकी दिखाया गया है। मुख्य संचालिका सविता बहन ने कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताया कि त्रिमूर्ति शिव की दर्शन के लिए ढाब खुर्द में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन झांकी सजायी गयी है। भारत में अलग-अलग जगहों पर उनके 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। जिनके दर्शनों से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन करण भाईया ने की। सहयोगी में प्रतिमा, गिरजा प्रसाद यादव, सतीश, शम्भू, संतोष आदि भईया एवं बहनों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं।

## भाजपा को मजबूत व

## सशक्त बनाने की जरूरत

**हुसैनाबाद।** नगर मंडल हुसैनाबाद में शनिवार को मंडल कार्यसमिति की बैठक एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि बृथ नंबर 123 पर मनाई गई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूत व सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष अजय प्रसाद गुप्ता ने किया तथा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता रामप्रवेश सिंह, जिला कार्य मंत्री संतोष कुमार सिंह, उर्दवार मंडल अध्यक्ष रामराज मेहता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मंडल महामंत्री श्रवण अग्रवाल, जयप्रकाश तिवारी, सांसद प्रतिनिधि अखिलेश्वर मेहता, उदयनाथ विश्वकर्मा, संतोष गुप्ता, राजेश कर्ण, अविनाश कुमार, राजीव ठाकुर, सुशील सिंह, मनीष कश्यप, सुनील गुप्ता, पप्पू समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

## राजद कार्यकर्ता

## एनसीपी में शामिल

## होने का लिया निर्णय

**हरिहरगंज।** पिपरा प्रखंड क्षेत्र के धनमानी प्लस टू उच्च विद्यालय के समीप रविवार को बैठक कर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। राजद के पूर्व वरिष्ठ नेता सह वर्तमान एनसीपी के विधायक प्रतिनिधि संदीप पासवान के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने राजद से इस्तीफा देते हुए आगामी 16 फरवरी को एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सह क्षेत्रीय विधायक कमलेश कुमार सिंह के समक्ष एनसीपी की सदस्यता ग्रहण करने की बात कही। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजद में कार्यकर्ताओं को मान-सम्मान नहीं मिल रहा है। राजद कुछ लोगों की पार्टी बनकर रह गयी है। इससे राजद कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहे हैं। मौके पर रेखा यादव, सचिन यादव, कमलेश यादव, संजय यादव, अनिल यादव, शिव यादव, संतोष यादव, प्रदीप पासवान, संतोष यादव, रनू यादव, अवधेश यादव, यादव, कैलाश यादव, सत्येंद्र यादव, राजू यादव सहित कई लोग उपस्थित थे।

## पंचमुखी हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ 21 फरवरी से शुरू

**नवीन मेल संवाददाता विश्रामपुर।** रेहला के केतात कला में भव्य पंचमुखी हनुमान मंदिर बनकर तैयार हो गया है। जिसमें नव निर्मित मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होना है। जिसके लिए मनोकामना सिद्धपीठ पंचमुखी हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया गया है। पांच दिनों तक चलने वाला यह महायज्ञ आगामी 21 फरवरी को कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू होगा। 25 फरवरी को महा भंडारा के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। यज्ञ आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि यज्ञ में कई साधु संत व कथावाचक जुटेंगे। जगतगुरु बासुदेवचार्य विद्या भास्कर स्वामी जी महाराज के कृपापात्र स्वामी



राजेंद्रचार्य महाराज जी के नर्गदा पीठाधीश्वर के तत्वाधान में यज्ञ संपन्न होगा। बता दे की मंदिर प्रांगण में पिछले आठ फरवरी से ही प्रतिदिन विष्णु विक्रम जी महाराज का प्रवचन चल रहा है। वहीं 21 से 25 फरवरी तक विद्या भास्कर जी महाराज का प्रवचन होगा। इधर महायज्ञ की तैयारी जोरों पर है। सैकड़ों धर्म प्रेमी महायज्ञ के सफल आयोजन हेतु दिन रात लगे हुए हैं।

## शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण : एसडीपीओ संत जोसेफ कॉन्वेंट का सातवां वार्षिकोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

**नवीन मेल संवाददाता विश्रामपुर।** संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का सातवां वार्षिकोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच रविवार को मनाया गया। वार्षिकोत्सव समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि विश्रामपुर एसडीपीओ सुरजीत कुमार, युवा समाजसेवी अभिमन्यु सिंह, ग्रासिम इंस्टीट्यूट के एच आर हेड अजित तिवारी, रेहला थाना प्रभारी नेमधारी रजक, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता, समाजिक सेवा समिति अध्यक्ष संजय पांडेय, स्कूल के संस्थापक विजय पांडेय, विधायक के जिला प्रतिनिधि रामचंद्र यादव, राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव नईमुदीन अंसारी, गांधी विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष रवींद्रनाथ उपाध्याय, एएसआई अनंत कुमार सिंह, प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक डॉ अनिल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता स्कूल के निदेशक नरेंद्र कुमार



तिवारी ने किया, जबकि संचालन अमित कुमार सिंह व स्कूल के प्रचार्य आर के सिंह ने संयुक्त रूप से किया। एसडीपीओ सुरजीत कुमार ने कहा कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। इसलिए बच्चों को अनुशासन व संस्कारपूर्ण शिक्षा देने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि इस बात की खुशी है कि यह स्कूल बच्चों को अनुशासन में रखते हुये संस्कारपूर्ण शिक्षा विगत कई वर्षों से देता आ रहा है। वहीं ग्रासिम इंस्टीट्यूट के एच आर हेड अजित तिवारी ने स्कूल प्रबंधन की तारीफ करते हुये कहा कि कम शुल्क में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराकर

सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसके लिये स्कूल प्रबंधन बधाई के पात्र है। निदेशक नरेंद्र कुमार तिवारी ने स्कूल के सात वर्षों की विकास यात्रा के बारे में लोगों को बताया। कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारा एक मात्र उद्देश्य है। वार्षिकोत्सव समारोह के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। छात्र-छात्राओं ने एक से बढ़ कर एक गीत-नृत्य व नाटक प्रस्तुत कर अतिथियों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में बेहतर प्रस्तुति करने वाले छात्र-छात्राओं को स्कूल प्रबंधन ने पुरस्कार भी दिया। मौके पर सुशील शुक्ला, नागेंद्र प्रसाद पांडेय, गोपाल पांडेय, मो. सतार खलीफा उर्फ पंटर जिलानी, राहुल रुहे, धनंजय यादव, चेतन सिंह, राजू राम, राजू श्रीवास्तव, दिनेश शुक्ला, सलीमदीन अंसारी सहित स्कूल के शिक्षक-शिक्षिका, छात्र-छात्रा सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।

## उत्कर्मित हाईस्कूल का हाल बेहाल

# शिक्षक व शौचालय की कमी

## नवीन मेल संवाददाता

**हुसैनाबाद।** अंतर्गत हैदरनगर प्रखंड के उत्कर्मित हाईस्कूल पतरिया के छात्र व शिक्षकों के आवागमन के लिये पहुंच पथ नहीं मिल सका। हैदरनगर पतरिया मुख्य पथ से पहले उन्हें आहर की पीड़ से गुजरना पड़ता है। इसके बाद छह खेत के क्यारियों को लांघकर आज भी स्कूल जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में तो खेत में पानी भरने पर छात्रों का स्कूल आवागमन ही बंद हो जाता है। इसमें कुल नामांकित 771 में 396 छात्र व छात्राओं की संख्या 375 है। इसमें वर्ग 10 के 129 छात्र व छात्राएं अध्ययनरत हैं।



प्रधानाध्यापक अजित कुमार रजवार ने बताया कि क्षेत्र की अन्य स्कूलों की अपेक्षा यहां सुविधा संसाधन की घोर कमी

कमरा स्मार्ट क्लास के लिये उपयोग होता है। कमरों के अभाव चाहारदिवारी रहित इस स्कूल के छात्रों को खुले मैदान व बरामदा में पढ़ाई करनी निवर्तित ही नहीं, बल्कि एक कमरों में दो वर्ग का पठन पाठन कराना पड़ता है। सहायक शिक्षक अरविन्द सिंह, लालमोहर राम व अन्य ने कहा कि अब तक इस स्कूल की छात्राओं को शौचालय की भी व्यवस्था नहीं हो सकी है। एक मात्र सरकारी चापाकल से इतने बच्चों को पीने के पानी लेने में दिक्कत है। सोलर संचालित पानी की टंकी समरसेबल पंप, पाइप की चोरी कर लिये जाने से बंद पड़ा है।

## बिजली चोरी के खिलाफ सात पर मामला दर्ज

**हुसैनाबाद।** पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अभियंताओं ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। जिसमें 7 लोगों को बिजली का अवैध उपयोग करते पाया गया। जिसके खिलाफ हैदरनगर थाना में बिजली अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिन 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी हुई है उनमें एक पर दस हजार और 6 लोगों पर छह छह हजार रुपए का जुमाना लगाया गया है। इस आशय की जानकारी अवर विद्युत प्रमंडल जपला के कनीय अभियंता प्रदीप कुमार सिंह ने दी। इस अभियान में कनीय अभियंता प्रदीप कुमार सिंह के अलावा सहायक अभियंता संजय कुमार, शामिल थे।

## मालगाड़ी से कटकर मजदूर की मौत, मुआवजे की मांग

**नवीन मेल संवाददाता हुसैनाबाद।** पूर्व मध्य रेलवे के माहम्मदगंज स्टेशन के खंभा संख्या 346 / 20 के पास डाउन ट्रेक पर करने के क्रम में रविवार को मालगाड़ी की चपेट में आने से थर्ड लाइन विस्तारीकरण काम में लगे मजदूर मिटु राम (45) की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी। मृतक सिगसिंगी के भितीहारा गांव का रहने वाला है। गौरतलब है कि यह मजदूर ठीकदार के स्टोर से सुबह करीब नौ बजे काम करने का सामान को लेकर साइट पर वापस आ रहा था। इस दौरान रेल पट्टी पर करते समय मालगाड़ी की चपेट में आ गया। जो रेलवे थर्ड लाइन निर्माण में लगी अशोका

बिल्डकॉन कंपनी के ठीकेदार औरंगाबाद निवासी सोनू सिंह के अधीन मजदूरी करता था। मृतक



का दो विवाहित पुत्र व दो अविवाहित पुत्रियां हैं। घटना की सूचना मिलते ही दोनों पुत्र और गांव के अन्य कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना

से शोकाकुल अन्य मजदूरों ने मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पूरे दिन काम बंद रखा।

मेठ जनेश्वर राम व नंदु राम ने बताया कि फिनलाल कंपनी की ओर से दाह संस्कार के लिए 20 हजार मिला है। जबकि ठीकेदार ने 10 और देने का भरसा दिया

है। साथ ही आगे भी समुचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। मौके पर पहुंचे स्थानीय थाना प्रभारी अक्षय कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर राकेश रंजन व सब इंस्पेक्टर निशांत कुमार ने मृतक के पुत्र लल्लू राम को सांत्वना दी। कहा कि उचित मुआवजा के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। जबकि जीआरपी डालटनगंज के एएसआई एस बोदरा, रवींद्र उरांव और हवलदार रोबिन जारिका ने पंचनामा की प्रक्रिया पूरी कर शवा को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुत्र लल्लू राम ने रोते बिलखते हुए कहा कि उनके पिता ने अविवाहित बहनों की शादी की चिंता में यहां मजदूरी करते थे।

## वाहन चेकिंग अभियान में वाहन जब्त

**नवीन मेल संवाददाता हुसैनाबाद।** पलामू एसपी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को लेकर हुसैनाबाद पुलिस के द्वारा लगातार शहर के पेटेल चौक व जेपी चौक के समीप सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को वाहन चेकिंग में पुलिस ने नौ बाइक को जब्त किया। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी जगरनाथ धान ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता

है। वाहन चालक को हेलमेट व सभी आवश्यक कागजात रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन किये जाने पर विभागीय दंड शुल्क का निर्धारण किया गया है। जिसमें हेलमेट, प्रदूषण, बीमा नहीं रहने व दो पहिया पर ट्रिपल सवारी करने पर एक हजार रुपये, वाहनों के लाईसेंस व फिटनेस नहीं रहने व वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते पाये जाने पर पांच हजार रुपये का दंड शुल्क भरना

होगा। शराब पीकर वाहन चलाने, आपात कालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने व बिना परमिट के वाहन पकड़ने पर दस हजार रुपये का जुर्माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस यातायात नियमों का पालन कराना का प्रयास कर रही है एक हजार रुपए फाइन भरने के लिए क्षेत्र के लोगों को 80 किलो मीटर दूर डालटनगंज जाकर फाइन की राशि जमा करने में समय के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है।

## जैव विविधता समिति का एक दिवसीय प्रशिक्षण

**पाटन।** किशुनपुर पंचायत सचिवालय में जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों को एकदिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर मुख्य रूप से उप प्रमुख अमरेश कुमार, मुखिया मंजू देवी, मुखिया सुमन गुप्ता उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में किशुनपुर पंचायत, कंकिकला, सगुना, रजहारा, सिरमा, लोईगा, सुटा, जंघासी, शोल पंचायत के समिति सदस्य शामिल हुए। प्रशिक्षण दे रहे अनुप तिवारी ने बताया कि जैव विविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य अपने पंचायत के जितने भी जैविक संसाधन हैं, जैसे वनस्पति, जीव-जंतु, पेड़-पौधे, कीड़े मकोड़े व जितने भी जानवर हैं। उन सभी का उचित प्रबंधन के लिए कार्य करना प्रबंधन समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी होगी। प्रबंधन समिति की बैठक तीन माह में करना अनिवार्य है। स्थानीय क्षेत्र के वनपाल के साथ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मिलकर बचत खाता खोलेंगे। यह बचत खाता किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक जो स्थानीय स्तर पर है। उनमें यह शून्य बैलेंस पर खाता खुलेगा। अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होगा। यह कमेटी का कार्यकाल जो स्थानीय निकाय का जितना चुनाव होता है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन दिए गए जितने भी निर्देश हैं। उसी के आलोक में प्रबंधन समिति कार्य करते रहेंगे। प्रशिक्षण में प्रबंधन समिति के सदस्यों के अलावा पंसस समरनु बीवी, रणजीत सिंह, मुस्तकीम अंसारी व अन्य लोग मौजूद थे।

## शार्ट सर्किट की आग से चार घर जले

**हुसैनाबाद।** पलामू जिले के हैदरनगर थाना के सजवन गांव में रविवार की शाम शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गयी। इस आग में घरेलू गैस सिलेंडर फटने के बाद आग ने रौद्र रूप ले लिया। इसकी चपेट में आने से चार घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इसके साथ ही छह मवेशी की भी झुलसने से मौत हो गई। भुक्तभोगियों में राजेश्वर मेहता, सुरेंद्र मेहता, ललन मेहता व गुडू मेहता शामिल हैं। इनके घर में रखे कपड़ा, अनाज, बर्तन, फर्नीचर व नगद आदि सभी सामान जलकर राख हो गया। आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों का शोर सुनकर आसपास के सैकड़ों लोग जुटे, तब तक आग फैल चुकी थी। वहीं विजय मेहता के पुआल व चारा मशीन जलकर नष्ट हो गया। मुखिया कुसुम देवी, समाजसेवी नागेंद्र मेहता ने बताया कि सैकड़ों ग्रामीणों ने अथक प्रयास से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। लेकिन खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। पीड़ित गृहस्वामियों ने बताया कि अगलगी में उनकी लाखों की संपत्ति जल कर राख हो गई है। कई मवेशी मर गये। वहीं आग बुझाने के प्रयास में जुटे दर्जनों ग्रामीणों की भी जख्मी होने की सूचना है।



पशुपालक काफी परेशान हैं। आसपास के नहीं है। जिम्मेदारियों की अनदेखी व उदासीनता से जिले के सीमांत क्षेत्र मनातू में

खोले गए पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक की कमी के कारण यहां हमेशा ताला बंद रहता है। प्रखंड क्षेत्र में 50 से अधिक गांव के लिए एकमात्र पशु चिकित्सालय प्रखंड में स्थापित है। लेकिन यह चिकित्सक के नहीं रहने के कारण बंद रहता है। जिससे पशुपालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रखंड में स्थापित यह पशु चिकित्सालय महीने में दो-चार दिन ही संचालित होती है। क्षेत्र के लोग काफी संख्या में पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं। वहीं पशु चिकित्सालय के डी एचओ शशि सिन्हा ने बताया कि चिकित्सालय बंद रहने का कारण स्टाफ की कमी है। मेरे पास एक भी स्टाफ नहीं है।



NEWS इन ब्रीफ

**भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबू लाल मरांडी का भव्य स्वागत**

**मेदिनीनगर।** सदर प्रखंड के दुबियाखाड़ में हो रहे आदिवासी महाकुंभ मेला में दूसरे दिन पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राजा मेदिनी राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत करने वालों में सांसद विष्णु दयाल राम, विधायक आलोक चौरसिया जिलाध्यक्ष विजयानंद पाठक, विनय सिंह, प्रभात भुइयां, नरेन्द्र पाण्डेय, उपमहापौर मंगल सिंह, शिवकुमार मिश्रा, किसलय तिवारी, ज्योति पाण्डेय, दीपक सिंह, ज्ञानधन चौरसिया, कमलेश चौरसिया, विपुल गुप्ता, सोमेश सिंह, धर्मेन्द्र उपाध्याय, ईश्वरी पाण्डेय, आनन्द सिंह, अर्जुन सिंह, भोला पाण्डेय, पंकज तिवारी, सत्यवान तिवारी, मनीष कुमार, नरेंद्र सिंह, अवधेश चेतो भीष्म चौरसिया, विगन राम, निरज सिन्हा, मनोज कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता रहे उपस्थित थे।

**दुर्घटना में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल**

**मेदिनीनगर।** शहर थाना क्षेत्र के हमीदगंज पत्थर मिल निवासी अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी टैपो के धक्के से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अरुण श्रीवास्तव रविवार को अपनी पत्नी के साथ गावत्री मंदिर पूजा करने के लिए गए थे। पूजा करके जब वह घर वापस लौट रहे थे, तभी जेलहाता चौक के पास एक तेज रफ्तार से आ रहे टैपो ने उनकी स्कूटी में धक्का मार दिया। जिसमें दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें इलाज के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल लाया गया। जहां इलाज के बाद भी अरुण श्रीवास्तव की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

**आज से होगी अनुपस्थिति अभ्यर्थियों की डीवी**

**मेदिनीनगर।** पलामू सहित अन्य जिलों के वैसे अभ्यर्थियों का डीवी आज से पुनः शुरू किया जायेगा। वैसे अभ्यर्थियों जिन्होंने किसी कारण से अपना डीवी नहीं कराया है। उसे एक बार अंतिम अवसर आयोग के द्वारा दिया जा रहा है। 9 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोग में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक डीवी का कार्य किया जाना है। आज चार मुख्य विषय का डीवी लिया जायेगा। बताते चलें कि हाई स्कूल नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रिम कोर्ट के आदेश के बाद 9 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। नियोजन नीति के कारण नियुक्त लंबित होने से पूर्व में 8 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है। वहीं, पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के लिए आज से आयोग द्वारा जिला विकल्प का लिंक जारी किया जा सकता है। पंचायत सचिव का मेरिट पिछले महीने जारी किया जा चुका है। पंचायत सचिव में राज्य की 3088 पदों पर नियुक्ति की जानी है।

**पलामू जिला स्वर्णकार संघ की बैठक संपन्न**

**मेदिनीनगर।** पलामू जिला स्वर्णकार संघ की बैठक लेस्लीगंज प्रखंड में शनिवार को रात्रि 8 बजे हुई। जिसमें सर्व सहमति से अध्यक्ष, महामंत्री व कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा जोहरी, पलामू जिला स्वर्णकार संघ के सलाहकार सुरेंद्र स्वर्णकार, चुनाव प्रभारी सह उपाध्यक्ष जितेंद्र सोनी, उपाध्यक्ष प्रदीप जोहरी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता दिलीप कुमार सोनी व संचालन राजकुमार सोनी ने किया। जबकि धन्यवाद ज्ञापन धर्मेन्द्र कुमार सोनी ने किया। बैठक में सैकड़ों स्वर्णकार उपस्थित रहे। बैठक में स्वर्णकार समाज के विकास व आने वाले समय में राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में उमेश प्रसाद सोनी एवं महामंत्री कन्हैया प्रसाद सोनी व कोषाध्यक्ष दिलीप प्रसाद सोनी को बनाया गया।

**पलामू में शिवरात्रि को लेकर बारात की तैयारी, मेले का भी होगा आयोजन**



**नवीन मेल संवाददाता मेदिनीनगर।** पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड में स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर से शिवरात्रि के अवसर पर शिव की बारात निकाली जायेगी। यह बारात पहली बार जय महाकाल पूजा समिति के द्वारा निकाली जा रही है। बारात पंचमुखी मंदिर से निकालकर मंदिर से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी मंदिर तक जायेगी। साथ ही शिवरात्रि के मौके पर 18 फरवरी को एक

दिवसीय मेले का भी आयोजन किया जायेगा। इस मेले में स्थानीय मिठाई समेत बच्चों के लिए झूले खिलौने, महिलाओं के लिए सिंगार के समान, समेत कपड़े और चूड़ियों के स्टॉल लगाए जायेंगे। बारात 18 फरवरी को पंचमुखी मंदिर से शिवरात्रि के दिन दोपहर 12 बजे निकाली जायेगी। जो की पहाड़ी मंदिर पहुंचेगी। जहां शिव रात्रि के पावन मुहूर्त पर भगवान शिव की शादी होगी। इस झांकी में

औरंगाबाद के जय महाकाल के कलाकार भाग लेंगे। इस टीम के सदस्य ही शिव और पार्वती का रोल में दिखेंगे। जय महाकाल पूजा समिति की तैयारी जोंरों पर है। अबकी बार शिवरात्रि को और भी खास बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। झांकी के पहाड़ी मंदिर पहुंचते ही मेले और मंदिर की रौनक भी बढ़ेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी मौजूद रहेंगे। पंचमुखी मंदिर के पुजारी रंजन पांडे ने बताया कि पूजा के बाद महाभंडारे के साथ शिव भक्तों के लिए विश्रामपुर पहाड़ी मंदिर पर मेले का भी आयोजन किया गया। भगवान शिव-पार्वती विवाह के बाद शिव चर्चा का आयोजन किया जायेगा। जहां शिव भक्तों को शिव चर्चा का भक्तिमयी कथा का लुप्त उठाने को मिलेगा। शिव चर्चा के बाद महाभंडारा का आयोजन किया जायेगा।

मौजूद रहेंगे। पंचमुखी मंदिर के पुजारी रंजन पांडे ने बताया कि पूजा के बाद महाभंडारे के साथ शिव भक्तों के लिए विश्रामपुर पहाड़ी मंदिर पर मेले का भी आयोजन किया गया। भगवान शिव-पार्वती विवाह के बाद शिव चर्चा का आयोजन किया जायेगा। जहां शिव भक्तों को शिव चर्चा का भक्तिमयी कथा का लुप्त उठाने को मिलेगा। शिव चर्चा के बाद महाभंडारा का आयोजन किया जायेगा।

**राधे कृष्ण मंदिर में होंगे कार्यक्रम**

**नवीन मेल संवाददाता मेदिनीनगर।** बभनडीह राधे कृष्ण मंदिर परिसर में 12 फरवरी दिन रविवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चैनपुर शाखा की ओर से महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। महाशिवरात्रि पर्व के आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मा कुमारी किरण बहन ने कहा कि परमपिता परमात्मा शिव को इस सृष्टि पर अद्वारित हुए 87 वर्ष हो चुके हैं। वह ज्ञान योग तथा पवित्रता की शक्ति से आध्यात्मों में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करते हैं। परमात्मा शिव किसी माता के गर्भ से अपना निजी शरीर धारण करके साधारण मनुष्य की तरह अलौकिक जन्म नहीं

लेते हैं। परमात्मा शिव ब्रह्मा के मुख द्वारा ही बहुत काल से लुप्त हो चुके ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग की शिक्षा देते हैं। उस ज्ञान को स्वयं ब्रह्मा भी धारण करके अपने जीवन को कमल पुष्प के समान नर से श्री नारायण पद की प्राप्ति करते हैं। कलयुग के अंत वाले ब्रह्मा ही सतयुग के आदि में श्री नारायण बनते हैं। जो सतयुग त्रेता द्वार कलयुग का पूरा चक्र लगाकर अगले कल्प के अंत में पुनः

ब्रह्मा बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा को विष्णु तथा विष्णु से ब्रह्मा की कहावत प्रसिद्ध होती है। सतयुग और त्रेता रूपी सुखधाम अथवा स्वर्ग को ब्रह्मा का दिन और द्वार तथा कलयुग रूपी दुःख धाम या नर्क को ब्रह्मा की रात्रि इसी रहस्य के कारण कहा जाता है। यही ब्रह्मा भगवान शिव के भाग्यशाली शरीर के रथ होने के कारण भागीरथ या शिव के नंदी गढ़ नाम से प्रसिद्ध होते हैं। अतः परमात्मा शिव पुनः भारत वासियों के भाग्य को जगाने के लिए सृष्टि में आए हैं इस कार्यक्रम में नृत्य नाटक के द्वारा पतित पावन परमात्मा के महिमा को बताया गया। अंत में सभी ने राजयोग का अभ्यास किया और भोग स्वीकार किया।



**अस्पताल परिसर से प्राइवेट एंबुलेंस हटाने का निर्देश**



**नवीन मेल संवाददाता मेदिनीनगर।** प्रमंडलीय सदर अस्पताल परिसर में प्राइवेट एंबुलेंस का पड़ाव अनाधिकृत रूप से किया जा रहा है। इसे लेकर एचएमसीएच के सुपरिटेण्डेंट डॉ डीके सिंह ने सभी प्राइवेट एंबुलेंस चालकों को नोटिस जारी किया है। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में सभी प्राइवेट एंबुलेंस चालकों को कई बार वाहन नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद चालकों द्वारा एंबुलेंस लगाया जा रहा है। इसके कारण चिकित्सकों, अस्पताल कर्मियों एवं मरीजों के परिजनों को पार्किंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों से

आने वाले मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल के सुपरिटेण्डेंट डा. कुमार ने प्राइवेट एंबुलेंस को अस्पताल परिसर से बाहर रखने का निर्देश दिया है। वहीं इसका पालन नहीं करने पर प्रशासनिक कार्रवाई की बात कही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह का आदेश कई बार निर्गत किया गया है। लेकिन एंबुलेंस चालकों का आपसी तालमेल हॉस्पिटल कर्मियों से होने के कारण यह कभी सफल नहीं हो पाया। इस तालमेल का मुख्य कारण अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को गुमराह कर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने का क्रियाकलाप है।

**सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कलाकारों ने बांधा समां**

**विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित, मेला के अंतिम दिन उमड़ी भीड़**

**मेदिनीनगर।** आदिवासी विकास महाकुंभ मेला को राजकीय दर्जा मिलने से इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। राजा मेदिनीराय की याद में आयोजित दुबियाखांड का मेला राजकीय होना बड़ी उपलब्धि है। मेदिनीराय ने जाति, धर्म से उपर उठकर समाज में समरसता बहाल किया, उसी तरह मेला भी सामाजिक समरसता की मिसाल है। मेला में सभी लोग बढ़चढ़ कर भाग लें। मेला और भव्य हो, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने



की आवश्यकता है। यह बातें मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने कही। वे आज पलामू जिले के दुबियाखांड में आयोजित दो दिवसीय राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला के समापन समारोह में बोल रहे थे। मेला का आयोजन पर्यटन, कला, संस्कृति,

खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग एवं राजा मेदिनीराय स्मृति न्यास-सह-मेला समिति की ओर से किया गया था। मेले के अंतिम दिन स्थानीय कलाकारों ने आदिवासी नृत्य-संगीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांधा। कलाकारों ने आदिवासियों एवं राजा मेदिनीराय

से जुड़े कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। अन्य प्रबुद्धजनों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा परिसंपत्ति का वितरण किया गया। मेला के दूसरे व अंतिम दिन भी पलामू जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। जहां सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही जरूरतमंद व्यक्तियों को योजनाओं का तत्काल लाभ दिया गया। बैनर, पोस्टर एवं योजनाओं से संबंधित पंपलेट का वितरण कर आमजनों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जागरूक किया गया। मेले के अंतिम दिन लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। दुकानदारों द्वारा विभिन्न उपकरणों से संबंधित दुकान सजाए गए थे। साथ ही खाद्य

सामग्री/खाने के भी कई अस्थाई दुकान लगे थे। जहां लोगों को भीड़ लगी रही। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए भी लोग पहुंचे थे। कलाकारों द्वारा प्रस्तुत आदिवासी एवं नागपुरी गीत-संगीत का श्रोता दर्शक आनंद लेते रहे। मेला को सफल बनाने में जिला प्रशासन के पदाधिकारी सहित राजा मेदिनीराय स्मृति न्यास-सह-मेला समिति के सदस्यों की महती भूमिका रही। मेला के समापन समारोह में राजा मेदिनीराय स्मृति न्यास-सह-मेला समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह, त्रिपुरारी सिंह, निर्मल सिंह, प्रमोद सिंह, उमेश सिंह, राजकुमार सिंह, अजीत सिंह, सुनील उरांव, रामेश्वर सिंह चेतो, जेपी मिंज, भरदुल सिंह चेतो, हट्या सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रताप तिकी आदि समिति के अन्य सदस्य एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

**मंदिर निर्माण में परशुराम सेना ने बढ़ाया हाथ**

**नवीन मेल संवाददाता मेदिनीनगर।** बैंगलोर में देखा गया ख्याब झारखंड के पलामू जिला मुख्यालय स्थित बारालोटा में पूरा होने लगा। बारालोटा स्थित जनकपुरी निवासी अंबिका तिवारी का हनुमान मंदिर निर्माण का सपना सातों से अधूरा पड़ा था। जिसे अब राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी का बल मिला है। प्रदेश संरक्षक अर्जुन पाण्डेय (गुरु पांडेय) के निर्देश पर युवा वाहिनी ने जनकपुरी नहर के समीप अंबिका तिवारी के जमीन पर अर्धनिर्मित पंचमुखी हनुमान मंदिर निर्माण को तेजी दी। मंदिर का ढांचा बनकर तैयार है, अब उसे स्वरूप देना बाकी था। मंदिर निर्माण का मुख्य आकर्षण गुंबद की आधारशिला रविवार को युवा वाहिनी के अनुशासन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी (पिंकू) मंदिर के संस्थापक अंबिका तिवारी ने विधिवत पूजन कर एवं प्रतिष्ठित सामाजिक चेहरे विभाकर नारायण पाण्डेय ने नारियल फोड़कर किया।

इस दौरान राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के सदस्य एवं बारालोटा ग्राम के प्रबुद्ध लोग ने बढ़चढ़ कर सहभागिता निभाई। अंबिका तिवारी ने समाज की सेवा के लिए सनातन धर्म संस्कृति के उत्थान हेतु मंदिर निर्माण का शुभारंभ किया। परंतु आर्थिक अभाव में निर्माण कार्य बंद हो गया। अर्धनिर्मित पंचमुखी हनुमान मंदिर के लिए अंबिका तिवारी, उनके अग्रज निरंजन तिवारी एवं गांव के लोगों ने अथक प्रयास किया। जिन्हें सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने, मंदिरों को संरक्षित एवं सुव्यवस्थित करने का बीड़ा उठाये राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी का सहयोग मिला है। गुंबद निर्माण के साथ साथ हरसंभव मदद का भरोसा देकर परशुराम सेना ने अपनी कार्यतालिका का फिर से लोहा मनवाया है। इस दौरान युवा वाहिनी के सदस्यों ने आने वाले समय में भव्य धार्मिक आयोजन करने एवं धार्मिक स्थलों को संरक्षित एवं सुव्यवस्थित करने का भरोसा दिया।

**हर्षोउल्लास के साथ मना नीलकंठ दिवस**

**नवीन मेल संवाददाता मेदिनीनगर।** आनंदमार्ग के सदस्यों ने रविवार को नीलकंठ दिवस के हर्षोउल्लास के साथ मनाया। नई मुहल्ला व अवादनगंज स्थित जागृति भवन में 6 घंटे का बाबा नाम केवलम अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान नारायण सेवा ने जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरण के साथ मेडिकल कैम्प भी लगाया। जिसमें दर्जनों जरूरतमंद लोगों ने इसका लाभ लिया। वरिष्ठ आनंद मार्गी बैधनाथ देव ने कहा कि आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंदमूर्ति को बिहार के पटना बांकीपुर केन्द्रीय कारागार में 12 फरवरी 1973 को दवा के नाम पर विष दिया गया था। अपने ही अनुयायियों की हत्या

करवाने के झूठे आरोप में इंदिरा सरकार की तानाशाही व्यवस्था ने आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंदमूर्ति को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया था। एक सेल में बंद अस्वस्थ वातावरण में बहुत दिनों तक रहने से बीमार पड़ना स्वाभाविक था। जेल के अंदर बाबा बीमार हो गए। उस समय जेल के चिकित्सक डॉ एच. के. घोष थे। जान बूझकर सरकार ने डॉ घोष को बदलकर एक दूसरे चिकित्सक डॉ रहमतुल्ला खान को ले आया। श्री श्री आनंदमूर्ति जी बाबा उस समय काफी बीमार चल रहे थे। वे 12 फरवरी को काफी बीमार पड़े गए 11 बजे रात को डॉ रहमतुल्ला खान ने बाबा को दवा के नाम पर विष का कैप्सूल दिया।

फिर क्या था बाबा बेहोश हो गये। उनके शरीर सिकुड़ने लगे, आँखों की रोशनी चली गयी और शरीर दुर्बल हो गया। मस्तिष्क में असहनीय पीड़ा एवं निष्क्रियता का बोध होने लगा। बाबा की किसी तरह जान बच गई। इसी उपलक्ष्य में संस्था के लोग पाप के विरुद्ध संग्राम के साथ इस तिथि को हर साल नीलकंठ दिवस के रूप मनाते हैं। मौके पर भुक्तिप्रधान मधेश्वर, जगननाथ, एडवोकेट लक्ष्मण सिंह, विश्वनाथ, गोपाल, रामस्वरूप, अरविंद, सरोज, प्रदीप, मणिकांत, चंदन, अमरेंस, मनोज, चंदू, सहज प्रिया, भाषा देवी, निशी, रिमझिम, पुनम पुष्पा, मधुबाला, शारदा, मुन्नी, शुभकला, समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

**फरार अभियुक्त के घर इस्तेहार चिपकाया गया**

**मेदिनीनगर।** चैनपुर थाना क्षेत्र के फरार अभियुक्त भवानी चौधरी के घर इस्तेहार चिपकाया गया। बता दें कि अभियुक्त के विरुद्ध चैनपुर थाना काण्ड सं 130/21 दिनांक 17/2021 धारा 147, 148, 149, 302, 201 भा.द.वि.के अप्राथमिकी अभियुक्त भवानी चौधरी पिता स्व. वृक्ष चौधरी ग्राम बरांव टोला चढ़नवां थाना चैनपुर



जिला पलामू के विरुद्ध माननीय व्यवहार न्यायालय पलामू के द्वारा निर्गत इस्तेहार को गवाही एवं स्थानीय चौकीदार की उपस्थिति में तामिला चिपकाया गया।

**कार्यसमिति अनुसूचित जाति क्षेत्रों में नेताओं व कार्यकर्ताओं का प्रवास होगा : अमर बावरी**

**सरकार की उपलब्धि अंतिम आदमी तक पहुंचे : मरांडी**

**नवीन मेल संवाददाता मेदिनीनगर।** स्थानीय जिला कार्यालय में रविवार को अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा एक सशक्त संगठन है। सभी मोर्चा इसके अभिन्न अंग हैं। गरीब, शोषित, वंचित, दलित समाज तक पार्टी की विचारधारा एवं मोदी सरकार की उपलब्धियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के कंधों पर है। अनुसूचित समाज को तोड़ने वाले ताकत को विफल करना पार्टी की जिम्मेवारी है। अनुसूचित समाज के चर्चा कर मोर्चा संगठन तक पहुंचाने का एक सेतु का काम करता है। बैठक में बताया गया कि कार्यकर्ता संगठित रहें और 2024 के चुनाव में झारखंड के लोकसभा एवं विधानसभा पार्टी का परचम लहराकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने एवं राज्य में भाजपा की सरकार बनावें। अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि



अनुसूचित जाति क्षेत्रों में नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रवास होगा। दलित समाज की बात सड़क से लेकर सदन तक उठाकर समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। कैम्प के द्वारा अत्यंत दया लक्ष्य पूरा करना अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रथम कर्तव्य है। दलित गरीब कमजोर समाज जागरूक हो

देवी, बृजमोहन राम, जितू चरण राम, सीता राम, मनोज सिंह, शिवधारी राम, भाजपा जिला अध्यक्ष विजयआनंद पाठक, उप महापौर मंगल सिंह, प्रभात भुइयां, रंजन भारती, रंजन पासवान, विमल बैदरती, सीमा पासवान, कमलेश राम, रामेश्वर राम, भवन पासवान, लक्ष्मण राम, राजेश पासवान, समीर बावरी, कमलेश किशोर, दीपक बैठा, बप्पी बावरी, संदीप कुमार, राजीव लाल, नीरज कुमार, राकेश राम, जितेंद्र राम, सुनील पासवान, शंकर रजक, गोविंद बाल्मीकि, अनिल कुमार, जोगिंद्र लाल, राजेंद्र पासवान, कमलेश राम, विशाल बाल्मीकि, खुदा राम रामेश्वर दास सहित भाजपा पलामू के धर्मेन्द्र उपाध्याय, विजय ओशा, नरेंद्र पांडे, शिवकुमार मिश्रा, सोमेश सिंह, ईश्वरी पांडे, संजय कुमार, संजय पांडे, भोला पांडे, आनंद सिंह, संजय गुप्ता, जय दुबे, विनोद सिंह, सुनील पांडे, अविनाश वर्मा, अजय पांडे, पंकज तिवारी, सत्यवान तिवारी, ज्ञानधन चौरसिया, अमलेश चौरसिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

**भाकपा जिला कमिटी की बैठक संपन्न**

**नवीन मेल संवाददाता मेदिनीनगर।** भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमिटी की बैठक रेड्मा स्थित पार्टी कार्यालय में कामरेड मनाजरूल हक की अध्यक्षता में हुई। व संचालन भाकपा के जिला सचिव सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य रविचंद्र कुमार तिवारी ने किया। पाठक में सर्वप्रथम तरहसी अंचल के वरिष्ठ साथी कामरेड भोला साहू के मरगोपरांत 2 मिन्ट का मौन रखकर ब्रह्मजालि अर्पित किया गया। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुर्यपंत सिंह ने कहा कि आज केंद्र सरकार की जनविरोधी एवं कॉरपोरेट नीति के चलते बढ़ रही महंगाई एवं बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त है। मोदी सरकार को अडानी की संपत्ति को जब्त कर सार्वजनिक करनी चाहिए। बैठक में जिला सचिव श्री तिवारी ने राज्य सरकार के द्वारा बंद किया गया बालू के उठाव के चलते मजदूर बेरोजगारी का दर्श झेल रहे हैं। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान

नहीं है। सभी पदाधिकारी अपनी अपनी हिस्सा लेने में मशगूल हैं। सदर एसडीओ राजेश शाह भ्रष्टाचार का मूल स्वरूप हैं। बिना पैसा के 144 जैसे मामूली केस में भी पैसा के बल पर निर्णय दिया जाता है। वहीं नौदही बाजार अंचल में दलितों की जोत की हदबंदी से फाजिल भूमि को पूर्व जमींदार परिवार पुलिस को मेल में लेकर दलितों को उजाड़ने का काम कर रही है। उनके इन मसूबे को कम्युनिस्ट पार्टी कभी पूरा नहीं होने देगी। ऐसी परिस्थिति में इन सभी जन समस्याओं को लेकर पार्टी मार्च के महीना में सभी प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन करेगी और नगर निगम का घेराव करेगी। मौके पर कृष्ण मुरारी दुबे, राजेंद्र बैठा, नगर सचिव सुरेश ठाकुर, पूरन चंद शाव, आलोक कुमार तिवारी, मृगुंजय तिवारी, बदीनाथ सिंह, नसीम राइज, गणेश राम, सुदामा ठाकुर, कामेश्वर सिंह, लखन राम, महेंद्र राम, सहित कई लोग उपस्थित थे।

**एनपीयू ने निकाली 56 पदों पर फैकल्टी गेस्ट के लिए विज्ञापन**

**नवीन मेल संवाददाता मेदिनीनगर।** एनपीयू ने अपने अधीनस्थ पांच कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी (सहायक प्रोफेसर) के लिए 56 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नेट, डेआरएफ, और पीएचडी की डिग्री अनिवार्य किया गया है। ये जानकारी एनपीयू के रजिस्ट्रार के द्वारा दिया गया। सामान्य व ओबीसी आवेदक को 1500 रुपये और एससी एसटी और पीएच आवेदक को 1000 रुपये शुल्क देना होगा। आवेदन देने वालों को 28 फरवरी तक आवेदन करना है।

**किन विषयों में होनी है नियुक्ति :** निकाले गए विज्ञापन में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, भौतिक, रसायन, गणित, वाणिज्य, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, जूलॉजी और बांटनी पदों पर नियुक्ति की जानी है। जिसमें सामान्य कोर्ट में 32 पद, एसटी में 13 पद, वीसी में 07 पद वीसी 2 में 01 पद और एससी में 03 पद निर्धारित है।

**किन कॉलेज के लिए निकला :** एनपीयू के द्वारा 56 पदों में



## NEWS इन ब्रीफ

## ग्रामीण के घर में लगी आग, 40 हजार रुपये का नुकसान



श्री बंशीधर नगर। प्रखंड के सलसलादी दामर स्थित सुदामा राम के घर में शनिवार की शाम आग लग गई आग लगने से लगभग 40 हजार रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। आग लगने से घर में रखा खाने पीने का समान, कपड़ा आदि जलकर राख हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार की शाम अचानक घर में आग लग गई आग लगने की जानकारी होने पर आस पास के लोग जमा होकर आग बुझाया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। आग लगने की जानकारी मिलने पर रविवार की सुबह पंचायत के मुखिया मनोज कुमार ठाकुर, उप मुखिया शारदा पासवान, जोखन पटेल, जयराम पासवान, भोला राम सहित अन्य लोग पहुंचे। मुखिया मनोज कुमार ठाकुर ने हुये नुकसान का जायजा लेते हुये हर संभव सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया।

अमृत बजट काल पर कार्यक्रम आयोजित



श्री बंशीधर नगर। भारतीय जनता युवा मोर्चा बंशीधर नगर एवं ग्रामीण मंडल के मंडल अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह विक्रम सिंह एवं आशुतोष पाण्डेय के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय जंगीपुर में बैठक आयोजित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया। आज 12 बजे दिन में स्थानीय ठाकुर दयाल देव मानिक राज इंटर कालेज आधारा में मोदी सरकार के अमृत बजट काल पर कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। उक्त बातें ग्रामीण एवं शहरी मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह एवं आशुतोष पाण्डेय ने कही। मौके पर मंडल अध्यक्ष विकास कुमार पांडेय, जिला मीडिया प्रभारी राजीव रंजन पासवान, जिला सोशल मीडिया प्रभारी जितेंद्र दीक्षित, मंडल महामंत्री राहुल देव पाल, मंडल महामंत्री धर्मदेव यादव, मंडल मंत्री मनोज बारी, उमेश पासवान आदि कार्यक्रम उपस्थित थे।

## चातुर्मास्य व्रत और श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ आमसभा आयोजित

श्री बंशीधर नगर। श्री रामानुजाचार्य सहस्राब्दि जयंती स्मृति महोत्सव सह चातुर्मास्य व्रत एवं श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ को लेकर महायज्ञ समिति द्वारा रविवार को उक्तमित उच्च विद्यालय जतपुरा के प्रांगण में आम सभा का आयोजन किया गया। आमसभा में श्री बंशीधर नगर क्षेत्र के सभी गांवों के प्रमुख लोग उपस्थित थे। आम सभा की शुरुआत ब्रह्मलीन पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज एवं पूज्यपाद श्री जीय स्वामी जी महाराज की तस्वीर रखकर विधिवतपूजन अर्चन कर की गई। आमसभा में महायज्ञ के सफल आयोजन को लेकर चर्चा किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता शारदा महेश प्रताप देव ने कहा कि यज्ञ की सफलता के लिए सबसे पहले हमें संकल्पित होना होगा क्योंकि बिना संकल्प के कोई कार्य पूरा नहीं होता है। उन्होंने 1993 में आयोजित श्री श्री 1008 त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के चातुर्मास्य श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के सफल संचालन का अनुभव साझा करते हुए कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि 1993 में यज्ञ की पूर्णाह्ति के दिन स्वयं श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने महायज्ञ की सफलता पर कहा था कि यह महायज्ञ अभूतपूर्व है ऐसा यज्ञ भूतो ना भविष्यति। श्री देव ने कहा कि हम श्री बंशीधर नगर वासी काफी सौभाग्यशाली है कि 30 साल के बाद पुनः उसी तरह के विराट चातुर्मास्य महायज्ञ का आयोजन कराने का अवसर प्राप्त हुआ है।

## बिजली चोरी के आरोप में 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

नवीन मेल संवाददाता। चिनिया चोरी से बिजली ऊर्जा उपयोग करने के विरुद्ध बिजली विभाग के आह्वान पर शनिवार को छापामारी दल का गठन कर चिनिया में बिजली विभाग के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा छापेमारी अभियान चलाकर 11 लोगों को मौके से अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पकड़ा है। सभी के ऊपर चिनिया थाने में बिजली विभाग के कनीय अभियंता दीपक कुमार ने लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिन लोगों के ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उनमें रामविलास यादव पिता स्व. धनपत यादव, प्रमोद यादव पिता स्व. राम अवंतार यादव, मनी लाल यादव पिता



रामबेलास यादव, धर्मदेव यादव पिता मोती यादव, नारायण यादव पिता रामलखन यादव, अयुब अंसारी पिता स्व. जहूर अंसारी, यह सभी निगम के मुख्य एलटी लाइन से अवैध रूप से टोका फंसाकर बिना मीटर के विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते मौके से पकड़े गए। इन सभी के ऊपर 9600 सौ रुपये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर छती पूर्ति का जुर्माना लगाया गया। वहीं उमाशंकर यादव पिता स्वर्गीय राम भैया यादव, गोवर्धन यादव पिता दिलीप यादव यह दोनों अपने धरेलू मीटर के पूर्व टोका फंसाकर कृषि पंप चलाते पाए गए इन दोनों के

ऊपर रू. 8700 का जुर्माना लगाया गया। डोल गांव निवासी धीरज गुप्ता पिता अवध बिहारी साह, प्रेमशंकर माझी पिता स्व. विश्वनाथ माझी यह दोनों निगम के मुख्य एलटी लाइन से अवैध रूप से टोका फंसाकर बिना मीटर के विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते पाए गए। इन दोनों के ऊपर लगा रू. 9600 का जुर्माना। डोल गांव निवासी विकास कुमार गुप्ता पिता स्वर्गीय केदारनाथ गुप्ता इनके ऊपर पूर्व से 5150 रुपये बकाया राशि विच्छेद था उसके बाद भी यह अवैध रूप से टोका फंसाकर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते पकड़े गए। इनके ऊपर भी रू. 4200 का जुर्माना लगाया गया है। पूछे जाने पर बिजली विभाग के कनीय अभियंता

दीपक कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाकर 11 लोगों को अवैध रूप से बिजली जलाने के मामले में पकड़ा गया है। इन सभी के ऊपर छती पूर्ति का जुर्माना लगाते हुए भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 बटा 138 के तहत सीनियर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई से चोरी से बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी अभियान में बिजली विभाग के कनीय अभियंता दीपक कुमार, बिजली विभाग के सिकंदर कुमार, विद्युत कर्मी तमिजद मंसूरी, सोमन चंद्रवंशी, रामानंदन सिंह का नाम भी शामिल है।

## पेपर के साथ अंचल में उपस्थित होने का निर्देश

नवीन मेल संवाददाता। भवनाथपुर प्रखंड मुख्यालय के पीछे दामर के समीप दो पक्षों के बीच उपजे विवाद को सुचना पर दल बल के साथ पहुंचे थाना प्रभारी सतीश महतो व सीआई इंतखाब आलम ने दोनों पक्षों द्वारा उक्त भूमि पर कराये जा रहे मकान निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए सोमवार को दोनों पक्षों को जमीन से जुड़ी दस्तावेज के साथ अंचल कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। जबकि थाना प्रभारी सतीश महतो ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के रोक के बाद भी उक्त विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कराई जा रही थी। दोनों पक्षों के बीच विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के उद्देश्य से फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए इसकी सुचना वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है।

पर किसी प्रकार की निर्माण कार्य नहीं किये जाने की सुचना दी गई थी। इसके बावजूद उक्त भूमि पर लेनों पक्षों द्वारा निर्माण कार्य कराई जा रही थी, जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, और दोनों पक्षों अपनी अपनी जमीन से जुड़ी दस्तावेज के साथ सोमवार को अंचल कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। जबकि थाना प्रभारी सतीश महतो ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के रोक के बाद भी उक्त विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कराई जा रही थी। दोनों पक्षों के बीच विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के उद्देश्य से फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए इसकी सुचना वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है।

## अज्ञात जानवर ने 22 बकरी के बच्चों को मारा, 20 गायब



नवीन मेल संवाददाता। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के सेल के बंद खदान घाघरा के हल्दिया में अज्ञात जंगली जानवर के द्वारा रामप्रीत साह का 22 बकरी के बच्चे को मार डाला। जबकि 20 बकरी के बच्चे गायब है। घटना शनिवार देर शाम पांच बजे का बताया जा रहा है। पीड़ित रामप्रीत साह ने बताया कि सुबह दस बजे तार के बड़ा में 42 बकरी के बच्चे को बंद कर अन्य बकरी चराने जंगल गया था। जब देर शाम पर लौटा तो देखा कि 22 बकरी को बुरी तरह जंगली जानवर द्वारा मार दिया गया है। जबकि 20 बकरी के बच्चे गायब है। इस घटना में लाखों रु का नुकसान हुआ है। इस घटना की सूचना दूरभाष पर उतरी वन क्षेत्र

के रेंजर प्रमोद कुमार ठाकुर व स्थानीय थाना प्रभारी सतीश महतो को दिया गया है। बताते चले कि सेल के बंद घाघरा खदान के आस पास लोगों के द्वारा झोपड़ी बनाकर खेती बाड़ी व पशु पालन किया करते है और घटना स्थल के समीप जंगल मे रामप्रीत साह के द्वारा इकलौता घर है इस घटना से लोगों में रंका थाना के तरह जंगली जानवर तेंदुआ का आतंक अभी समाप्त प्रतीत हो रहा था। परन्तु आज की घटना से संभावना प्रतीत होता है कि तेंदुआ भवनाथपुर में भी आ गया हो। फिलहाल मामला जांचों उपरांत पता चलेगा घटना स्थल पर रात्रि व जंगल होने के कारण कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचे है।

## दहशत : अज्ञात जंगली जानवर ने दो बकरियों पर हमला कर उसे मार डाला



चिनिया। चिनिया थाना क्षेत्र के खुरी गांव में बीती रात किसी अज्ञात जंगली जानवर के द्वारा गांव के ही पालतू पशु दो बकरियों के ऊपर हमला कर उसे मार डाला गया है जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। प्राण खबरों के अनुसार खुरी गांव के टोला बेसना निवासी मजलूम अंसारी बीते देर शाम अपने दर्जनों पालतू पशु बकरियों को अपने घर के ही एक कमरे में बंद कर पूरा परिवार उसी घर के अंदर सोया हुआ था कि रात करीब 12:00 बजे किसी अज्ञात जंगली जानवर के द्वारा घर के अंदर कमरे में घुस कर दो बकरियों के ऊपर हमला कर तथा उसके घर से बाहर निकाल कर मार डाला गया, जहां दोनों बकरियों के आधे अवशेष उक्त स्थल पर देखी गई। वहीं परिजनों ने जब सुबह अपने घर के आंगन के मे मृत बकरियों को देखा तो दहाड़ मारकर घर की महिलाएं रोने लगी, जिससे आसपास के सैकड़ों लोग जमा हो गए, लोगों ने यह कयास भी लगाया कि हो ना हो या जंगली जानवर तेंदुआ, तो किसी ने लकड़बच्चा, तो किसी ने उड़ान के द्वारा हम लेकर मारे जाने की बात कही, तथा इस घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत व भय का माहौल व्याप्त है, वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना चिनिया वन विभाग के अधिकारियों को दी, पूछे जाने पर चिनिया प्रभारी वनपाल अनिमेष कुमार ने बताया कि अज्ञात जंगली जानवर के द्वारा पूरी गांव में दो बकरियों पर हमला कर उसे मार डालने की सूचना मिली है, वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी मुआयना करेगी तथा पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दी जाएगी, मौके पर मुखिया पति सह प्रतिनिधि उदय भूइया, अनवर अंसारी, तैयब अंसारी, रफीक अंसारी, भोला यादव, चंद्रिका सिंह, समीर अंसारी, जन्तन हुसैन, जोखू शाह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

## दो दिन से सूनसान डंडई का यूरिया नदी बालू घाट

## दबंगों के कारण सरकार को राजस्व की क्षति

नवीन मेल संवाददाता। डंडाई झारखंड सरकार का राजस्व सहयोगी बना थाना क्षेत्र के डंडाई यूरिया नदी बालू घाट रविवार को बिल्कुल रूप से सूनसान रहा। उक्त स्थल पर न तो एक भी ट्रेक्टर वहां पहुंचा और ना ही एक भी चालक व वाहन मालिक। जबकि बालू उठाव प्रक्रिया से उक्त बालू घाट पूरे दिन गुलजगर रह रहा था। पिछले महीनों दिन से उक्त स्थल की सुंदरता ट्रेक्टर चालक व मालिकों से बनी हुई थी। सुबह से शाम तक पूरी तरह वहां पर लोगों का चहल कदमी देखा जा रहा था। इतना ही नहीं प्रत्येक दिन 5 से 6 रुपये राजस्व के रूप में सरकारी खातों में जमा हो रहे राशी पर भी विराम लग गया। इसका प्रमुख



कारण नदी बालू घाट पर दबंगों गिरी बताया जाता है। जरेद व करके गांव के कुछ दबंगों के दबंगों नीति के अनुसार ही बालू घाट से बालू उठाव बंद हो गया है। मामले में देखा दिलचस्प होगा कि जानकारी मिलने के बाद भी विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा उस ओर कोई ठोस कार्रवाई किया जाता है या नहीं। या फिर

वार प्रधानमंत्री आवास योजना का प्राप्त आवंटन इसका उदाहरण है। प्रखंड के अन्य पंचायतों में तो कमीबेस लोकनि डंडाई पंचायत में इसका व्यापक असर पड़ेगा। क्योंकि दूसरे पंचायत के अपेक्षा डंडाई पंचायत में सैकड़ों से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन प्राप्त है। मालूम हो कि श्रेणी 1 डंडाई यूरिया नदी बालू घाट से सट्ट पंचायत मुखिया धनवंती देवी के राजस्व सिलिप पर पिछले महीनों दिन से बालू का उठाव हो रहा था। लेकिन बीते 2 दिन पूर्व क्षेत्र के जरेद और करके गांव के कुछ दबंगों के द्वारा उक्त नदी घाट से बालू उठाव पर रोक लगा दिया गया है।

## दिलजीत ने पेंटिंग की दुनिया में बनायी पहचान

नवीन मेल संवाददाता। भवनाथपुर कहते है दिव्यनगता अभिशाप नहीं अगर मन में सच्ची लगन व परिश्रम करने की इक्षा हो तो कोई भी कठिन कार्य असम्भव नहीं श्री बंशीधर नगर निवासी राम गहन राम का दिव्यानग पुत्र दिलजीत कुमार पैर से दिव्यानग होने के बावजूद पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। दिलजीत पेंटिंग के साथ साथ लेखनी बैनर बोर्ड लेखन का कार्य कर रहा है। दिलजीत देते बार देखने के बाद किसी भी प्रकार का हबहू फोटो बना सकता है हालांकि पैसा के अभाव के कारण पेंटिंग का ट्रेनिंग उसका अधूरा रह गया है लाख घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद अपनी मेहनत से बीएसईसी मैथ से पढ़ाई पूरी किया



है। दिलजीत ने वर्तमान में उपायुक्त गढ़वा का फोटो बनाकर भेंट किया और उनसे अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने का गुहार लगाया जिसपर रमेश घोलप में दिलजीत को नामधारी बीएड कॉलेज में नि:शुल्क नामांकन कराते हुए हर सहयोग करने का अस्वाशन दिया है। वहीं मंत्री मिथलेश ठाकुर के साथ साथ श्री बंसीधर नगर एसडीओ आलोक कुमार का भी फोटो बनाकर भेंट कर चुका है। सभी उसके पेंटिंग के कावल है।

## तीन दिवसीय योग साधना शिविर का हुआ समापन

भवनाथपुर। आनंद मार्ग प्रचारक संघ भवनाथपुर इकाई के द्वारा आयोजित तीन दिवसीय योग साधना शिविर सह औषधि विहीन चिकित्सा कार्यक्रम का समापन रविवार को किया गया। यह तीन दिवसीय शिविर 10 फरवरी से मध्य विद्यालय अरसली में आरंभ किया गया था। जिसमें मुख्य प्रशिक्षक आचार्य अवनंदिनंद अवधूत उपस्थित थे। योग साधना शिविर में आचार्य के द्वारा आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने योग के माध्यम से कई असध्य बीमारियों का इलाज बताया। जिसमें हार्डपैरेंशन, डिप्रेशन, मधुमेह आदि का इलाज भी सामिल हैं। कार्यक्रम के अंतिम दिन कई लोगों ने आनंद मार्ग की साधना पद्धति भी अपनाया।

## नाबालिग लड़की का शव बरामद, सनसनी

नवीन मेल संवाददाता। केतार केतार थाना क्षेत्र के बलिगढ़ पंचायत के अंजनिया गांव में रविवार की दोपहर मिर्ची के खेत में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी संतोष कुमार रवि दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी लिया। शव का पहचान मोंटगवा गांव निवासी सुरेंद्र सिंह की 17 वर्षीय पुत्री के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पश्चिम मार्ग के लिए सड़क अस्पताल गढ़वा भेज दिया है। इस दौरान थाना प्रभारी संतोष कुमार रवि और पुलिस इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह को ग्रामीणों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। ग्रामीण लड़की की हत्या का जर्नाल जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई

करने के आश्वासन के बाद शव को उठने दिया। मृतिका के पिता सुरेंद्र सिंह ने बताया की सुबह चार बजे ही लड़की घर से गायब थी हमलोग खोजबीन कर ही रहे थे की सुचना मिली की अंजनिया गांव में मिर्ची के बेहमी से हत्या कर खेत से शव बरामद किया गया है। उन्होंने अपनी बेटी का हत्या करने की अंशंका जताई है। शक के आधार पर पुलिस ने पुछताछ के लिए अंजनिया गांव के एक युवक को हिरासत में लिया है। वहीं डीएसपी प्रमोद केसरी ने रविवार की शाम घटना स्थल का निरीक्षण किया और मृतिका के परिजनों से पुछताछ किया। घटनास्थल पर डीएसपी प्रमोद केसरी, पुलिस इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह थाना प्रभारी संतोष कुमार रवि कैप किये है। थाना प्रभारी ने बताया की गढ़वा से स्कॉट डॉग बुलाया गया है।

## पेयजल गर्मी के आगाज से पहले ही पानी को लेकर सजग हुए ग्रामीण

## खराब जलमीनारों की हुई मरम्मत



नवीन मेल संवाददाता। डंडाई गर्मी आगाज से पहले ही पानी की व्यवस्था में ग्रामीण जुट गए हैं। उस दौरान उनके द्वारा सरकारी धनराशि का परवाह किए बिना ही आपस में चंदा इकट्ठा कर खराब पड़े जलमिनारो को ठीक-ठाक कराने का काम शुरू कर दिया गया है। मामला सदर पंचायत डंडाई के बाजार में लगा जल मीनार से जुड़ा है। लगभग 2 वर्ष पूर्व उक्त स्थल पर लगा जल मीनार पिछले कई महीनों से खराब होकर पड़ा हुआ था। जिसका लाभ स्थानीय ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा था। परिस्थिति बस लोगों को दूसरे के घरों से पानी लाकर अपना अपना काम चलाता पड़ रहा था। लेकिन

जैसे ही गर्मी का दिन आना शुरू हो गया कि स्थानीय ग्रामीण उस ओर सजग हो गए। सरकारी राशि की परवाह किए बिना ही उक्त सभी लोग आपस में चंदा इकट्ठा कर रविवार को गांव से सटे लवाही गांव के कारीगर को बुला खराब जलमीनार को ठीक कराना शुरू कर दिए। जलमीनार के बगल में निवास कर रहे चिकित्सक डॉक्टर बीडी चौधरी ने बताया कि मेरे अलावा नीतीश मेहता, सरफराज अंसारी, राम आशीष मेहता, मुमताज अंसारी इत्यादि लोगों ने मिलकर जलमीनार मरम्ती कार्य को लेकर लगभग 2 से ढाई हजार रुपये की राशि आपस में चंदा इकट्ठा किए। उसके बाद

स्थानीय कारीगर को बुलाकर रविवार के दिन महीनों से खराब पड़े जल मीनार को मरम्मत कराना शुरू कर दिए। उक्त लोगों ने बताया कि स्थल पर लगे जलमीनार को 2 वर्ष भी नहीं हो रहा होगा कि इसी बीच में हुआ खराब हो गया। इस बीच किसी के द्वारा खराब पड़े जलमीनार को ठीक कराने की पहल आज तक नहीं की गई। बावजूद हम लोगों को गर्मी आगाज से पहले ही उसे ठीक कराना मजबूरी हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि अगर उक्त जलमीनार को हमसभी अभी ही ठीक नहीं कराते तो गर्मी के मध्य में उसका परिणाम भुगवना पड़ता। इससे बेहतर समझे कि गर्मी आने से पहले ही हम सभी

आपस में चंदा इकट्ठा कर उसका मरम्मत क्यों न करा दें। वहीं ग्रामीणों ने जनकरी देते हुए बताया कि राजनीति के कुछ जानकार लोगों के द्वारा बताया जाता है कि लगे जलमीनार को पूरे 5 वर्ष तक मरम्मत करने के लिए पंचायत फंड में रू. 65000 की धनराशि रखी हुई है। बावजूद उक्त राशि से उसका मरम्मत आज तक नहीं कराया गया। मामले में अपना पक्ष रखते हुए पंचायत की मुखिया धनवंती देवी ने बताया कि खराब पड़े जल मीनारों की मरम्ती के लिए पंचायत फंड में एक भी रुपए की राशि नहीं है। उन्होंने बताया कि उक्त राशि के बारे में मुझे किसी भी तरह की जानकारी नहीं है।



## सीएम के आगमन पर लातेहार में 13-14 को परिचालन रहेगा डायवर्ट



नवीन मेल संवाददाता। लातेहार डीटीओ संतोष कुमार सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि सीएम हेमंत सोरेन के लातेहार आगमन, भ्रमण कार्यक्रम में ट्रैफिक की समस्या एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिनांक 13.02.2023 को अपराह्न 02:00 बजे से 14.02.2023 (कार्यक्रम समाप्ति तक) डालटनगंज से रांची एवं रांची से डालटनगंज की ओर आने-जाने वाले बसों, ट्रकों, भारी

वाहनों एवं अन्य छोटे वाहनों के लिए रूट डायवर्सन किया गया है। जो इस प्रकार से है। (क) रांची से पलामू की ओर जाने वाले बड़े एवं छोटे मालवाहक वाहनों के लिए बड़े एवं छोटे मालवाहक वाहन के लिए रांची से पलामू जाने के लिए रूट चन्दवा - बालूमाथ - हेरहंज - मटलौंग / पांकी होते हुए पलामू जाएगी। जबकि बस एवं सवारी छोटे वाहनों के लिए रांची से पलामू जाने के लिए

चन्दवा - उदयपुरा - डीही मुरुप-नवादा- हेरहंज - पांकी-मटलौंग रूट होते हुए पलामू जाएगी। वहीं पलामू से रांची की ओर जाने वाले बड़े एवं छोटे मालवाहक वाहनों के लिए बड़े एवं छोटे मालवाहक वाहन के लिए पलामू से रांची जाने के लिए रूट चन्दवा - बालूमाथ - हेरहंज - मटलौंग / पांकी होते हुए पलामू जाएगी। बस एवं सवारी छोटे वाहनों के लिए पलामू से रांची जाने के लिए

लिए मनिका, होटवाग, पोचरा मोड़ झबानपुर, पॉलीटेक्निक रोड, डीही मुरुप आरागुंडी उदयपुरा रूट होते हुए रांची जाएगी। गारू से रांची जाने एवं आने वाले सभी वाहनों के लिए गारू से रांची एवं रांची से गारू जाने के लिए नेतरहाट - महुआडांड-गारू - नावागड़ - नवरंग चौक- जालिम - भुसुर-सिकनी, चन्दवा होते हुए रांची जाने एवं आने के लिए रूट बनाई गई है।

### जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़ा का वितरण



बरवाडीह। प्रखंड के प्रखंड के केड पंचायत में वंदे मातरम निष्काम कर्म योग की संस्था लातेहार की ओर से रविवार को प्रखंड के केड पंचायत ग्राम रबदी बैगा टोला में जरूरतमंदों के बीच में साड़ी धोती वस्त्र का वितरण किया गया। वहीं संस्था के माध्यम से ग्रामीणों के बीच स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को जागरूक करते हुए। साथ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ग्रामीणों से आग्रह किया गया। साथ ही साथ नशे से बचने के लिए भी लोगों को जागृत किया गया। मौके पर संस्था के संस्थापक निर्दोष कुमार, कृष्णा यादव, वीरेंद्र सिंह, रोहित सिंह, करीमन सिंह, अनुज सिंह, सुदेशी भुईयां मुख्य रूप से उपस्थित थे।

### समिति सदस्य ने लगाई डीसी से जांच की गुहार

लातेहार। लातेहार जिले में सरकारी मनमानी कोई नई बात नहीं है। इसी प्रकार की मनमानी का एक नया मामला लातेहार महाशिवरात्रि मेला के बंदोबस्ती में भी सामने आया है। यहां सरकारी नियमों को अनदेखी करते हुए खुलेआम मेला के बंदोबस्ती में खेला कर दिया गया। इस संबंध में लातेहार सहकारिता कार्यालय से निर्बंधित संस्था लातेहार अधिसूचित क्षेत्र मत्स्य जीवी सहयोग समिति लिमिटेड के सदस्य विरेंद्र प्रसाद ने आरोप लगाया है कि सरकारी प्रावधान के तहत किसी भी सैरात को बंदोबस्ती में सक्षम हो तो बंदोबस्ती सहयोग समिति के नाम से ही की जाएगी। परंतु गत 9 फरवरी को आयोजित लातेहार महाशिवरात्रि मेला के बंदोबस्ती में इस नियम का खुल्ला खुल्ला उल्लंघन किया गया। सहयोग समिति को इस बंदोबस्ती में किसी प्रकार की कोई प्राथमिकता नहीं दी गई।

### बस स्टैंड के पास वेलिडिंग दुकान में चोरी

बरवाडीह। थाना क्षेत्र के बरवाडीह बस स्टैंड के पास राजेश कुमार पाल की वेलिडिंग दुकान में बीते दिनों अज्ञात चोरों ने दुकान में रखे वेलिडिंग करने के सभी सामान चोरी कर ली। इस संबंध में बरवाडीह थाना को सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। राजेश के भाई बसंत पाल ने बताया कि बीते दिनों जब दुकान खोलने उसका भाई गया तो एक कट्टर, एक वेलिडिंग मशीन आदि सामान की चोरी होने के बारे में पता चला। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है।

### महुआडांड भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक



महुआडांड। लातेहार जिले के महुआडांड मंडल के सोहरपाट में मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष श्री शंभु प्रसाद अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडल प्रभारी सह जिला मंत्री ध्रुव कुमार पांडेय उपस्थित रहे। मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता श्री केशव प्रसाद, युवा मोर्चा जिला आईटी सेल संयोजक प्रशांत सिंह, मंत्री सिमल कुमार, मीडिया प्रभारी श्री सतीश कुमार, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र नाथ साह, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूनम देवी, अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष सकिल खान, एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह समेत मंडल के कार्य समिति सदस्य मौजूद रहे।

### केएन त्रिपाठी ने कांग्रेसियों से की मुलाकात



बालूमाथ। राज्य के पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने रविवार को बालूमाथ प्रखंड कांग्रेसियों से मुलाकात कर संभगत के मजबूती पर बल दिया। मुलाकात के दौरान त्रिपाठी ने प्रखंड कांग्रेसियों को संभगत को मजबूत करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में चतरा लोकसभा से जीत दर्ज दिलाने का गुर सिखाया और कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है कार्यकर्ता से ही हम नेता बनते हैं बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिका अर्जुन खड्गे का कार्यक्रम पाकुड़ विधानसभा के बरहरवा में था, कार्यक्रम में शामिल होकर कांग्रेस नेता पलामू लौट रहे थे कि इसी दौरान उन्होंने कांग्रेसियों से मुलाकात कर संभगत और उनकी हाल-चाल जानी।

### इंटक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्राद्ध कार्यक्रम में हुए शामिल

मयूरहंड। रविवार को इंटक के राष्ट्रीय सचिव सह परसावां निवासी प्रदीप कुमार सिंह के दिवंगत माता के पीपल पानी (तेरहवीं) कार्यक्रम में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएन त्रिपाठी शामिल हुए। इस दौरान श्री त्रिपाठी ने दिवंगत के आत्मा शांति हेतु उनके तेल चित्र पर माल्यापण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके अलावे तेरहवीं कार्यक्रम में मांडू कांग्रेस नेता कुमार महेश सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी, आजन्सू नेता मनोज चंद्रा समेत चय प्रान्त बुद्ध राजपूत समाज के अलावा अन्य समाज के प्रबुद्ध जन भारी संख्या में शामिल हुए और दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित किया।

## पुलिस ने किया मामले का खुलासा सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्त धराये

नवीन मेल संवाददाता। महुआडांड पुलिस ने रविवार को महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अमित भगत (30) पिता बिरसेन भगत ग्राम आदर्शनगर थाना महुआडांड और मोहम्मद ईब्रार उर्फ पप्पू (27) पिता स्वर्गीय निजाम खलीफा ग्राम अहिरपुरवा थाना बरवाडीह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में एसडीपीओ राजेश कुजूर ने थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि पीड़िता के द्वारा 3 फरवरी को थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए बताया गया था। 1 फरवरी को वह मजदूरी कर लौट रही थी। इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठा कर कुरो जंगल में ले जाया गया। जहां दोनों व्यक्तियों द्वारा बारी बारी से दुष्कर्म किया था। मामले के सत्यापन के बाद थाना कंड संख्या 07/23 दिनांक 3/2/2023 धारा 376 (डी) दर्ज किया गया। जिसमें



राजेश कुजूर राजेश कुजूर के निदेशानुसार थाना प्रभारी आशुतोष यादव के नेतृत्व में विशेष टीम बनाकर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में अमित भगत और मो ईब्रार को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई जिसपर दोनों अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त

मोटरसाइकिल एवं दो मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। दोनों अभियुक्त का इससे पूर्व भी अपराधिक इतिहास रहा है। अमित भगत पर महुआडांड थाना में कई मामले दर्ज हैं। वहीं मो ईब्रार पर बरवाडीह थाना में मामला दर्ज है। गठित टीम में थाना प्रभारी आशुतोष यादव, एसआई रत्न दुडु, जाफर आलम, रोशन कुमार समेत महुआडांड थाना के सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे।

### सभी कागजात जमा व नर्सिंग होम बंद करें : सीएचसी प्रभारी

बारियात। बारियात थानांतर्गत शिबला पंचायत के राजगुरु जिरहुला निवासी बिजली देवी पति बालमोहन गंडू की गोनिया स्थित मेडिका निजी अस्पताल (अनिबन्धित) के चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन कर प्रसव कराने का मामला प्रकाश में आया है। बिजली देवी ने बालूमाथ सीएचसी प्रभारी को लिखित आवेदन देकर गोनिया स्थित एक निजी मेडिका अस्पताल के चिकित्सक पर बिना अनुमति के ऑपरेशन कर प्रसव कराने के बदले बतौर हजार रुपये नकद लेने का आरोप लगाई है। आवेदन प्राप्त होने के साथ ही बालूमाथ सीएचसी प्रभारी सुरेश राम गोनिया स्थित मेडिका नर्सिंग अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल किया। जांचोप्राप्त अस्पताल के संचालक मो शमशाद द्वारा किसी भी प्रकार का कागजात अस्पताल से संबंधित नहीं दिखा सका। हालांकि उपरोक्त महिला का ऑपरेशन से प्रसव कराने व रुपये लेने की बात स्वीकार किया है। इस पर बालूमाथ सीएचसी प्रभारी सुरेश ने संचालक को फटकार लगाते हुए नर्सिंग होम के सभी कागजात अखिल बालूमाथ कार्यालय में जमा करने व नर्सिंग होम को बंद करने का निर्देश दिया।

## तेजस्वी के आगमन पर राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह बालूमाथ में सुरेश राम का किया भव्य स्वागत



नवीन मेल संवाददाता। बालूमाथ बिहार के डीटी सीएम तेजस्वी यादव के रांची कार्यक्रम के लिए निकले बालूमाथ से सैकड़ों राजद कार्यकर्ता राजद जिला कोषाध्यक्ष सह भावी प्रत्याशी सुरेश राम के नेतृत्व व राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रीतलाल यादव के अगुवाई में रांची प्रस्थान किए। रांची निकलने से पूर्व राजद कार्यकर्ताओं ने भावी प्रत्याशी सुरेश राम को फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और उन्होंने गाड़ियों के साथ बालूमाथ मुख्य सड़क पर रोड शो किया गया। रोड शो, सुरेश राम जी के चेक नाका स्थित आवास से सैकड़ों की संख्या में लोग वाहन

द्वारा चलकर थाना चौक होते हुए टमटम टोला तीन मोहान सड़क से वापस चेक नाका पहुंच सभी लोग रांची के लिए रवाना हुए। रोड शो के दौरान दौरान लालू - राबड़ी जिंदाबाद, तेज-तेजस्वी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो सुरेश राम जैसा हो सहित कई नारे लगाए। मौके पर उपरोक्त लोगों के अलावा राजद वरिष्ठ नेता व्यास यादव विरेंद्र यादव दशरथ यादव विजय यादव दीपक यादव मनोज यादव बारियात मंडल अध्यक्ष लवकुश यादव हेरंज मंडल अध्यक्ष सहित सैकड़ों महिला पुरुष राजद कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

## पुस्तक का लोकार्पण सह सम्मान समारोह का आयोजन



नवीन मेल संवाददाता। चंदवा शहर के होटल हाइवे हिल में रविवार को मीत जर्मसतपुरी द्वारा रचित काव्य संग्रह कड़वे बोल नामक पुस्तक का लोकार्पण सह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि जिला आपूर्ति पदाधिकारी बंधन लौंग, बीडीओ विजय कुमार, भाजपा नेता चलो लाल राम दास, भाकपा नेता प्रमोद साह, समाजसेवी रामयश पाठक, रवि कुमार डे, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अमित लाल नाथ शाहदेव, पंसस नीलम देवी के द्वारा संयुक्त रूप से पुस्तक का लोकार्पण किया गया। पुस्तक लोकार्पण समारोह को संबोधित

करते हुए मीत जर्मसतपुरी उर्फ गुरमीत सिंह ने अपनी लिखी पुस्तक के कुछ शब्द दर्शकों को सुनाई जैसे हे राम क्या लिखू तरे जीवन पर, अभी मेरी कोई औकात नहीं, लिखू दुखी रामू की बात अभी, जिसका सुनता कोई बात नहीं। मैं धरती हूँ झारखंड की मेरा चौरहरण रहा होए, मुझे तस्कर कपटी लूट रहे अब मुझे बचाव कोए, अंत में उन्होंने अपनी पुस्तक की आखिरी लाइन सुनाते हुए कहा चलो देश बचाने चलते हैं रूठों को मानने चलते हैं कोई कड़वे बोल भी लिखता है, वो पागल शायर दिखता है। वो किस मिट्टी का जन्मा है न डरता है न बिकता है, वो देश प्रेमी गद्दार नहीं उसे मीत बनाने चलते हैं! चलो देश बचाने चलते हैं।

### आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे चतरा, डीसी ने तैयारियों का लिया जायजा

चतरा। मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार के 13 फरवरी को होने वाले चतरा जिला परिषद कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त अबु इमरान ने पदाधिकारियों के साथ प्रशासनिक तैयारी एवं विधि व्यवस्था का जायजा रविवार को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पहुंचकर लिया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों द्वारा की जा रही प्रशासनिक तैयारी के प्रगति का जायजा लेते हुए उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया।

### पितीज में आधार सेवा केंद्र बनाने की मांग

इटखोरी। इटखोरी प्रखंड अंतर्गत पितीज पंचायत में आधार सेवा केंद्र नहीं होने से ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए इटखोरी प्रमुख प्रिया कुमारी ने उपायुक्त अबु इमरान को ज्ञापन देकर पितीज में आधार सेवा केंद्र बनवाने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख ने उपायुक्त को बताया है कि इटखोरी प्रखंड के पितीज पंचायत में आधार सेवा केंद्र नहीं होने के कारण किसी प्रकार के आधार सुधार के लिए 10 किलोमीटर इटखोरी जाना पड़ता है।

## परामर्शदाता टीम ने किया मंडल कारा चतरा का दौरा



नवीन मेल संवाददाता। चतरा रविवार को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकरण के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में सचिव प्रजा बाजपेई के निदेशानुसार सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्शदाता मुणाली प्रसाद एवं जितेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से मंडल कारा का दौरा किया। इस दौरान टीम ने जेल में बंद कैदियों के समस्याओं से अवगत होने के उपरांत भारतीय संविधान में प्रदत्त अनु. 21 एच से 22 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा एवं अधिकार के

बारे बताया एवं कानूनी सहायता रक्षा परामर्श दाता की कार्यप्रणाली एवं उसके लाभ से अवगत कराने के साथ अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के संदर्भ में अच्छे व्यवहार के लाभ की जानकारी दी। आगे बताया कि कारा में बंद कैदी प्राथमिक चरणों से लेकर अपीलीय स्तर तक निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने के पूर्णतया हकदार हैं एवं इस बात को ध्यान में रखते हुये लीगल एड डिफेंस कौंसिल की नियुक्ति की गई है। इस दौरान जेल के पदाधिकारियों के साथ पीएलवी अरविन्द कुमार दास व अब्दुल जिलानी शामिल थे।

### खादी एवं ग्रामोद्योग ने उपलब्ध कराया मधुमक्खी कीट बॉक्स

चतरा। रविवार को सदर प्रखंड के ग्राम चौर एवं टीकर गांव में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दो महिला समूह कमल आजीविका सखी मंडल एवं संगम आजीविका मंडल को 10-10 मधुमक्खी कीट बॉक्स दिया गया। बॉक्स का वितरण मनोज कुमार सिंह पूर्वी क्षेत्र के सदस्य के उपस्थिति में वितरण गया। उन्होंने लाभुकों के उज्ज्वल भविष्य के लिए मधुमक्खी पालन को स्वरोजगार के साधन के रूप में अपनाने का संदेश दिया।

### चोरों का पथलगड़ा में बढ़ा आतंक

पथलगड़ा। पथलगड़ा थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव में बीते रात घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर से अज्ञात चोरों ने बैटरी की चोरी कर ली। चोर नावाडीह डमोल मुखिया व विश्वजीत दांगी पिता भैरव प्रसाद दांगी, मो. तैयब पिता मो. ताहिर मिया के ट्रैक्टरों से बैटरी की चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले बेलहर गांव निवासी संतोष कुमार दांगी, राम अवतार दांगी व ऋतुराज दांगी के भी घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर से बैटरी बॉक्स का ताला तोड़ कर बैटरी चोरी कर ली गई थी।

## माॅडर्न एरा अकादमी का उद्घाटन

नवीन मेल संवाददाता। चतरा प्रतापपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत कसमार में रविवार को माॅडर्न एरा अकादमी प्राइवेट स्कूल का शुभारंभ समारोहपूर्वक किया गया। स्कूल का उद्घाटन पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी लव कुमार एवं काशिफ रजा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान पुलिस निरीक्षक श्री कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे स्कूल खुलने से बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर तो बढ़ेंगे, साथ ही हमारी यह शुभकामना होगी कि यहां के बच्चे भी आगे बेहतर शिक्षा पाकर उच्चे ओहदे पर जाएं। वहीं मिस्टर आलम अशरफ ने कहा कि वर्तमान दौर में बिना पढ़े लिखे कहीं कोई महत्व नहीं है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। काशिफ रजा, व्यवसाई संच के अध्यक्ष गोमम कुमार, अनुज कुमार, हजारी प्रसाद,



शिक्षिका नूतन कुमारी ने अपने विचार रखते हुए माॅडर्न एरा अकादमी के खोले जाने को लेकर प्रिंसिपल आसिफ इरशाद, डाइरेक्टर अमित सिंह, चेयरमैन निरंजन कुमार का अभार व्यक्त करते हुए स्कूल के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अकादमी के प्रिंसिपल ने बताया कि संस्थान में बच्चों को निःशुल्क कॅम्प्यूटर

### प्रशासन मौन

## झरना टोला स्थित जलस्रोत को सुंदरीकरण करने की मांग

## जलस्रोत पर विभाग को पहल करने की जरूरत

मनीष कुमार सिंह। मनिका प्रखंड के मटलौंग पंचायत स्थित नूनफोरवा गांव के झरनाटोला के जलस्रोत को सुंदरीकरण कर आकर्षक पर्यटक स्थल बनाने हेतु प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने पर्यटन विभाग व लातेहार जिला के उपायुक्त से मांग किया है। गांव के किनारे पर स्थित यह झरना काफी लोगों के जीवन में लाभदायक साबित हो सकता है और एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जा सकता है अगर इस झरना का सुंदरीकरण करने के लिए सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा पहल की जाय। यहां के जल स्रोत (वाटरफॉल) में आज भी कई राज छुपे हुए हैं, कभी भी यहां का पानी सूखता नहीं है और सुबह में यहां पर

लोगों को गर्म पानी मिलता है जैसे जैसे थूप होती है वैसे वैसे पानी ठंडी हो जाती है। वहीं नूनफोरवा गांव के ही निवासी शिक्षक द्वारिका राम इस जल स्रोत के विषय में बताते हैं कि मैंने पूर्वजों के समय से ही यह जल स्रोत है पूर्व में यहां पर 15-20 घरों की बस्ती थी और सभी लोग इसी जल स्रोत से पानी पीते थे। उन्होंने कहा कि हमारे दादा जी बताते थे कि जब 1966-67 ई. में भयंकर सुखाड़ हुआ था और आसपास के क्षेत्रों के सभी गांव में पानी सूख गया था। तब उस समय भूचाल, विकारा, तेवरही, मतनाग, समेत इत्यादि गांव के लोग इसी जलस्रोत से टैकर व ड्रम के माध्यम से पानी ले जाकर अपना गुजारा करते थे। उन्होंने बताया कि सुबह के समय यहां का पानी हमेशा



गर्म रहता है जैसे जैसे थूप होती है वैसे वैसे पानी भी ठंडी हो जाती है, आज भी लोग यहां से पानी पीते हैं यहां का पानी काफी स्वादिष्ट होता है। उन्होंने बताया कि मेरे याद से 52 वर्षों में यहां का पानी कभी भी नहीं सूखा है और मेरे दादाजी भी

बताते थे कि यहां का पानी कभी भी नहीं सूखता था, यहां पर टोंगरी (छोटा पहाड़) के नीचे से पानी निकलती है जिसका राज अभी भी अज्ञात है। झरना टोला के जल स्रोत की जानकारी मिलने पर प्रखंड वीस सूत्री अध्यक्ष विश्वनाथ

पासवान व कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान स्थल का अवलोकन किए। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस स्थल का अवलोकन कर पाया कि यहां अनवरत चलने वाला पानी है, यहां का पानी कभी भी नहीं सूखता है।



NEWS इनट्रीफ

गरजा में वन पालन समिति की हुई बैठक



**सिमडेगा।** सदर प्रखंड के गरजा पंचायत के गरजा टांगर टोली में वनाधिकार कानून 2006 के तहत वन पालन समिति की बैठक अनिल डुंगडुंग की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जनसंगठन एवं जिला स्तरीय ग्राम सभा मंच के मीडिया प्रभारी खुशीराम कुमार को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर खुशीराम कुमार ने कहा कि वनाधिकार कानून 2006 भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी और जनहित का कानून है इसे सभी लोगों को जानने की जरूरत है क्योंकि वनों की बंदोबस्ती के समय लोगों को वनों पर अपने परंपरागत अधिकारों की अनदेखी करने के कारण जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उसी को दूर करने के लिए यह कानून बना। हमें यह भी जानने की जरूरत है कि गांव की परंपरागत सीमा के अन्दर के वनाज के उपयोग करने के लिए सामुदायिक अधिकार का पट्टा दिया जाना है। धन्यवाद ज्ञापन बिरेन्द्र प्रधान ने किया। मौके पर हेनेना किड़ो, मुक्ति किड़ो, ग्लोरिया किड़ो, भगवती देवी राजेश लोहरा, अगापित डुंगडुंग, सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

नशे में 3 युवक स्कूटी समेत गिरे नाली में

**किस्को।** जिले के किस्को मुख्य चौक पर स्थित एक नाली में शराब के नशे में धूत तीन युवक स्कूटी के साथ अनियंत्रित होकर नाली में जा गिरे। हालांकि इससे किसी तरह का कोई नुकसान स्कूटी सवार युवकों को नहीं हुई। बताते चलें कि लोहरदगा कचरा टोली के तीन युवक एक स्कूटी मोटरसाइकिल में सवार होकर किस्को होते हुए नवाडीह की ओर जा रहे थे तभी किस्को मुख्य चौक पर शाहदेव होटल के समीप घुमावदार सड़क के किनारे पर नाली में तीनों युवक स्कूटी सहित जा गिरे जिससे तीनों युवक को हल्की टक्का आई है। उल्लेखनीय है कि स्कूटी सवार तीनों युवक शराब के नशे में धूत थे। इधर स्कूटी का निर्वन्गण खो जाने से यह घटना घटी। इस दौरान स्थानीय लोगों के सहयोग से स्कूटी को नाली से बाहर निकाला गया।

वालीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

**कैरो।** युवा सद्भावना मंच कैरो के तत्वावधान में चाल्हे मैदान में वालीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें चाल्हे और गराडीह की टीम खेल में भाग लिए। जिसमें गराडीह की टीम विजय रही। शुभकामना देते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पवन कुमार महतो ने कहा कि खेल के माध्यम से आपसी प्रेम, भाईचारे, सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। खेल के माध्यम से अपना कैरियर भी बना सकते हैं। उन्होंने सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मौके पर मुखिया सुमन उरांव, आकाश कुंवर, किनीय अभिन्या रौशन उरांव, रिजवान अंसारी आदि उपस्थित थे।

पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनायी

**कैरो।** कैरो प्रखंड भाजपाइयों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 55वीं पुण्यतिथि कैरो मंडल उपाध्यक्ष विवेक प्रजापति की अध्यक्षता में मनाया गया। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपाध्याय जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी निष्पक्ष भाव से पार्टी के प्रति समर्पित भाव के साथ जुड़कर इस मुकाम को हासिल करने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुखेश्वर प्रसाद दल, बजरंग उरांव, मुशिया वीरेन्द्र महली, मनोज साहू, राजेश सोनी, इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित हुए।

**नवीन मेल संवाददाता।** बानो प्रखंड के विभिन्न गांवों में जंगली हाथियों का कहर जारी है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रात्रि जंगली हाथियों ने बानो पंचायत व उकौली पंचायत के सीमावर्ती गांव बूढ़ीझारिन गांव में 11 घरों को निशाना बनाया। मिली जानकारी के अनुसार बूढ़ीझारिन में शाम होते ही हाथियों का झुंड गांव में आ धमका। हाथियों के आने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गया। हाथियों ने एक-एक कर घरों को निशाना



बनाते हुए अनाज की तलाश में दीवार तोड़कर धान व घर में रखे अनाज को खाया। कुछ को क्षतिग्रस्त कर दिया। मिली



जानकारी के अनुसार बूढ़ीझारिन के सरेंग बागे, पावल बागे, पूर्व उकौली मुखिया मरसल्याणी बगरैला, नमन बगरैला शबनम

महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सिमडेगा थाना में प्रखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक

शिवरात्रि पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर : बीडीओ

**नवीन मेल संवाददाता।** सिमडेगा सिमडेगा थाना परिसर में रविवार को दोपहर 3:00 प्रखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ अजय कुमार रजक ने की। मौके पर मुख्य रूप से नगर अध्यक्ष पुष्पा कुल्लु, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू, जीप सदस्य शांति बाला केरकेट्टा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेविड डोहराय प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम आए हुए सभी सदस्य एवं जनप्रतिनिधि तथा समाजसेवियों का स्वागत थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रवि प्रकाश ने किया। इस मौके पर चर्चा करते हुए सिमडेगा सदर थाना, मुफरसिल थाना एवं सदर प्रखंड क्षेत्र में पड़ने वाले सभी शिवालयों



के बारे में चर्चा हुई। जिस पर बीडीओ ने कहा कि शिवरात्रि के दिन सभी शिवालयों में सुबह से ही थ्रीड साइड रहेगी ऐसे में विधि व्यवस्था सुरक्षा को लेकर पुलिस बल से विशेष पैनी नजर रखी जाएगी ताकि इस प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। वहीं बताया गया की प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शांतिपूर्ण तरीके से महाशिवरात्रि पर्व

जगहों पर किसी प्रकार के भड़काऊ चीजों का प्रसार ना हो इसे विशेष ध्यान रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी सभी पर्व को ध्यान में रखते हुए थाना क्षेत्र में लगातार सघन वाहन जांच एवं देसी शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है ताकि त्यौहार के दौरान माहौल खराब ना हो। बैठक में मुख्य रूप से नॉमिता बा, डीडी सिंह, मनोज जैन, ओलिवर लकड़ा, शरीफ खान, हाजी जावेद, अशोक जैन, टीपी सिंह, शकील अहमद, मनोज झा, अरुण सिंह, सोनी वर्मा, सहित काफी संख्या में शांति समिति के सदस्य एवं समाजसेवी तथा सिमडेगा थाना के सभ इंस्पेक्टर एएसआई एवं पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।

नाबालिग को अगवा करने करने वाला गिरफ्तार

**नवीन मेल संवाददाता।** सेन्हा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा करने के आरोप में पुलिस ने बिहार के नवादा जिले के कादिरगंज ओपी थाना क्षेत्र निवासी दीपेन्द्र कुमार को गया जक्शन से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।



थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने बताया कि नाबालिग लड़की के परिजनों के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए डीएसपी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए थाना कांड संख्या 22/23 दर्ज कर थाना 363, 366ए आईपीसी के तहत आरोपित को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया गया।

लोहरदगा आयेंगे धोनी, सहवाग और युवराज : सांसद धीरज साहू

**नवीन मेल संवाददाता।** लोहरदगा जिले के बीएस कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम में मार्च में होगी आईपीएल के तर्ज पर क्रिकेट टूर्नामेंट इसके लिए जिला क्रिकेट एसोसियशन तैयारी में जुट गई है। बीएस कॉलेज स्टेडियम में सुंदरीकरण और तैयारी जोरो से चल रही है यह टूर्नामेंट का आयोजन जिला क्रिकेट एसोसियशन और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के द्वारा कराया जायेगा। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने स्टेडियम में चल रही है तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। सांसद ने स्टेडियम और चल रहे तैयारियों का जायजा लेकर स्टेडियम के रूप रेखा में बदलाव के लिए कई



जरूरी दिशा निर्देश दिए। मार्च के प्रथम सप्ताह में होने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेट जगत की कई बड़े हस्ती लोहरदगा आयेंगे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। जिनमें अंतराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू द्वारा इन्हे बतौर मुख्य अथिति निमंत्रण दिया गया है। अंतराष्ट्रीय

खिलाड़ियों का लोहरदगा आगमन की खबर से जिले में उत्साह का माहौल है और लोग खिलाड़ियों का एक झलक पाने के लिए बेकरार है। सांसद ने कहा कोरोना काल के दौरान क्रिकेट टूर्नामेंट जिले में दो तीन साल नहीं हो पाई लेकिन इस बार मार्च के महीने में यह टूर्नामेंट कराई जाएगी इसके लिए स्टेडियम में तैयारी जोरो पर चल रही है और इस कार्यक्रम में क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी लोहरदगा आयेंगे महेंद्र सिंह धोनी से बात हुई है। उनके द्वारा ही क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कराया जायेगा और वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह से भी बात हुई है वो भी इस टूर्नामेंट के दौरान लोहरदगा आयेंगे।

अवैध शराब के खिलाफ छापामारी

**नवीन मेल संवाददाता।** बोलबा बोलबा थाना क्षेत्र के टकबहाल गांव में बोलबा पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ छापामारी किया। इस मौके पर बताया कि बोलबा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अवैध शराब बिक्री एवं निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रखंड के



ऊर्जा मेला का आयोजन

**नवीन मेल संवाददाता।** ठेटईटांगर अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड रांची के आदेशानुसार विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ब्लॉक कार्यालय परिसर ठेटईटांगर में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया। ऊर्जा मेला में झारखंड सरकार द्वारा दिए जा रहे 100 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा के लाभ लेने हेतु मीटर लगाने, नया विद्युत कनेक्शन लेने, भार बढ़ाने, कृषि कार्य हेतु नया कनेक्शन लेने, बिजली बिल नहीं

मिलने की शिकायत, खराब जले पड़े मीटर बदलने व बिजली से संबंधित अन्य कोई समस्या का निदान हेतु ठेटईटांगर ब्लॉक कार्यालय परिसर विभाग के द्वारा एक दिवसीय मेला का आयोजन किया गया। बिजली से संबंधित मामलों पर त्वरित कार्रवाई व निदान किए गए। मौके पर कनीय विद्युत अभियंता रामनंदन राम सहायक विद्युत अभियंता विनोद कुमार बिजली कर्मी रविकांत कुमार एवं कई ऊर्जा मित्र एवं मानव दिवस कर्मी उपस्थित थे।

आत्मनिर्भर

लोहरदगा में उन्नत किस्म की खेती से आत्मनिर्भर हो रहे किसान

सालाना कर रहे 5-6 लाख रुपये की आमदनी

उद्यान विभाग की ओर से उन्नत कृषि स्ट्रॉबेरी और पपीते की खेती कराई जा रही है

**नवीन मेल संवाददाता।** लोहरदगा जिले में स्ट्रॉबेरी और उन्नत किस्म के पपीते की खेती से किसानों की जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। जिले में 2019 में शुरू स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों का आर्थिक स्थिति बदला है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में चयनित किसानों से उन्नत किस्म की खेती कराई जा रही है। इसी से जुड़कर किसान आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जिले में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यान विभाग पूरी तरह से जुट गई है। उन्नत किस्म की खेती के लिए जिले में चयनित किसानों को प्रशिक्षण के साथ



साथ विभाग की ओर से 50 प्रतिशत की अनुदान दी जाती है। जहां स्ट्रॉबेरी और पपीते की खेती जिले में बड़े पैमाने पर हो रही है। उद्यान विकास योजना के अंतर्गत किसानों की आय को बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की ओर से जिले में कार्य की जा रही है। जहां किसानों को प्रशिक्षण के साथ 50 प्रतिशत की अनुदान



कराई कर रहे हैं। कूड़ प्रखंड क्षेत्र के पंडरा के रहने वाली किसान एमलीन कंडुलना ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यान विकास योजना से जुड़कर वे प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन गई हैं। उन्नत किस्म पपीते और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए वर्ष 2022 में झारखंड की एकमात्र किसान

सभी हाथी पीड़ित लोगों से मुलाकात कर यथाशीघ्र क्षति के बारे आवेदन वन विभाग को दे ताकि क्षतिपूर्ति के मुवावजा राशि के लिए आगे की प्रक्रिया जल्द किया जा सके।

इधर वन विभाग ने रात्रि में गांव जाकर हाथी भगाने में ग्रामीणों का सहयोग किये वन विभाग बानो बूढ़ी उकौली, बुरहोजर, बूढ़ीझारिन, मानवा बेड़ा आदि गांवों के ग्रामीणों के बीच मोबाइल व टोच का वितरण किया गया। बताते चलें

बानो प्रखंड की बेटी ने जीता गोल्ड



**बानो।** प्रखंड के बांकी की बेटी सावित्री कुमारी के राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर गोल्ड मेडल मिलने के बाद बानो आने पर बानो वासियों, समाज के लोगों ने बानो बिससा मुंडा चौक में माला पहनाकर व गुलदस्ता देकर स्वागत किया। ज्ञात हो कि एकल अभियान द्वारा संचालित एकल विद्यालय के बच्चों का खेल कूद प्रतियोगिता का संभाग से होकर लखनऊ में राष्ट्रीय स्तर का खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन 6 एवं 7 फरवरी को हुआ। जिसमें सावित्री कुमारी 400 मीटर के दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीती है। सावित्री के बानो आने पर हर व्यक्ति सावित्री से मिल कर गौरवान्वित हुआ। सभी ने शुभकामनाएं दीं। मौके पर संच प्रमुख विश्वनाथ बड़ाईक, अखिल भारतीय रौतिया बिकास परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह, जिला परिषद बिरजो कंडुलना, बानो बीजेपी प्रखण्ड अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, फिरू बड़ाईक, रूपेश सिंह, महेश सिंह बिजय उपाध्याय, रीना, अनूप साहू आदि लोग उपस्थित थे।

भू-मापक अमीन परीक्षा में शामिल 177 अभ्यर्थी

**सेन्हा।** नव भारत निर्माण संस्थान चास बोकारो के तत्वावधान में रविवार को पंचायत भवन सेन्हा में भू-मापक अमीन का परीक्षा सम्पन्न हुआ। सेन्हा प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत भवन सेन्हा में रविवार को 177 परीक्षार्थियों ने भू-मापक अमीन का परीक्षा में शामिल हुए। भू-मापक अमीन प्रशिक्षण के दौरान नव भारत निर्माण संस्थान चास बोकारो के तत्वावधान में परीक्षा निर्वन्गण कृष्ण किशोर महतो, साहेब राम शर्मा एवं वनेश राम के मौजूदगी में परीक्षा सम्पन्न हुआ। परीक्षा के उपरांत प्रशिक्षक साहेब राव शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रखंड क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार को दो माह पूर्व से प्रत्येक रविवार को भू मापक अमीन का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। साथ ही उन्होंने कहा अभी तक इच्छुक अभ्यर्थी क्या सीखे और प्रशिक्षण प्राप्त करने में कितने अभ्यर्थी सार्थक हुए हैं। इसकी जांच एवं आगे की प्रशिक्षण में कदम बढ़ाने को लेकर सभी का परीक्षा लिया गया। बताते हुए उन्होंने कहा सेन्हा प्रखंड क्षेत्र में इच्छुक अभ्यर्थी अमीन की पढ़ाई कर क्षेत्र में एवं सरकारी नौकरी के दिशा में कदम उठा कर आत्मनिर्भर के साथ परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

महाशिवरात्रि और शबे बरात त्योहार को ले किस्को थाने में शांति समिति की बैठक

**किस्को।** जिले के किस्को थाना परिसर में आगामी महाशिवरात्रि पर्व एवं मुस्लिम समुदाय का पर्व शब-ए-बरात को लेकर किस्को थाना के प्रभारी थाना प्रभारी सुखराम उरांव की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान शांति समिति की बैठक में मुख्य रूप से किस्को अंचल पुलिस निरीक्षक मंटू कुमार मौजूद रहे। इधर बैठक में सभी समुदाय के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए व आपसी भाईचारा के साथ त्यौहार मनाने एवं क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चाएं की गईं। इधर बैठक में महाशिवरात्रि एवं शब-ए-बरात का त्यौहार मनाने वाले गांव एवं जगहों का चयन किया गया। मौके पर इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने शांति समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि त्यौहार को आपसी सहोदर्य व शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। त्यौहार के मौके पर नशापान कर हुड़दंग ना करें। साथ ही उन्होंने कहा क्षेत्र में जुआ खेल ना हो इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण लोगों को जागरूक करें। कहा कि यदि जुआ खेलते पकड़े जाते हैं तो वैसे लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न ना करें एवं विवाद उत्पन्न होने पर थाना को तत्काल सूचित करें। साथ ही अपवाह फैलाने से परहेज करने की हिदायत दी। इस बीच शांति व्यवस्था में बाधा डालने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाने की बात कही। साथ ही शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाये जाने की बात कही। मौके पर एएसआई अविनाश कुमार सिंह, कांग्रेस कमेटी के प्रखण्ड अध्यक्ष युसुफ अंसारी, मुखिया चांदमनी उरांव, ग्राम पंचायत पाखर के पंचायत समिति सदस्य बरेंद्र उरांव, बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति के सदस्य राजेन्द्र यादव, उप मुखिया सुधीर कुमार, पूर्व प्रमुख मुनीलाल उरांव, पूर्व मुखिया सुखमनी लकड़ा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य अख्तर अंसारी, मौलाना जियाउल हक अशरफ़ी, दिनेश साहू, व अन्य मौजूद थे।

मुंडा पाढ़ा राजाओं का सामाजिक आगमन व भ्रमण कार्यक्रम के लिए रांची रवाना

**कोलेबिरा।** प्रखंड अंतर्गत मुंडा महाराजा मदारामुंडा के सूती का मुंडा पाढ़ा राजाओं एवं सामाजिक आगमन और भ्रमण कार्यक्रम रांची के ऐतिहासिक स्थलों का एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन कोलेबिरा विधानसभा विधायक नमन बिस्वायल कोगाड़ी के सौजन्य से करवाया गया। जिसमें अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रांची में आमनन के बाद रांची के धरोहरों का एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा साथ ही मुंडा पाढ़ा राजा उससे संबंधित जानकारी जुटा पाएंगे। कार्यक्रम को लेकर मुंडा पाढ़ा राजा राजाओं में काफी खुशी है और विधायक नमन कोगाड़ी को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 20 सूत्री अध्यक्ष लुथर सुरीन ने लोगों का सहयोग किया और कार्यक्रम का अगवाई किया।

आत्मनिर्भर

लोहरदगा में उन्नत किस्म की खेती से आत्मनिर्भर हो रहे किसान

जिन्हें दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इससे पहले भी वर्ष 2021 में नर्सरी के लिए आईसीएआर पटना के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। एमलीन कंडुलना अपने खेतों में कई प्रकार की खेती करती हैं जिसमें आर्गेनिक और उन्नत किस्म की खेती पपीता, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, आलू शामिल है इनसे इनका आय सालो भर होते रहती है और सालाना आराम से 5-6 लाख रुपये की कमाई कर रहे हैं। एमलीन कंडुलना खुद तो आत्मनिर्भर कृषि उद्यमी है ही वे दूसरे किसानों को भी अपने द्वारा सीखें कृषि तकनीकों के गुण को सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। इसी कारण लोग एमलीन कंडुलना को पूरे क्षेत्र में बागे दीदी के नाम से जानते हैं। बागे दीदी सुबह से अपने खेतों में कृषि के कार्य में लग जाती हैं और शाम तक कार्य करते रहती हैं। वही बागे दीदी से कृषि के गुर सीखने आए नए किसान जूनिफा खलखो में भी उमंग और उत्साह है सिख कर आगे बागे दीदी की तरह उन्नत किस्म की कृषि करने की कहती हैं। वही उद्यान विभाग के प्रल्हाद कुमार ने बताया कि विभाग पुरजोर तरीके से किसानों के आय को दुगुनी करने में जुटी हुई हैं जिले में अब स्ट्रॉबेरी का खेती हो रही है जो बड़ी बात है और यहां हम फरवरी महीना तक इस खेती को करते हैं जिसका बाजार में अच्छी मांग है और बागे दीदी शुरू से ही मेहनती रही है जिस कारण उन्हे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है वे अपने साथ साथ कई महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर कृषि के क्षेत्र में जोड़ रही है जो अच्छी पहल है।



# अब तक 332 कंपनियों ने निकाल दिए एक लाख से ज्यादा कर्मचारी

**एजेंसी। नई दिल्ली** आये दिन कर्मचारियों से संबंधित समाचार पढ़ने को मिल है कि वैश्विक मंदी को लेकर कर्मचारियों की छंटनी हो रही है, जिससे लाखों नौकरी दांव पर लग गयी है। देश से लेकर विदेशों में कर्मचारियों की बड़ी संख्या में हटाया जा रहा है जो उनके परिवारों के काफी मुश्किलों का दौर चल रहा है।

ग्लोबल स्तर पर मंदी की आशंका के बीच साल 2023 के दौरान भारी संख्या में कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है। 332 टेक कंपनियों ने दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसमें गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। साल 2023 के पिछले महीने में ज्यादातर कंपनियों ने हजारों की संख्या में

कर्मचारियों को छंटनी की है। वहां कुछ कंपनियों ने तो पूरी टीम को ही खत्म कर दिया। लायोफ्स के आंकड़े के मुताबिक, कुल 1,00,746 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, जिसमें करीब 332 कंपनियां शामिल हैं। जनवरी में बड़ी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी से निकाला है। गूगल ने अपने 6 फीसदी वर्कफोर्स को कम किया

यानी कि करीब 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जो सभी कंपनियों से ज्यादा है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 के करीब कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा, अमेजन ने 8 हजार कर्मचारियों को निकाला है। छंटनी के दौर में ये भी कंपनियां नहीं रहीं पीछे। सेल्सफोर्स ने अपने कुल वर्कफोर्स में से 8 हजार

कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया। वहीं दूसरी ओर डेल ने 6650, आईबीएम ने करीब 3900, एस्प्री ने 3 हजार, जूम ने करीब 1300 और कॉइनबेस ने करीब 950 कर्मचारियों को नौकरी खत्म कर दी। साहु ने हाल ही में 20 फीसदी कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है। इसके अलावा 8 फीसदी या 600 लोगों को नौकरी देने की भी बात कही।

माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले गीटहब ने भी आगामी तिमाही में अपने लगभग 10 प्रतिशत कार्यबल या 300 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है। वहीं गौडैडी ने भी 8 फीसदी कर्मचारियों को निकालने की जानकारी दी है।

साल 2023 में किसने निकाले कितने कर्मचारी : माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 कर्मचारी, अमेजन ने 8 हजार कर्मचारी सेलफोर्स ने भी 8000 कर्मचारी, डेल लैपटॉप कंपनी ने 6650 कर्मचारी, आईबीएम ने 3,900 कर्मचारियों की छंटनी की, एस्प्री ने 3 हजार को निकाला, जूम ने 1,300 की छंटनी की है। कॉइनबेस ने 950 कर्मचारी निकाले याहु ने 1,600 कर्मचारी की छंटनी गीटहब ने 300 कर्मचारियों को निकाला है।

## योगी के नेतृत्व में विकास की ओर चल पड़ा है उत्तर प्रदेश : पीयूष

**एजेंसी। लखनऊ** भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने यूपीजीआईएस के तीसरे व अंतिम दिन रिवार को यहां कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की ओर तेजी से गतिमान हो गया है। उन्होंने कहा कि उग्र में अब उद्योगों और उद्यमियों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। यूपीजीआईएस के तहत भारद्वाज हैंगर-3 में एक सत्र को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों और राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि यूपी और केंद्र की सरकारें मिलकर उनका सेवा करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में जब उत्तर

प्रदेश का चुनाव चल रहा था, तो यहां का मैनिफेस्टो तैयार करने की चुनौती थी। भाजपा की एक टीम ने पूरे प्रदेश का दौरा किया और पाया कि लोग त्रस्त हैं। गरीबी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था बड़ी समस्या है। जब हमने मैनिफेस्टो तैयार किया तो बजट कई गुना ज्यादा जा रहा था। तब गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही थी कि सिर्फ तीन चीजों पर काम करना है। पहला भूमिफिया, दूसरा खनन माफिया और तीसरा लिंकर माफिया को खत्म कर दिया तो न पैसे की कमी होगी और न ही निवेश की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तीनों माफिया के साम्राज्य को खत्म कर प्रदेश में बदलाव की जो बयार चलाई है वो यकीन दिलाती



है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों और उद्यमियों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आकर अहसास हो रहा है कि यहां विकास की लहर बह रही है। योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल पड़ा है। कोई ताकत इसे आगे बढ़ने से

नहीं रोक सकती। ये योगी का मार्गदर्शन ही है कि एक्सआइज विभाग का जो राजस्व 6 साल पहले तक 14 हजार करोड़ रहता था वो बढ़कर 42 हजार करोड़ पर पहुंच रहा है। प्रक्रिया सरल हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो तो निवेश आता है, यह योगी ने साबित किया

### केन्द्रीय मंत्री बोले, उत्तर प्रदेश में उद्योगों और उद्यमियों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित

है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ईज अफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग जारी करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। स्टार्ट अप इंडिया की रेटिंग में भी यूपी एस्पारिंग और एमजिज इंकोसिस्टम के बाद अब लीडर बन चुका है। 6 साल में यहां 8 हजार से ज्यादा स्टार्टअप खुल चुके हैं। नए-नए आईडियाज आ रहे हैं। स्टार्टअप के जरिए लिथियम के विकल्प पर काम किया जा रहा है। भारत सरकार फ्री ट्रेड के लिए

प्रयासरत है। यूपी का इसमें महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। यूपी में 32 अलग-अलग रा मॉडरिजेशन की पहचान की है, जिससे वाइन बन सके। मैं सीएम योगी से कहूंगा कि अपना एक डेलीगेशन दुनिया भर में भेजें और वहां की टेक्नोलॉजी को यहां लाने का प्रयास करें। साथ ही जो पॉलिसीज विभाग ने बनाई हैं, उन्हें नेशनल सिंगल विंडो में भी एड करें, ताकि दूसरे राज्य इसका लाभ ले सकें। गोयल ने कहा कि उग्र सरकार ने जिस तरह टैक्स की चोरी रोक दी है, उत्पादन बढ़ाया है, उसका दूसरे राज्य भी अनुसरण करें। यूपी ने सिर्फ उत्पादन में नहीं बल्कि एक्सपोर्ट में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

## बैंक में दें एप्लीकेशन, नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई



**एजेंसी। नई दिल्ली** पिछले कुछ समय से पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर के बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने लोन के ब्याज दर में कई बार बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट के बढ़ने की वजह से हुआ है। ब्याज बढ़ने से लोगों पर ईएमआई का दबाव भी बढ़ा है। ऐसे में होम लोन का भुगतान कर रहे लोगों को पहले से ज्यादा ईएमआई देना पड़ रहा है। अगर आप भी ज्यादा ईएमआई से परेशान हैं और अपने ईएमआई को स्थिर रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा और वहां पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा। ये आवेदन पत्र आपके लोन की ईएमआई को स्थिर कर देगा। अगर आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो आप उसी ईएमआई पर लोन का भुगतान कर सकते हैं। बैंक के नजदीकी ब्रांच जाकर आपको लोन विभाग से संपर्क करना होगा। यहां आप एक आवेदन करना होगा और जानकारी देनी होगी कि आप अपने लोन की ईएमआई को कम करना

चाहते हैं और अपने लोन के टेन्डोर को बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद बैंक के कर्मचारी आपके एप्लीकेशन की जांच करेंगे और फिर आपके लोन का टेन्डोर आगे बढ़ा दिया जाएगा। आवेदन के दौरान पूरी जानकारी देनी आवश्यक है। आपको अपने लोन के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही लोन से लिंक्ड अकाउंट का नंबर, एड्रेस, नाम और अन्य जानकारी देनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर बैंक कर्मचारी आपसे पहचान के लिए कोई प्रमाण पत्र भी मांग सकता है। साथ ही आवेदन पत्र में आपको ये स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि आप इसी ईएमआई पर पहले से ज्यादा टेन्डोर के लिए लोन का भुगतान करना चाहते हैं लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर वे अपने ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं और लोन महंगा हो चुका है तो अपने लोन को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए लोन की ईएमआई को बढ़ाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके आपका टेन्डोर कम हो जाएगा। हालांकि आपके इसके लिए पर्याप्त पैसा होना आवश्यक है।

### 13वीं किस्त के लिए डाकिया करेगा मदद

**नई दिल्ली।** किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने पीएम किसान समान निधि योजना की शुरुआत की थी। अब जल्द ही इस योजना की 13वीं किस्त जारी होने वाली है। इससे पहले किसानों की मदद करने के लिए डाक विभाग ने एक अभियान की शुरुआत कर दी है। इसमें विभाग द्वारा किसानों को इस योजना के संबंध में सहायता पहुंचाई जागी। आपको बता दें कि मोदी सरकार की इस योजना से 8.42 करोड़ किसानों को फायदा मिल रहा है। आइए जानते हैं डाक विभाग किसानों को क्या मदद करने वाला है।

## भरतपे में 15 करोड़ यूजर्स के डेटा की चोरी

**एजेंसी। नई दिल्ली**

अशनीर ग़ोवर ने नेशनल पेमेंट्स कार्डसिल ऑफ इंडिया को एक ईमेल में आरोप लगाते हुए लिखा कि भारते पे में उन्हें रिडेम्पशन का मौका देना एक गंभीर गलती थी। उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के लिए कोलाडिया को अमेरिका में दोषी ठहराया गया। अमेरिका में कोलाडिया 18 महीनों के लिए हाउस अरेस्ट किए गए थे। बाद में भारत भेज दिया गया। अशनीर ग़ोवर ने अपने ईमेल में कहा कि कोलाडिया पर एक एफआईआर दिल्ली एयरपोर्ट पर दर्ज की गई है, क्योंकि उन्होंने एक जाली टिकट पर



गुजरात के लिए यात्रा करने का प्रयास किया था। अशनीर ग़ोवर ने एफआईआर की कॉपी और सजा से संबंधी दस्तावेज भी सबमिट किया। वहीं दूसरी ओर कोलाडिया ने उनके

### एफआईआर की कॉपी और सजा से संबंधी दस्तावेज भी सबमिट किया

### कोलाडिया एक जाली टिकट पर गुजरात के लिए यात्रा करने का प्रयास किया था

ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। भाविक कोलाडिया ने अपने खिलाफ लगाए गए आधारहीन और झूठे आरोपों का

खंडन किया है। उन्होंने मनीकंट्रोल को जानकारी दी "वे आरोप मेरे और उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले को लेकर प्रतिशोध और हताशा के कारण हैं।" ग़ोवर ने एक और आरोप लगाते हुए कहा कि 2021 में भरतपे में कर्मचारी रहते हुए कोलाडिया ने अपनी पत्नी के नाम पर ओटप्लेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक बिजनेस शुरू किया था। ग़ोवर ने कहा कि भारतेपे के वर्तमान प्रबंधन, अध्यक्ष और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार के नेतृत्व में मुखबिरों को चुप कराया जा रहा है।

### फंडिंग का वादा कर गायब हो गए शार्क टैंक इंडिया के जज

**नई दिल्ली।** दिवटर यूजर ने कहा कि 2 शार्कस में फंडिंग का वादा किया था। इसके बाद वे न कभी उस फाउंडर से मिले और न इमेल का जवाब दिया। इस बात को लेकर एक अन्य दिवटर यूजर से उसकी काफी बरह सह हुई। नई दिल्ली। शार्क टैंक इंडिया के दूसरे सीजन को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। पहले सीजन की तरह इस सीजन में भी कई प्रतिभाशाली उद्यमियों को देखने का मौका मिला जिन्हें शार्कस (जज) की ओर फंडिंग भी ऑफर की गई। लेकिन इस शो का पहला सीजन एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

## देश में बेहतर लॉजिस्टिक बनाने में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका

**एजेंसी। नई दिल्ली** केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लॉजिस्टिक खर्च को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की सफलता में उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि देश में बेहतर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बनाने में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे दिन रिवार को 'भारत का उभरता हुआ वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक हब उत्तर प्रदेश' विषयक सत्र में केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में देश में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत है, जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 8 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक



लॉजिस्टिक नीति निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाली है। प्राइवेट सेक्टर को इसका अधिकाधिक लाभ लेना चाहिए। विशेष सत्र में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भी अपने विचार रखे। लॉजिस्टिक सेक्टर की चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक लागत को कम करना उद्योग जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक लागत जोड़ीपी अनुपात से बहुत कम है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लॉजिस्टिक मुद्दों को कम-से-कम किया जाए, निर्यात कई गुना बढ़े और छोटे उद्योगों एवं उनमें काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिले।

### भारत का निर्यात भूकंप के कारण हो सकता है प्रभावित

**नई दिल्ली।** निर्यातकों ने यह आशंका जताई है कि भारत से कपास, मानव-निर्मित धागे और कपड़ों की डाई जैसी वस्तुओं का तुर्किये को होने वाले निर्यात पर भूकंप के कारण कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है। तुर्किये में पिछले सप्ताह सोमवार को कुछ घंटों के भीतर आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने काफी तबाही मचाई जिसमें कई इमारतें नष्ट होने के साथ 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लाखों लोग बेघर हुए हैं। इस आपदा में अवसरचानाओं और लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी भारी नुकसान हुआ है। इसकेदरून बंदरगाह भी लगभग एक सप्ताह से बंद है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि निर्यातकों में अभी तक तबाही का आंकलन नहीं किया जा सका है लिहाजा निर्यात पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है।

## जोमैटो ने समेटा कारोबार

**एजेंसी। नई दिल्ली**

देश में ऑनलाइन फूड डिलिवरी का काम करने वाली कंपनी जोमैटो से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया में पिछले महीने लगभग 225 छोटे शहरों से अपने हाथ खींच लिए हैं। यानि अब इन शहरों में जोमैटो ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। इस बात का खुलासा कंपनी की दिसंबर-तिमाही की आय आधारित रिपोर्ट में हुआ है। जानिए इससे जुड़ा नया अपडेट क्या है। जोमैटो के चीफ फाइनेंसियल अधिकारी, अक्षत गोयल ने कंपनी के शेयरधारकों को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा कि, जनवरी के महीने में, हम लगभग 225 छोटे शहरों से बाहर निकल गए हैं, कंपनी ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही से जुड़ी रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें सकल ऑर्डर मूल्य का 0.13 फीसदी का योगदान रहा है। गोयल ने शेयरधारकों से कहा कि, यह एक



चुनौतीपूर्ण वातावरण बना हुआ है, लेकिन हम हाल के हफ्तों में मांग में सुधार देख रहे हैं, जो हमें विश्वास दिलाता है कि सबसे बुरा समय निकल गया है। जोमैटो की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल 2021-22 में कंपनी ने फूड ऑर्डरिंग और डिलिवरी का बिजनेस देश के 1,000 से अधिक शहरों में चल रहा था। जिसे अब सीमित कर दिया गया है। गोयल ने कहा कि, पिछली कुछ तिमाहियों में इन (225) शहरों का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने के कारण हमें ऐसा करना पड़ा है। इन शहरों से अपने

## यूकेईएसएफ की साझेदारी

**नई दिल्ली।** यूके इलेक्ट्रॉनिक्स स्किल्स फाउंडेशन (यूकेईएसएफ) ने घोषणा की है कि उसने 2023 के लिए गर्स इन्टू इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यक्रम के लिए एएल के साथ साझेदारी की है, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। यूकेईएसएफ ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि प्रतिभागी विश्वविद्यालय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन करने के बारे में अधिक जानेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में काम करने वाली महिला स्नातक इंजीनियरों की बात सुनेंगी। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा में सुधार और बेहतर कनेक्टिविटी और संचार सहित समाज के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का तकनीकी समाधान प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टरों में प्रगति महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम इस साल जून और जुलाई में होगा। पिछले साल, कार्यक्रम में 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच की 230 लड़कियों ने भाग लिया था।

## कमी विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से घट रहा भरोसा अब तक निकाले 9,600 करोड़ रुपये

**एजेंसी। नई दिल्ली** विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से निवेश निकालने का सिलसिला जारी है। फरवरी में अभी तक 9,600 करोड़ रुपये की रकम निकाली जा चुकी है। हाई वैल्यूवेशन की वजह से अन्य उभरते हुए बाजारों की तुलना में घरेलू इक्विटी बाजार में विदेशी निवेशकों के निवेश की रकम कम हो रही है। एफपीआई ने जनवरी में 28,852 करोड़ रुपये कुल निकासी की थी। डिपॉजिटरी के डाटा के मुताबिक यह सात महीने से सबसे ज्यादा की निकासी थी। विदेशी निवेशकों ने पिछले साल दिसंबर में 11,119 करोड़ रुपये और नवंबर में 36,238 करोड़ रुपये का निवेश किया था। कोटक सिक्वोरिटीज के इक्विटी रिसर्च



(रिटेल) के प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि आगे चलकर एफपीआईएस में चढ़ाव और उतार देखने को मिल सकता है। उनका मानना है कि केन्द्रीय बैंकों की ओर से दर में बढ़ोतरी की जा रही है, ऐसे में इसमें परिवर्तन देखा जा सकता है। मार्केट के कुछ जानकारों का मानना है कि

उम्मीद है कि एफपीआई में उतार-चढ़ाव तक तक जारी रह सकता है, जब तक की अडानी ग्रुप के मुद्दे को लेकर स्पष्टता नहीं आ जाती है। बाजार में स्थिरता आते ही एफपीआई में बदलाव की उम्मीद है। आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने 1-10 फरवरी के बीच शेयरों से 9,672

करोड़ रुपये की निकासी की। इकॉनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय बाजारों से विदेशी निवेशक ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे मार्केट में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। एफपीआई ऑटो और ऑटो एक्ससेसरीज, कंस्ट्रक्शन एंड मेटल और खनन में खरीदार रहे हैं, जबकि वे वित्तीय सेवाओं में लगातार विक्रेता रहे हैं। आईटी सेक्टर की ओर भी विदेशी निवेशकों का रुझान बढ़ा है। डेब्ट मार्केट में एफपीआई ने 2,154 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस महीने भारत, थाईलैंड और फिलीपींस के निवेशक बाहर हुए हैं, जबकि दक्षिण कोरिया, ताइवान और इंडोनेशिया ने विदेशी निवेश आकर्षित किया गया है।

### बायोफ्यूल्स के विकास की दिशा में काम करेंगे

**नई दिल्ली।** टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करने और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमुख जैव ईंधन उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में, ब्राजील, भारत और अमेरिका, अगले कुछ महीनों के दौरान अन्य इच्छुक देशों के साथ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस) के विकास की दिशा में एक साथ काम करेंगे, एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है, कंपनी ने परिवहन क्षेत्र सहित टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को सहयोग और तेज करना होगा। यह बाजारों को मजबूत करने, वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाने, ठोस नीति सबक शेयर करने के विकास और दुनिया भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता के प्रावधान पर जोर देगा। यह पहले से लागू सर्वोत्तम प्रथाओं और सफलता के मामलों पर भी जोर देगा।

## दूरसंचार विभाग ने शुरू किया प्रोत्साहन का वितरण

**एजेंसी। नई दिल्ली** दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2021-22 में अपने लक्ष्य पूरा करने वाले चयनित विनिर्माताओं को उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) देना शुरू कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जीएक्स समूह की फर्म जीएक्स इंडिया पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन राशि पाने के लिए पहली चयनित इकाई है। सरकार ने स्थानीय स्तर पर विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई योजना शुरू की है। इसके तहत चुनी गई कंपनियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पीएलआई योजना में चयनित दूरसंचार उपकरण विनिर्माता जीएक्स टेलीकॉम ने इस योजना के



तहत दूरसंचार विभाग से प्रोत्साहन राशि मिलने की पुष्टि की है। जीएक्स इंटरनेशनल ग्रुप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी परितोष प्रजापति ने कहा, हल्बर्ग 2023 के लिए हमारा लक्ष्य भारत में तैयार, भारत में निर्मित (मेड इन इंडिया) उत्पादों को विकसित करना है। इससे भारत को वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में कुशलता-आधारित रोजगार पैदा होगा। जीएक्स समूह

के बिक्री प्रमुख सॉलिव स्वेन ने कहा कि वैश्विक बाजार में भारत में निर्मित दूरसंचार उपकरणों की मांग बढ़ी है और समूह को चालू वित्त वर्ष में निवेश और बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने का विश्वास है। कंपनी की क्षमता जीपीओएन उपकरण की 3.5 लाख इकाइयों का निर्माण करने की है। इन उपकरणों का उपयोग ब्रॉडबैंड नेटवर्क में किया जाता है।



## सरकार के प्रति विश्वास

झारखंड में हाल के दिनों में नक्सली गतिविधियों पर लगातार लगी जा रही है। यही कारण है कि नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यह राज्य के लिए अच्छी खबर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेमंत सरकार के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है। जंगलों से नक्सलियों का मोहभंग होना यह दर्शाता है कि वह समाज के मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। दशकों से यहां का विकास थम गया था। अब आने वाले दिनों में अच्छे संकेत मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल किसी समस्या का समाधान बंदूक से संभव नहीं है। आशंका और आशा के आकाश में यह बूढ़ा-बांटी सुखद है। पिछले दिनों आतंक का पर्याय और पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड 15 लाख का इनामी माओवादी नक्सली कर्मांडर मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्गोचन महतो उर्फ बड़ा बाबू का आत्मसमर्पण यह दर्शाता है कि बहुत जल्द इनके दिन लंदने वाले हैं। यह पिछले तीस वर्षों से पुलिस के लिए सर दर्द था। उस पर पुलिस स्टेशन और सीआरपीएफ कैम्प पर हमला बोलकर पुलिसकर्मियों के हथियार लूटने सहित हत्या, आगजनी, लेवी वसूली के आरोप हैं। उधर, संगठन इसके आत्मसमर्पण से पूरी तरह कमजोर पड़ गया है। झारखंड पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ राज्यभर में अभियान चला रही है। लगातार अभियान की वजह से नक्सली संगठन में दहशत का माहौल है। यही वजह है कि छोटे से लेकर बड़े नक्सली आत्मसमर्पण करने का मन बना चुके हैं। जनवरी 2023 से लेकर अब तक झारखंड पुलिस के सामने 11 नक्सली हथियार डाल चुके हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की बात सच मांनें तो अभी भी एक दर्जन से ज्यादा माओवादी हथियार डालने के लिए पुलिस के संपर्क में है। यह बात और बाकी के नक्सलियों को समझ लेनी चाहिए कि आने वाले दिन और बुरे हो सकते हैं। अच्छा यही होगा कि वे समाज के मुख्यधारा में शामिल होकर पुलिस और समाज का भला करें। ऐसा नहीं करने पर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। शायद वह इस बात को समझ भी रहेंगे, तभी तो उनका आत्मसमर्पण की ओर रुझान बढ़ा है। दूसरी तरफ सरकार को भी चाहिए कि उनके साथ जो वादे किये जायें, उसे निभाया भी जाये। तभी विश्वास के सेतु मजबूत होगा। बहरहाल राज्य में आत्मसमर्पण से एक अच्छा मैसज नक्सल गतिविधियों में शामिल लोगों के बीच में जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम की बढौलत समाज में समरस्ता का माहौल पैदा होगा। इसी शुभकामना के साथ आत्मसमर्पण कर रहे नक्सलियों से अपेक्षा की जा सकती है कि वे अपने आस-पड़ोस एक ऐसा माहौल दें, जहां अराजकता की जगह न हो।

वर्तमान केंद्र सरकार की साख को जब तक बढ़ा नहीं लगता, वह कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती। इस संबंध में हाल-फिलहाल के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। हाल के दिनों में कानून मंत्री किरण रिंजिजू ने कॉलेजियम पर जिस तरह की बयानबाजी करके न्यायपालिका की गरिमा को बयानबाजी से तार-तार कर ध्वस्त करने का प्रयास किया है, उसे किसी भी सूत्र में उचित नहीं ठहराया जा सकता। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार पर पिछले सप्ताह कड़ी टिप्पणी नहीं करती, तो जिन पांच जजों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का मामला पिछले वर्ष से लटका हुआ था, वह साफ नहीं हुआ होता। पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। 13 दिसंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पंकज मिश्रा (राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति संजय करोल (पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार (मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय) और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय) की नियुक्ति को लेकर सिफारिश भेजी थी। डा. डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के प्रधान न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करते ही जनहित में ताबडतोड़ फैसले दिये हैं। यही बात केंद्र सरकार के गले के नीचे नहीं उतर रही है। फिर क्या था, कानून मंत्री ने बयान देना शुरू कर दिया और वर्ष 1993 से लागू कॉलेजियम सिस्टम को आलोचना का मुद्दा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ी टिप्पणी के बाद अब जब बात अटक गई तो फिर अपने तेवर को सामान्य


## देशहित में नहीं न्यायपालिका की नकेल कसने की कोशिश



करते हुए कानून मंत्री रिंजिजू ने कहा, 'मैंने देखा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 'सुप्रीम कोर्ट ने (कॉलेजियम पर) चेतावनी दी है। इस देश के मालिक यहां के लोग हैं, हम सिर्फ सेवक हैं। हमारा निर्देशक संविधान है। संविधान के अनुसार देश चलेगा। कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। हम अपने आप को इस महान देश के सेवक के रूप में देखते हैं, वह अपने आप में बड़ी बात है। लोगों ने हमें मौका दिया है काम करने का। आप सब प्रिविलेज्ड लोग हैं, जज-वकील बने हैं... पढ़-लिखकर ही बने हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि देश के लिए काम करने का जिम्मेदारी मिली है।' दरअसल, जिस कॉलेजियम पर यह विवाद हो रहा है, वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रणाली है।

डा. डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के प्रधान न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करते ही जनहित में ताबडतोड़ फैसले दिये हैं। यही बात केंद्र सरकार के गले के नीचे नहीं उतर रही है। फिर क्या था, कानून मंत्री ने बयान देना शुरू कर दिया।

इस दिनों कॉलेजियम के सदस्य जज ही होते हैं। वे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नये जजों की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव भेजते हैं। मंजूरी मिलने के बाद जजों को अप्वाइंट किया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में संसदीय संप्रभुता व स्वायत्तता सर्वोपरि है। न्यायपालिका या कार्यपालिका संसद में कानून बनाने या संविधान में संशोधन करने की शक्ति को अमान्य नहीं कर सकती। न्यायिक नियुक्तियों पर केंद्र सरकार व कॉलेजियम में टकराव के बीच उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून को सुप्रीम कोर्ट से दूर किये जाने पर फिर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने पिछले सप्ताह जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के बयानों का हवाला देते हुए सवाल



किया कि क्या अब संसद में बने कानून पर कोर्ट की मुहर लगेगी, तभी वह मान्य होगा? उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था जनादेश को बेअसर करने के लिए शक्ति या अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति, जो स्वयं वरिष्ठ एडवोकेट रहे हैं, के कॉलेजियम पर सवाल उठाये जाने के परिणाम स्वरूप बॉम्बे हाईकोर्ट में दोनों के विरुद्ध याचिका दावर कर उन्हें उनके पद के अयोग्य घोषित कर आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वाह करने से रोकने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री संवैधानिक पदों पर होने के बावजूद न्यायपालिका और विशेषरूप से सर्वोच्च न्यायालय पर सीधा आक्रमण शुरू कर दिया है। अतः उनका सार्वजनिक आचरण इन संवैधानिक पदों को धारण करने के अयोग्य है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा संविधान पर की गई टिप्पणी के बावजूद उन पर अब तक किसी संवैधानिक संस्था द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए उच्च न्यायालय उन्हें पद के अयोग्य घोषित कर उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकें। कानून मंत्री किरण रिंजिजू ने पिछले वर्ष नवंबर में कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है, इसलिए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

**बोधिवृक्ष**  
**आईए सुनें भगवान विश्वकर्मा की कथा**  
तीसरा अध्याय  
अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ ध्यान से सुनो। कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर, उसके दुःख से दुःखी हुईं प्रतिव्रता बेचारी रानी बाली - हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अक्षि रोग से व्याप हुआ और बिल्कुल अन्धा हो गया। उसे उपमन्वु पुरोहित ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा तो यही प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या को व्रत कर और श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता और फलहार (या एक बार अन्नाहार) करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहा करता था। उस व्रत प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसको देखने की दृष्टि नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीनपालक श्री विश्वकर्मा की शरण में जाइए जिससे इस दुःख से छुटकारा मिले। राजा बोले - हे प्रिये, तुमने ठीक कहा है, इसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित्तोत्साह प्रथम ही कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और बर्दान करके भोजन करने लगा। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत विश्वकर्मा जी का पूजन और व्रत कराना चाहिए।  
(क्रमशः)

## त्रिपुरा में भाजपा की वापसी के आसार

देश की बांग्लादेश सीमा से सटे पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव है। इसमें एक ओर जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पुनः सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है तो दूसरी ओर राज्य में वाम मोर्चा-कांग्रेस गठजोड़ के साथ ही त्रिपुरा के पूर्व महाराज के उत्तराधिकारी प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देवबर्मन के नेतृत्व वाली आदिवासी पार्टी टिपरा मोथा भी तीसरे पक्ष के तौर पर चुनाव मैदान में है। सबसे अपने-अपने जीत के दावे हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पिछले पांच सालों में कार्य किया है, उसे देखते हुए उसका पुख्ता दावा यह है कि वह फिर एक बार राज्य में सत्ता की वापसी करने वाली है। त्रिपुरा में आप अन्य पार्टियों के साथ भाजपा के मुकाबले का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कांग्रेस और सीपीएम ताकतें हमेशा एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी रही हैं लेकिन इस बार वे एक साथ होकर भाजपा को मात देने के लिए चुनावी मैदान में हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के महासचिव सीताराम येचुरी का यह बड़ा दावा है कि वे राज्य में त्रिकोणीय मुकाबले से लेफ्ट-कांग्रेस गठबंधन को जीत मिलती देख रहे हैं। इसके पीछे का कारण उन्होंने इलेक्शन के लिए स्थानीय स्तर के नेता (टिपरा मोथा जैसे) अन्य दलों के साथ संभावित समायोजन को बताया। येचुरी का कहना है कि भाजपा और उसकी सहयोगी इंडियन पीपुल्स फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा (आईपीएफटी) ने पिछले चुनाव में जनजातीय इलाकों की 20 में से 18 सीटें जीती थीं। राज्य विधानसभा की 60 में से 20 सीट जनजातीय क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं। भाजपा ने 2018 में कुल 36 सीटें जीती थीं, जिनमें से आधे सीटें जनजातीय क्षेत्र से मिली थीं। इस बार जनजातीय क्षेत्रों में टिपरा मोथा सबसे आगे है। येचुरी ने कहा कि आईपीएफटी की भाजपा ने सिर्फ पांच सीटें दी हैं। इसका लाभ हमें होगा। वहीं, पिछले चुनाव

में सीपीएम को मिले 42.22 प्रतिशत और कांग्रेस के दो प्रतिशत वोटों की तुलना में भाजपा को 43.59 फीसदी वोट मिले थे, हमें पिछली बार से इस बार अधिक मिलेगा। येचुरी ने यह भी माना है कि टिपरा मोथा के साथ कोई चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं है, लेकिन आदिवासी पार्टी के साथ स्थानीय स्तर पर कुछ समझ कायम हो सकती है, जो राज्य के मौजूदा चुनाव में तीसरे ध्रुव के रूप में उभरी है। हालांकि वर्ष 1977 में छह महीने के लिए विपरीत ध्रुवों पर स्थित यह दोनों पार्टियाँ जरूर एक साथ आई थीं और एक संयोजित के जरिये सरकार का संभालन भी किया था, पर ये उनका निर्णय असफल ही साबित हुआ था। इसके उलट त्रिपुरा में भाजपा द्वारा किये गये विकास के कार्यों की अपनी लम्बी लिस्ट है, इसलिए भाजपा का मानना है कि जिन्हें हमारी सरकार में रहते हुए लाभ मिला है और आम नागरिकों का जो सामान्य जीवन सुखमय हुआ है, उसे देखते हुए त्रिपुरा का वोट फिर से भाजपा के साथ ही आयेगा। इसके साथ ही इस बार के अपने संकल्प पत्र (घोषणापत्र) में राज्य की सत्ता में लगातार दूसरी बार आने के लिए पार्टी की ओर से कई वादे किये गये हैं। चुनाव घोषणा पत्र में आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों, महिलाओं, छात्र-छात्राओं, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और किसानों पर फोकस किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में त्रिपुरा में चुनाव प्रचार किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार ने राज्य में विकास को तेज गति दी है। राज्य की पूर्ववर्ती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने राज्य के विकास को बाधित करने का काम किया था। लेकिन अब यहां का दृश्य पूरी तरह से बदला हुआ है। त्रिपुरा एक हिंस्रप्रस्था या पिछड़े राज्य के रूप में नहीं पहचाना जाता। इस वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य



डॉ. मंग चतुर्वेदी  
त्रिपुरा में आप अन्य पार्टियों के साथ भाजपा के मुकाबले का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कांग्रेस और सीपीएम ताकतें हमेशा एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी रही हैं लेकिन इस बार वे एक साथ होकर भाजपा को मात देने के लिए चुनावी मैदान में हैं।

राजनीति

में कई राजनीतिक दलों के झंडे दिखाई दे रहे हैं लेकिन पांच साल पहले यह संभव नहीं था, तब केवल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा दिखाई देता था। भाजपा सरकार ने राज्य को इस दहशत से मुक्ति दिलाई है। इसके साथ ही सातवें वेतन आयोग के लागू होने से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। पहले त्रिपुरा के लोगों को पुलिस थाने पहुंचने में दिक्कत आती थी, लेकिन अब भाजपा के राज में ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा था जब हिंसा के कारण राज्य में लड़कियों और महिलाओं को काफी अत्याचार सहने पड़ते थे लेकिन अब वे सशक्त हो गई हैं और उनका जीवन बेहतर हो गया है। प्रधानमंत्री बताते हैं कि पिछले चुनाव में उन्होंने राज्य के लोगों से राजमार्ग, इंटरनेट, रेल और हवाई सेवाओं की सौगात देने का वादा किया था। इस दिशा में प्रयास जारी हैं।

फोटो की दुनिया

द्वीट-द्वीट

Rohini Acharya  
@RohiniAcharya2  
करबद्ध निवेदन है आप सबसे बस इतनी विनती स्वीकार करें एक बिटिया के तप को ना जाने देना व्यर्थ कभी मेरे पापा की सेहत का ख्याल रखना आप लोग सभी...

फेसबुक वॉल से

Rubika Liyaquat  
@RubikaLiyaquat  
अपने नफ़े के लिए संसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खडगे जी, मैं एंकर होने के नाते @kharge जी चीलेंज करती हूँ उसी संसद में साबित करें सरकार ने कौनसे एंकर खरीदे हैं, 1 पाई किसी की ली होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी, हमारे पेशे-मेहनत को अपमानित करने पर वरना माफ़ी माँगिए।

## मुस्लिम लॉ हो या जमीयत हमेशा एक जैसा राग क्यों अलापते हैं?

एक तरफ जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी यह स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान मुस्लिमों के लिए सबसे सुरक्षित देश है तो दूसरी ओर वह मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों को विशेष रूप से दंडित करने के लिए एक अलग कानून बनाया जाए। आजकल धर्म पर शिक्षा देने और हमारा बंधुत्व धर्म से ज्यादा महान है या हमारा धर्म दुनिया में सबसे पुराना है, जैसे दावे करने का रिवाज-सा चल पड़ा है। पिछले सप्ताह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और इस सप्ताह जमीयत उलेमा-ए-हिंद की बैठक हुई। इन दोनों ही बैठकों में जो प्रस्ताव पाप किये गये या सरकार से जो मांगें की गयीं वह लगभग समान हैं। ऐसा लगता है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए मुस्लिम संगठनों ने तय कर लिया है कि इससे पहले कि सरकार संशोधित नागरिकता कानून के नियम बनाये उससे पहले ही इस कानून का विरोध तेज कर दे, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को इस बात का आभास हो गया है कि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता ला सकती है इसलिए इसका विरोध भी तेज किया जा रहा है, एक पक्ष की ओर से सनातन धर्म को ही राष्ट्रीय धर्म बताया गया तो इसका उधेग धार्मिक कोण से निकालते हुए दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि इस्लाम धर्म सभी धर्मों में सबसे पुराना है। हैरत इस बात की है कि एक तरफ जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी यह स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान मुस्लिमों के लिए सबसे सुरक्षित देश है तो दूसरी ओर वह मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों को विशेष रूप से दंडित करने के लिए एक अलग कानून बनाया जाए। ऐसी मांगें करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यदि भारत में कानून किसी खास धर्म

को संरक्षण देने के लिए बनने लगे तो अराजकता की स्थिति हो जायेगी। जैसे भी हिंसा भड़काने वाले लोगों से निबटने और उन्हें न्याय के कठघरे तक लाने के लिए बहुत-से कानून हैं इसीलिए इस प्रकार की मांग का कोई औचित्य नहीं है, साथ ही इस तरह की मांगें दर्शाती हैं कि देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को कमतर दिखाने के प्रयास हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलेमा-ए-हिंद...यह लोग मजहब के नाम पर बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन आम नागरिक मुस्लिमों के हितों के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। इन संगठनों से जुड़े नेताओं ने हमेशा अपना सियासी कद बढ़ाकर राजनीतिक रुतबा हासिल किया और आम मुसलमान को राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक के रूप में बदल दिया। आम मुसलमान को ना पढ़ने-लिखने दिया ना ही आगे बढ़ने दिया। अधिकतर मुस्लिम नेताओं के बच्चे तो विदेशों में तालीम हासिल करते हैं लेकिन आम मुस्लिमों को यह मद्रसों में अपने बच्चे पढ़ाने के लिए कहते हैं ताकि जो नई युवा पीढ़ी आये वह भी इन नेताओं की बातों को ही सच मानकर बहक जायें। आज देश में गिने-चुने मुस्लिम नेता हैं तो यह सिर्फ इसलिए है कि अधिकतर मुस्लिम नेताओं ने अपने समाज से नेतृत्व को उभरने ही नहीं दिया, जिसके हाथ में सत्ता आई उसने इसे अपने परिवार तक ही सीमित रखा।



गौतम मोहाराका  
आजकल धर्म पर शिक्षा देने और हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से ज्यादा महान है या हमारा धर्म दुनिया में सबसे पुराना है, जैसे दावे करने का रिवाज-सा चल पड़ा है। पिछले सप्ताह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई।

दुनियादारी

स्कूलों में हिजाब पहन कर जाने की ही जिद की जाती है? आज जब देश के बेटे-बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं तब क्यों लड़कों और लड़कियों के लिए अलग स्कूलों की मांग की जाती है? बहरहाल, समय आ गया है कि हमें यह फैसला करना होगा कि हमें आगे जाना या पीछे। यदि कोई अपने समाज को पीछे ले जाना चाहता है तो उस समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वह ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें। यदि हम सिर्फ धार्मिक मुद्दों में ही उलझे रहे और रूढ़िवाद में पड़े रहे तो दूसरे आगे निकल जायेंगे और हम देखते रह जायेंगे। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलेमा-ए-हिंद या इनके जैसे ही अन्य संगठन...यह सभी हर अवसर पर लगभग एक समान राग क्यों अलापते हैं?







# KASHYAP'S DENTAL CLINIC



**Dr. Vaibhav Kashyap**

Oral & Dental Surgeon, C.c. Endodontist & Implantologist Certified Orthodontist, MIDA

"Smiles & More"

छात्र-छात्राओं के लिए  
**50% की छूट**



## Facilities

- ❖ आरसीटी
- ❖ पायरिया का ईलाज
- ❖ टेढ़े-मेढ़े दाँतों का ईलाज
- ❖ स्माईल डिजाइन
- ❖ इनविजिवल क्लिप
- ❖ दंत रोपण
- ❖ फिक्स दाँत लगाना
- ❖ अत्याधुनिक मशीन और तकनीक के द्वारा ईलाज

## CHAMBER

SKYLINE - 4006, 4th Floor, Kadru, Opp. Dr. Lal's Hospital, Ranchi  
Contact No. : 9199533383, 7903835453  
Time : 9 am to 2 pm & 4 pm to 8 pm  
Sunday : 9 am to 2 pm  
E-mail : vaibhav.kashyap2011@gmail.com

## NEWS इन ब्रीफ

### राष्ट्रपति ने किये चार हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस नियुक्त

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चार हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की। राष्ट्रपति ने गुजरात, गुवाहाटी, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस नियुक्त किये। रविवार को इस बाबत आदेश जारी किये गए। राष्ट्रपति ने जस्टिस सोनिया गोकानी को गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता को गुवाहाटी हाई कोर्ट, उड़ीसा हाईकोर्ट के जज जस्टिस जसवंत सिंह को त्रिपुरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज जस्टिस एन ओटिश्चर सिंह को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है।

### रेस्क्यू टीम ने दो लोगों को जिंदा निकाला

अंकारा। तुर्की में छह फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप ने तबाही मचा दी है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में रविवार को टीम ने दो लोगों को मलबे से निकाला। दोनों जीवित थे। इनका जिंदा निकलना किसी चमत्कार पर ऐसा ही तनाव है। यहाँ चीन के कारण पैंगोंग झील पर पहले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव है। अब पैंगोंग झील के इलाके में चीन तेजी से पुल निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन लगभग आठ मीटर चौड़े पुल का निर्माण कर रहा है और भीषण ठंड के बावजूद सर्दियों में पुल का काम जारी रहा। यह पुल पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर स्थित चीनी सेना के बेस से दक्षिण की तरफ है। साल 2020 में भारत के साथ टकराव के दौरान चीन ने इस जगह पर अपने अस्थायी अस्पताल और गोडाउन बना लिए थे। गौरतलब है कि 15 जून 2020

### श्रीलंका में समुद्र तट पर फंसी 14 व्हेल कोलंबो। देश के वन्यजीव विभाग ने कहा कि उत्तर-पश्चिमी श्रीलंका के कल्पितिया समुद्र तट पर 14 पायलट व्हेल फंसी हुई हैं। वन्यजीव विभाग ने शनिवार को कहा कि श्रीलंका की नौसेना, पुलिस और वन्यजीव विभाग ने बचाव अभियान के बाद व्हेल को वापस समुद्र में डाल दिया। उन्होंने कहा कि तीन व्हेल की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि श्रीलंका में व्हेल का समुद्र तट असामान्य घटना नहीं है। 2020 में, श्रीलंका के एक समुद्र तट पर 100 से अधिक व्हेल फंसी हुई थीं। इनमें से तीन की मौत हो गई थी।

दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब 16 फरवरी को

# एलएसी पर भारतीय सेना मजबूत

## लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारतीय सेना की स्थिति मजबूत

### किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत से सटे सीमावर्ती इलाके लद्दाख, पैंगोंग, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास चीन दिक्कतें पैदा करता रहा है। बॉर्डर से लगे इलाकों पर चीन द्वारा हवाई पड़ियां बनाई जा रही हैं। वहीं, चीन कई सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलों का निर्माण भी कर रहा है। हालांकि, भारतीय सेना स्पष्ट शब्दों में कह चुकी है कि वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। हाल ही में हुई झड़पों के दौरान भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को करारी शिकस्त भी दी है। लद्दाख स्थित एलएसी पर ऐसा ही तनाव है। यहाँ चीन के कारण पैंगोंग झील पर पहले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव है। अब पैंगोंग झील के इलाके में चीन तेजी से पुल निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन लगभग आठ मीटर चौड़े पुल का निर्माण कर रहा है और भीषण ठंड के बावजूद सर्दियों में पुल का काम जारी रहा। यह पुल पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर स्थित चीनी सेना के बेस से दक्षिण की तरफ है। साल 2020 में भारत के साथ टकराव के दौरान चीन ने इस जगह पर अपने अस्थायी अस्पताल और गोडाउन बना लिए थे। गौरतलब है कि 15 जून 2020



## चीनी सेना भारतीय चौकी को हटाने के लिए पहुंची थी एलएसी के पास

### भारत पहले से था सतर्क, चीनी सेना के अनुपात में भारतीय सैनिकों की बढ़ाई गई थी संख्या

बीते साल 2022 में चीनी सेना ने अपनी तादाद बढ़ाने के बाद 9 दिसम्बर को अरुणाचल प्रदेश के यांग्से इलाके में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 17,000 फीट की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की। सुर्जों के मुताबिक चीन की सेना एक सुनियोजित साजिश के तहत 9 दिसम्बर को 300 सैनिकों के साथ अरुणाचल प्रदेश के यांग्से इलाके में स्थित भारतीय चौकी को हटाने के लिए एलएसी के पास पहुंची थी। हालांकि, भारत पहले से सतर्क था और यहाँ चीनी सेना के अनुपात में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। पूरी तरह से तैयार भारतीय सेना के जवानों ने अरुणाचल प्रदेश में

## सीमा पर्यटन को तेजी से बढ़ावा देने का सुझाव

ऐसे में अधिकारियों ने भारत सरकार को सुझाव दिया गया है कि रणनीतिक क्षेत्रों जैसे - तुरुकु या सियाचिन सेक्टर और दोलत बग ओल्डी (डीबीओ) या डेपसांग के मैदानी क्षेत्रों में सीमा पर्यटन को तेजी से बढ़ावा दिया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि काराकोरम दर्रे को भी धरेलु पर्यटकों के लिए ट्रेकिंग व लंबी पैदल यात्रा के लिए खोला जा सकता है। वहीं, रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट आईएनएस को बता चुके हैं कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देने की ओर आगे बढ़ रही है।

## अमेरिका ने हवाई घुसपैठि को मारा

वाशिंगटन। अमेरिका ने शनिवार को एक और उड़नेवाली वस्तु को मार गिराया। इस बार कनाडा में दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वित कार्रवाई हुई। 28 जनवरी को अलास्का से होते हुए अमेरिका में प्रवेश करने के एक सप्ताह तक अमेरिकी मुख्य भूमि के ऊपर 4 फरवरी को चीनी जासूसी गुब्बारे के मार गिराने के बाद अमेरिका द्वारा शनिवार की तीसरी बार इस तरह की कार्रवाई की गई। शुक्रवार को भी अलास्का के ऊपर उड़ रही एक वस्तु को मार गिराया था। शनिवार को गिराई गई वस्तु की उत्पत्ति, स्वामित्व और उद्देश्य के बारे में अमेरिका और कनाडा दोनों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच एक कॉल के बाद, राष्ट्रपति बाइडेन ने उत्तरी कनाडा के ऊपर उड़ रही वस्तु को मार गिराने के लिए कनाडा के साथ काम करने को उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (एनओआरएडी) को सौंपे गए अमेरिकी लड़ाकू विमान को अधिकृत किया।

## स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर कार्यक्रम भारतीय समाज में वेदों के सार को फिर जगाया : पीएम

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में समारोह की शुरुआत करते हुए कहा, हम महर्षि दयानंद सरस्वती को उनकी 200वीं जयंती पर नमन करते हैं। वह ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रकाशस्तंभ थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल और मोनाक्षी लेखी भी मौजूद थे। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 12 फरवरी, 1824 को हुआ था, एक समाज सुधारक थे जिन्होंने प्रचलित सामाजिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर देकर देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि सरकार समाज सुधारकों और महत्वपूर्ण हस्तियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध है।



## एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की। मोदी ने दयानंद सरस्वती को तर्क की भावना बताया, जो महिलाओं से जुड़ी सदियों से चली आ रही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक प्रभावी ताकत के रूप में उभरे। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने भारतीय समाज में वेदों के सार को

# न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान मचा रहा कहर, चार की मौत, उड़ानें रद्द

## एजेंसी। वेलिंग्टन

न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। देश के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में बाढ़ आ गई है और इसकी चपेट में आने से अब तक चार लोगों की मौत हो गई है। चक्रवाती तूफान की वजह से मंगलवार दोपहर तक ऑकलैंड से आने-जाने वाली सभी धरेलु उड़ानों

के साथ-साथ कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया है। वहीं, राष्ट्रीय कैरियर ने कहा है कि इन सब के बीच कुछ अंतरराष्ट्रीय मार्गों का संचालन जारी रहेगा, हालांकि उड़ानों को ऑकलैंड से डायवर्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। चक्रवात ने रविवार को न्यूजीलैंड के उत्तरी हिस्से को प्रभावित किया

है। ऑकलैंड में सोमवार को 250 मिलीमीटर (10 इंच) तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात भारी बारिश, तेज हवाओं और बड़ी लहरों के साथ आ सकता है। देश के प्रधानमंत्री क्रिस हिथकिंग ने संवाददाताओं से कहा कि कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें।

# दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब 16 फरवरी को

## एजेंसी। नई दिल्ली

दिल्ली मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव 16 फरवरी को होगा। इससे पहले एमसीडी हाउस की तीन असफल बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो सका। दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने 16 फरवरी को चुनाव कराने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। 6 और 24 जनवरी और फिर 6 फरवरी को हुई पिछली तीन बैठकों को भाजपा और आप पार्षदों के बीच हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया



था, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक महापौर और उप महापौर का चुनाव नहीं हुआ है। एमसीडी पार्षदों की 6 फरवरी को हुई पिछली बैठक को एलएसी के वोटिंग अधिकार को लेकर नारेबाजी और हंगामे के बीच अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। एमसीडी के पीठासीन अधिकारी ने

जिम्मेदार थीं। कई महीने बाद फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी झड़प में शहीद हुए अपने चार सैनिकों को मरणोपरान्त पदक देने की घोषणा की। चीन ने केवल चार सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि



## सुकेश ने अभिनेत्री चाहत को 100 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा

जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने टीवी धारावाहिक अभिनेत्री चाहत खन्ना को उनके आरोपों से उनकी छवि को नुकसान और मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपये की कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस राष्ट्रीय दैनिक के साथ साक्षात्कार में चाहत द्वारा दावा किए गए निवेदन के बाद भेजा गया है। चाहत ने कहा था कि वह तिहाड़ जेल में उससे मिलने में फंस गई थीं, जहाँ उसने उसके सामने घुटने टेक दिए और शादी का प्रस्ताव रखा। जब उन्होंने उसे बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा हैं और उसके दो बच्चे हैं, तो उन्हें बताया गया कि उनका पति उसके लिए सही आदमी नहीं है। चाहत ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनसे जुड़े कथित जबरन वसूली मामले में उन्हें समन भेजने के बाद ही पता चला कि चंद्रशेखर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के भतीजे नहीं हैं।

## उर्वशी के 'कांतारा 2' की कास्ट में शामिल होने की अफवाहें 'असत्य'



एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया है, कांतारा 2 में उर्वशी रौतेला को लेकर सभी अफवाहें पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद हैं। दरअसल हाल ही में, उर्वशी रौतेला और ऋषभ शेट्टी एक कार्यक्रम में साथ देखे गए जहाँ उन्होंने शेट्टी से मिलने का अनुरोध किया जिन्होंने हामी भर दी। उन्होंने पूरी तरह से झूठी अफवाहों को जन्म देते हुए एक गुप्त कैप्शन के साथ उनके साथ क्लिक की गई तस्वीर पोस्ट कर दी। कहानी तटीय कर्नाटक में केराडी में सेट और फिल्माई गई है।

अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा 2' में शामिल होने की खबरें कथित तौर पर 'आधारहीन और असत्य' हैं। उर्वशी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर ऋषभ के साथ एक तस्वीर के साथ घोषणा की कि वह फिल्म की दूसरी कड़ी में नजर आएंगी। प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने सफाई देते हुए कहा कि वे सभी अफवाहें निराधार हैं। प्रोडक्शन हाउस के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया है, कांतारा 2 में उर्वशी रौतेला को लेकर सभी अफवाहें पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद हैं। दरअसल हाल ही में, उर्वशी रौतेला और ऋषभ शेट्टी एक कार्यक्रम में साथ देखे गए जहाँ उन्होंने शेट्टी से मिलने का अनुरोध किया जिन्होंने हामी भर दी। उन्होंने पूरी तरह से झूठी अफवाहों को जन्म देते हुए एक गुप्त कैप्शन के साथ उनके साथ क्लिक की गई तस्वीर पोस्ट कर दी। कहानी तटीय कर्नाटक में केराडी में सेट और फिल्माई गई है।

## जातीयत जनगणना मांग पूरा करने के पक्ष में डीएमके

# आरक्षण बढ़ाने के लिए मजबूत

## एजेंसी। चेन्नई


सत्तारूढ़ डीएमके राज्य में विभिन्न समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए तमिलनाडु में जातीय जनगणना के पक्ष में है। तमिलनाडु सरकार ने एक नीति नोट में कहा है कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों में 69 प्रतिशत कोटा लागू करने और राज्य में सरकारी सेवा में नियुक्तियों के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पहले ही जातिवार जनगणना की मांग कर चुके हैं। विपक्षी एआईएडीएमके ने अपने पिछले कार्यकाल में जातियों, समुदायों और जनजातियों पर मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिए एक आयोग का गठन किया था और मद्रास उच्च न्यायालय के एक



सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए. कुलशेखरन को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अनाद्रमुक की सहयोगी पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) की मांग के बाद आयोग का गठन किया गया था। डीएमके सरकार भी जाति आधारित जनगणना के खिलाफ

नहीं है और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और एम.के. स्टालिन, एम. करुणानिधि ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सामाजिक न्याय के लिए जाति आधारित जनगणना आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि वह स्वयं एक जाति आधारित जनगणना कराए। जो एम. करुणानिधि की बेटी डीएमके की उप सचिव व संसद सदस्य कनिमोड़ी करुणानिधि और एम.के. स्टालिन ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है और कहा है कि लोग जाति आधारित रचनाओं के बारे में जानने के लिए एक दशक और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि आंकड़ों के बिना समाज में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। डीएमके ने वर्षों से जाति आधारित जनगणना पर जोर दिया है, उसे लगता है कि हाशिए के समुदायों का कल्याण जाति आधारित रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। डीएमके और अन्य राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं, ताकि वे विभिन्न समुदायों को प्रदान किए गए आरक्षण को सही ठहरा सकें। डीएमके और कनिमोड़ी सहित इसके नेता इस जनगणना के पक्ष में इसलिए भी हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि शक्तिशाली वन्नियार समुदाय की पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) इस मुद्दे पर सुविख्या बटोर सकती है। केंद्र सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि जाति आधारित जनगणना संभव नहीं है।

## 'डीडीएलजे' हमारी पीढ़ी को परिभाषित करने वाली फिल्म रही है : रणबीर कपूर



दिग्गज फिल्मकार यश चोपड़ा पर आधारित नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री 'द रोमैटिक्स' में नजर आने वाले बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर ने कहा कि प्रतिष्ठित फिल्म 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' 'हमारी पीढ़ी की परिभाषित फिल्म' रही है। 'रोमांटिक्स' में रणबीर देखेंगे, बात करेंगे कि कैसे आदित्य चोपड़ा ने सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर दिलवाले

दुल्हनिया ले जाएंगे (डीडीएलजे) का निर्देशन किया, जिसने भारतीय पाँच संस्कृतिक को आकार दिया। एक नए वीडियो में रणबीर ने कहा : डीडीएलजे हमारी पीढ़ी की परिभाषित फिल्म रही है ! मैं आपको यह भी नहीं बता सकता कि मेरे अंदर अभी भी भावना जीवित है। इसने मेरे कपड़े पहनने के तरीके को प्रभावित किया। इसने मेरे एक लड़की से बात करने के तरीके को प्रभावित किया। अमिताभ बच्चन से लेकर रणवीर सिंह, रानी मुखर्जी से लेकर ऋतिक रोशन, कैटरिना कैफ से लेकर अनुष्का शर्मा तक, हिंदी सिनेमा के मेगा-स्टार्स और आइकन एक साथ आए हैं और यश चोपड़ा के बारे में बात की है।

## क्रिस मार्टिन ने रिहाना को कहा 'सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गायिका'

कोल्डप्ले के गायक क्रिस मार्टिन रिहाना के सुपर बाउल हॉलट्टाइम परफॉर्मेंस को देखने के लिए उत्सुक हैं और उन्होंने उन्हें अब तक की सर्वश्रेष्ठ गायिका बताया है। मार्टिन 12 फरवरी को हाफटाइम शो करेंगे। उन्होंने एप्पल म्यूजिक 1 पर जेन लोवे को बताया : मैं रिहाना को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। मैं मुख्य रूप से सिर्फ एक प्रशंसक हूँ और हमने उसके साथ कुछ प्रदर्शन किया है और आप सही हैं, उसके लिए गाना गाना दुर्लभ हो गया है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। इस बीच, रिहाना सुपर बाउल में अपने बेटे के सामने प्रदर्शन करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। रूब बाँव हिटमेकर ने हाल ही में कहा था, जब आप एक माँ बन जाती हैं, तो कुछ ऐसा होता है, जहाँ आपको लगता है कि आप दुनिया को संभाल सकती हैं।



# राजनीतिक विवादों के लिए याद किया जाएगा गवर्नर का कार्यकाल

**शंभु नाथ चौधरी**  
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का तबादला महाराष्ट्र हो गया है। झारखंड में दसवें राज्यपाल के तौर पर बैस का करीब एक साल आठ महीने का कार्यकाल राजनीतिक विवादों के लिए याद किया जाएगा। तत्कालीन एक दर्जन से भी ज्यादा मौकों पर राज्यपाल रमेश बैस और राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के बीच विवाद, टकराव और परस्पर असहमति के हालात बने। एक तरफ जहां राज्यपाल ने झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के गठन के मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा उनके अधिकारों के अतिक्रमण की

शिकायत केंद्र तक पहुंचाई, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन ने उनपर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने और राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल पैदा करने के आरोप लगाए। राज्यपाल रमेश बैस के किसी वक्तव्य, बयान या फैसले से ज्यादा एक महत्वपूर्ण मसले पर उनकी चुप्पी और अनिर्णय ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कीं। यह मसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर पत्थर खदान की लीज आवंटन पर खड़ा हुए विवाद से

जुड़ा है। सीएम रहते हुए खदान की लीज लेने पर इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताते हुए हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर बीते साल फरवरी में भाजपा राज्यपाल रमेश बैस के पास पहुंची थी। राज्यपाल ने भाजपा की इस शिकायत पर केंद्रीय चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा। इस पर आयोग ने शिकायतकर्ता भाजपा और हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर इस मामले में उनसे जवाब मांगा। दोनों के पक्ष सुनने के बाद चुनाव आयोग ने बीते साल 25 अगस्त को राजभवन को सीलबंद लिफाफे में अपना मंतव्य भेज

दिया था। अनऑफिशियली ऐसी खबरें तैरती रही कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को दोषी मानते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है और इस वजह से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जानी तय है। राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग से आए सीलबंद लिफाफे पर चुप्पी साधे रखी और इससे राज्य में सियासी सस्पेंस और भ्रम की ऐसी स्थिति बनी कि सत्तारूढ़ गठबंधन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति एकजुटता जताने के लिए डिनर डिप्लोमेसी और रिजॉर्ट प्रवास तक के उपक्रमों से गुजरना पड़ा। चुनाव

आयोग की चिट्ठी के अनुसार राज्यपाल की ओर से किसी संभावित प्रतिकूल फैसले की आशंका के चलते हेमंत सोरेन सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत का प्रस्ताव तक पारित करने की मशकत करनी पड़ी। इतने सब के बावजूद राज्यपाल रमेश बैस ने चिट्ठी का रहस्य नहीं खोला। बीते एक साल आठ महीने में एक दर्जन से भी ज्यादा मौके आए, जब राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार के निर्णयों से लेकर सरकार की ओर से विधानसभा में पारित किए गए विधेयकों पर सवाल उठाये हैं। बीते साल फरवरी महीने में उन्होंने राज्य

में ट्राइबल एडवाइजरी कार्डिसल (टीएसी) के गठन को लेकर राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली पर कई सवाल उठाये थे। उन्होंने इस नियमावली को संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और राज्यपाल के अधिकारों का अतिक्रमण बताते हुए केंद्र के पास शिकायत की थी। उन्होंने टीएसी की नियमावली और इसके गठन से संबंधित फाइल राज्य सरकार को वापस करते हुए इसमें बदलाव करने को कहा था। इस मसले पर राजभवन और सरकार का गतिरोध आज तक दूर नहीं हुआ। इसके अलावा राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड

विधानसभा में सरकार द्वारा पारित विधेयकों को विभिन्न वजहों से सरकार को लौटाने के मामले में भी रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने विधानसभा में पारित एंटी मांभ लीचिंग बिल, कृषि मंडी बिल सहित नौ बिल अलग-अलग वजहों से लौटाए रमेश बैस ने पिछले साल मई में रांची में हुई सांप्रदायिक हिंसा, जेपीएससी के रिजल्ट से जुड़े विवादों और कानून-व्यवस्था में गिरावट जैसे प्रकरणों पर भी हस्तक्षेप किया था। अलग-अलग विभागों की समीक्षा बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी उन्होंने राज्य सरकार के विजन से लेकर उसके निर्णयों पर सवाल उठाए थे।

## NEWS इन ब्रीफ

### विभिन्न जिलों में रविवार को ऊर्जा मेला लगाया गया

रांची। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में रविवार को ऊर्जा मेला लगाया गया। रांची के जे पी मार्केट, घुर्वा में भी ऊर्जा मेला लगा गया जिसमें बिजली संबंधित समस्याओं का निपटारा हुआ। इस अवसर पर सुधीर कुमार (उप महाप्रबंधक, राजस्व), बीरेंद्र किस्कू (कार्यालयक अभियंता), अवधेश कुमार लाल (सहायक अभियंता), ज्ञानचंद्र (कनीय विद्युत अभियंता), स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता धीरेंद्र कुमार उर्फ बमबम सिंह, सुधीर कुमार राय, अभय राशन बेक, जलेश्वर महतो, अलेक्सिस टोपनो, सुनील कुमार, संजीत कुमार, अजय कुशवाहा, विजय कुमार साहू, इमरोज अंसारी, प्रदीप, मनोज कुमार, राजा कुमार, नितेश कुमार, अजय पासवान, मनोज माथुर, सतीश कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे।

### आम आदमी पार्टी का रोषपूर्ण प्रदर्शन

रांची। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी देश के विभिन्न भाजपा प्रदेश मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में आप की झारखण्ड प्रदेश इकाई ने रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के सामने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नारे लगाए और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया।

### श्रीराम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षुओं का इंडक्शन

रांची। श्रीराम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नगड़ी में बीएड के सत्र 2022-24, के प्रशिक्षुओं का इंडक्शन कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया। कॉलेज के सचिव विकास सिन्हा व प्राचार्य डॉ एसके सिन्हा ने पाठ्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं, शैक्षिक क्रियाकलाप व शैक्षिक तकनीकों से संबंधित जानकारी देते हुए सैद्धांतिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक कुशलता पर जोर दिया। इसके बाद शिक्षकों ने विभिन्न विषयों से प्रशिक्षुओं को अवगत कराया। सत्र 2021-23 के प्रशिक्षुओं में दीपिका करकेड़ा, रानी गुप्ता व सुप्रति कुमारी ने कॉलेज से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

### नगर निगम सिटीजन फोरम ने की बैठक आयोजित

## विभिन्न समस्याओं को लेकर हुई चर्चा



नवीन मेल संवाददाता। रांची नगर निगम सिटीजन फोरम ने रविवार को संयोजक दीपेश निराला की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में वार्ड-7 की वार्ड पार्षद सुजाता कच्छप उपस्थित थी। सदस्यों ने दीपाटोली-बगोचा-गाड़ीगांव सड़क, खेलगांव हाडसिंग सोसायटी में 1796 फ्लैट के निवासियों के विभिन्न सुविधाओं को लेकर चर्चा की। वहीं रैरा निबंधन, क्रियान्वयन, आज तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किए जाने, फायर फाइटिंग सिस्टम क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया। संयोजक दीपेश निराला ने कहा कि फायर फाइटिंग सिस्टम क्रियान्वयन अब तक नौ तल्ला, 32 अपार्टमेंट बिल्डिंग और 56 इलेक्स हॉउस में नहीं किया गया है। धनबंद में हुए आगजनी की घटना पर चिंता व्यक्त

करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लेकर अपार्टमेंट में फायर फाइटिंग सिस्टम क्रियान्वयन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बैठक में वार्ड पार्षद ने कहा कि समस्याओं को चिन्हित करते हुए लिखित में आवेदन दे।

बैठक में दीपेश निराला, रेणुका तिवारी, मुकुल कुमार सिंह, शिवानी लता, मनोज कुमार सिंह, विनोद जैन बेगवानी, विवेक कुणाल, तेजु कुमार महतो, महेश प्रसाद, रंजय कुमार पाठक, अजीत कुमार, मुनेश्वर सिंह, उमाशंकर सिंह, संदीप कुमार सिंह, अमरेंद्र सिंह, संजीत कुमार, डॉ मुकेश कुमार, प्रमोद कुमार जयसवाल, सुशील क्रांतिकारी, मनोज कुमार मिश्रा, अलतमस आलम, लक्ष्मी देवी, सुशील शर्मा, मनीष मलिक समेत अन्य उपस्थित थे।

## जूनियर एथलेटिक्स टैलेंट हंट में लेंगे भाग

रांची। भारतीय एथलेटिक्स संघ, नई दिल्ली एवम बिहार स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑथोरिटी, पटना के द्वारा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटना में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित हो रही 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बोकारो के स्नेहा कुमारी ने बालिका 16 वर्ष ऊंची कूद में 1.40 मीटर जंप कर रजत पदक जीता। इस उपलब्धि पर खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा, भारतीय एथलेटिक्स संघ के कोषाध्यक्ष सह झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकान्त पाठक, झारखण्ड एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव सी डी सिंह, कोषाध्यक्ष आशीष झा, अंतरराष्ट्रीय तकनीकी पदाधिकारी एस.के. पाण्डेय, झारखंड एथलेटिक्स संघ के एसोसिएट उपाध्यक्ष डॉ प्रभात शंकर, कोच सह साई सैग कोच बिनोद सिंह, कोच आशु भाटिया, योगेश यादव, प्रभात रंजन तिवारी, शैलेश शर्मा, वरुण कुमार, प्रभाकर वर्मा, किरण रानी, आलोक मिश्रा, संजय, त्रिपाठी, सिकंदर महतो, सुखर भगत, रविन्द्र मुर्मू, अजीत साहू, फादर रामू, राकेश सिंह, रणवीर सिंह, अजय नायक, सरोज यादव, अरविन्द कुमार, शशांक भूषण सिंह, सिद्ध किस्कू, मनोज कुमार, जितेंद्र कच्छप, मो फरीद, अनवर समेत संघ के पदाधिकारियों ने बधाई दी।

रांची। सेंट्रल कोलफील्ड्स ने लंबित मामलों का त्वरित निपटारा कर संबंधित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया। झारखंड हाई कोर्ट लीगल कमेटी के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उच्च न्यायालय रांची में आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में उच्च न्यायालय में विचाराधीन सीसीएल के 11 मामलों की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सभी मामलों का निपटारा किया गया। इसके उपरांत न्यायमूर्ति सुजीत नारायण, न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी तथा न्यायमूर्ति आनंद सेन ने 28 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान की। इस मौके पर सीसीएल के महाप्रबंधक (लीगल) पी भद्राचारी, वीपी जोषी, विजय कुमार, रवि कुमार, एम प्रताप, राजू कुमार जायसवाल तथा क्षेत्रों के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

## महिला टीम आंध्रप्रदेश के लिए होगी आज रवाना



नवीन मेल संवाददाता। रांची 15 से 26 फरवरी 2023 तक काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के लिए सीनियर झारखंड महिला हॉकी टीम रविवार को रांची से काकीनाडा, आंध्रप्रदेश के लिए रवाना हुई। रांची के मोरहाबादी स्थित हॉकी झारखंड के कार्यालय में सीईओ रजनीस कुमार और महासचिव विजय शंकर सिंह ने टीम के सभी खिलाड़ियों को खेल किट और जीत की शुभकामना देकर विदा किया।

झारखंड सीनियर महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी इस प्रकार हैं : गोलकीपर-अंजली बिड़िया, सोनल मिंज, डिफेंडर-रोपनी कुमारी, रोमा बखला, रेशमा सोरेग, कोशल्या कुमारी। मीड फोल्डर। समी बड़ा, सिमता मिंज, दिवती कुल्लू, दीपति टोप्पो, नीतु कुमारी, सुभाषी हेमरोम, काजल बड़ा। फॉरवर्ड : अलबेला रानी टोप्पो, वेतन दुंगडुंग, एलिन दुंगडुंग, रोशनी दुंगडुंग, अलका दुंगडुंग है। कोच, मैनेजर-बिगन सोय और दुलारी टोपनो शामिल हैं।

## भाजपा के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना पहली प्राथमिकता



नवीन मेल संवाददाता। रांची भारतीय जनता पार्टी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, प्रदेश इकाई की एक अनौपचारिक बैठक प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया कि अधिक संख्या में बुद्धिजीवियों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों एवं सकारात्मक कार्यों से अवगत कराया जाए। इस अवसर पर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, राज्य इकाई के संयोजक, उमाशंकर केडिया ने प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक सिद्धांतों एवं

व्यवहारिक कार्यों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना है। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यों एवं संदेश को पहुंचाना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की अन्य इकाइयों का विस्तार किया जाएगा।

रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरांगोड़ा अंचल के गोहरामुड़ा गांव स्थित रिफ्ट तथा शराब बनाने वाली फैक्ट्री ग्लोबस रिफ्ट लिमिटेड से फेल रहे वायु प्रदूषण के समाधान की पहल करने की मांग की है। प्रकाश ने कहा है कि इस फैक्ट्री के चिमनी से निकलने वाले दुर्गंधित हवा से 60 गांवों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं बीमार पड़ने लगे हैं। परेशान होकर छात्र-छात्राएं स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं फैक्ट्री की डीप बोरिंग से भूगर्भीय जलस्तर घटने लगा है। क्षेत्र में पेजल की समस्या उत्पन्न होने लगी है। इसके विरोध में वहां की जनता आंदोलन कर रही है। प्रकाश ने कहा है कि उन्होंने 7 नवम्बर, 2022 को शराब फैक्ट्री के नजदीकी गांव जयपुरा का दौरा किया।

## भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को लिखा पत्र

रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरांगोड़ा अंचल के गोहरामुड़ा गांव स्थित रिफ्ट तथा शराब बनाने वाली फैक्ट्री ग्लोबस रिफ्ट लिमिटेड से फेल रहे वायु प्रदूषण के समाधान की पहल करने की मांग की है। प्रकाश ने कहा है कि इस फैक्ट्री के चिमनी से निकलने वाले दुर्गंधित हवा से 60 गांवों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं बीमार पड़ने लगे हैं। परेशान होकर छात्र-छात्राएं स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं फैक्ट्री की डीप बोरिंग से भूगर्भीय जलस्तर घटने लगा है। क्षेत्र में पेजल की समस्या उत्पन्न होने लगी है। इसके विरोध में वहां की जनता आंदोलन कर रही है। प्रकाश ने कहा है कि उन्होंने 7 नवम्बर, 2022 को शराब फैक्ट्री के नजदीकी गांव जयपुरा का दौरा किया।

## जीवनदान मारवाड़ी युवा मंच ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन

# रक्त का हर बूंद नई जीवन देता है

नवीन मेल संवाददाता। रांची मारवाड़ी युवा मंच, झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स व रॉल्लिग के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को स्वर्णभूमि बैंकवेट हॉल, डंगराटोली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 85 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। मंच के अध्यक्ष विकास अग्रवाल सचिव विकास अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि रक्तदान महानदान है, इसीलिए समय-समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए। दान किए गए रक्त से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। रक्तदान शिविर में लोगों ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने रक्तवीरो को विशेष रूप से मंच की ओर से धन्यवाद दिया। रक्तदान प्रभारी पिंकिश खंडेलवाल, विष्णु अग्रवाल ने बताया कि सभी रक्तदान करने वालों को मंच की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया गया। रक्तदाताओं के लिए जूस, कॉफी, बिस्कुट, फल आदि की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य रक्तदाताओं की संख्या बढ़ाना है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को



समय पर रक्त उपलब्ध करवाया जा सके। मंच के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता अमित शर्मा ने कहा कि पल का हर क्षण, रक्त का हर कण बहुत अनमोल होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में नागरपाल सेवा स्टॉन ब्लड बैंक के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ का पूरा सहयोग मिला। मंच परिधर नागरपाल सेवा स्टॉन की कक्षा टीम का आभार व्यक्त करता है। कार्यक्रम के

## सीपी सिंह ने किया आरसीसी नाली का शिलान्यास

# सीपी सिंह ने किया आरसीसी नाली का शिलान्यास

नवीन मेल संवाददाता। रांची रांची के लोकप्रिय विधायक सीपी सिंह ने रांची विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 29 स्थित जय प्रकाश नगर में 490 फिट आरसीसी नाली एवं केशव नगर में 750 फिट आर सी सी नाली का शिलान्यास किया। इन दोनों मोहल्लों में बहुत दिन से ये समस्या बनी हुई थी जिसे लेकर मोहल्ले के लोगों ने समाज सेवी निशांत यादव, अशोक पांडे, सुनील साहू, कृष्णा विश्वकर्मा जी के साथ मिलकर आवेदन के द्वारा विधायक को समस्या के बारे में अवगत कराया, जिसपर उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए नाली की समस्या का समाधान किया। आज के इस कार्यक्रम में भाजपा सुखदेव नगर मण्डल के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडे, भाजपा

महानगर के वरीय उपाध्यक्ष राजू सिंह, संजय तिवारी, प्रदीप शर्मा, मदन विश्वकर्मा, बिहारी सिंह, रवि प्रजापति, निशु यादव, किशोर गोप, राजत चौधरी, विजय सिंह, बिजु दिव्य परमार, अमित अग्रवाल, सुनील वर्णवाल, शुभांशु दुबे, अर्पित सिंह, विक्की शर्मा, अमरजीत गुप्ता सहित सभी मोहल्ले लोग उपस्थित थे सभी मोहल्ले लोग आजे के इस कार्यक्रम में भाजपा सुखदेव नगर मण्डल के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडे, भाजपा

## पृष्ठ एक के शेष

बिहार में भाजपा के साथ कर दिया...  
यादव, अभय सिंह, यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. मनोज कुमार, सुरेश सिंह समेत श्याम रजक, झारखंड सरकार के हजारों नेता-कार्यकर्ता मौजूद थे।  
भाजपा करती रही है खेला : तेजस्वी ने कहा कि भाजपा जनता के द्वारा चुनी गयी सरकारों को अपने पैसे के बल पर डिस्टर्ब कर येन-केन प्रकारेण सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है। पूरे देश में भाजपा खेला कर रही थी, इन्हें पता भी नहीं चला और बिहार में हम लोगों ने इनके साथ खेला कर दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आनेवाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए झारखंड में पार्टी को मजबूत करने का संघ भी दिया।  
पूर्व सांसद समेत कई नेता राजद से जुड़े : राजद के मिलन समारोह में झामुमो नेता व पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने राजद की सदस्यता ली। इसके अलावे रिस्स के पूर्व निदेशक डॉ. तुलसी महतो,

भाजपा नेता लक्ष्मी राय मुर्मू सहित कुछ अन्य नेताओं ने भी राजद की सदस्यता ग्रहण की। तेजस्वी यादव ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। बिहार की तरह झारखंड में जातिगत जनगणना की मांग रखी : राजद प्रदेश कार्यालय में राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना कराने की मांग उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान यह मांग रखी है कि झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना कराई जाए। राज्य में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के दलों में आपसी प्रतिद्वंद्विता के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रत्येक पार्टी अपनी मजबूती के लिए काम करती है। वह भी राजद की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, राजद मजबूत होगी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मजबूत होंगे।



## आर. माधवन ने खेलो इंडिया-2023 में बेटे वेदांत की जीत का मनाया जश्न

वेदांत ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पांच स्वर्ण सहित सात पदक जीते हैं

एजेंसी। मुंबई अभिनेता आर. माधवन के लिए यह गर्व का क्षण है। उनके बेटे वेदांत ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सात पदक जीते हैं। उसने पांच स्वर्ण पदक और दो रजत पदक जीते हैं। माधवन ने टिवटर पर अपने बेटे की तस्वीरें साझा कीं, जो एक राष्ट्रीय स्तर का तैराक है, जो अपने पदकों के साथ पोज दे



रहा है। उन्होंने कहा : भगवान की कृपा से 100 मीटर, 200 मीटर और 1500 मीटर में सोना और 400 मीटर और 800 मीटर में चांदी

का पुरस्कार दिया गया। माधवन ने इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम को 161 पदक (56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक) के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, दो ट्रॉफी के लिए टीम महाराष्ट्र को बधाई। पहली ट्रॉफी तैराकी में महाराष्ट्र लड़कों की टीम और दूसरी खेलो गेम्स में महाराष्ट्र के लिए दूसरी ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी।

## भारतीय शटलर 2023 सीजन में शानदार वापसी के लिए उत्सुक

एजेंसी। नई दिल्ली शीर्ष भारतीय शटलर पीवी सिंधु 2023 सीजन में शानदार वापसी के लिए उत्सुक हैं। वह चोट के कारण पांच महीने तक कोर्ट से दूर रही हैं। अब पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। सिंधु पिछले साल अगस्त में राष्ट्रमंडल खेलों के महिला एकल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद कोर्ट से दूरी बना ली थी। उन्होंने साल के पहले कार्यक्रम



मलेशिया ओपन में अपनी वापसी की, जहां वह शुरुआती दौर में

स्पेन की पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी कैरोलिना मारिन से हार गई। फिर, इंडिया ओपन में एक हफ्ते बाद एक बार फिर पहले दौर में ही बाहर हो गई। उन्होंने कहा : मैं अब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक हूँ। चोटें लगती हैं, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखना और हर बार मजबूत होकर वापसी करना महत्वपूर्ण है। मैं अपनी गलतियों से सीख रही हूँ। सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ के हवाले से कहा : मेरे माता-पिता भी एथलीट थे। उन्होंने मुझे जो प्रेरणा दी, वह मुझे

कम क्षणों के दौरान बेहतर बनने में मदद की है। 27 वर्षीय सिंधु ने 2022 सीजन में तीन खिताब - सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, स्विस ओपन और सिंगापुर ओपन में सफल प्रदर्शन किया था। उम्मीद है कि इस सीजन में उनका अभियान पहले से बेहतर होगा। उन्होंने कहा : मुझे उम्मीद है कि यह सीजन अच्छा होगा। इसके लिए मुझे भी 100 प्रतिशत फिट होना होगा, लेकिन मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। उस लय में आने और टूर्नामेंट मैच खेलने में समय लगता है।

## NEWS इन ब्रीफ

### सीरी ए : लेचे, रोमा का मैच 1-1 से ड्रॉ

रोम। फुटबॉल लीग सीरी ए के एक मुकाबले में पाउलो डायबाला की स्पॉट-किंग से रोमा और लेचे के बीच मैच ड्रॉ हो गया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मजबान टीम ने सातवें मिनट में फेडेरिको बास्चियोटो की मदद से शुरुआती बढ़त हासिल की। 17वें मिनट में जियोलोरोसी ने बराबरी की शॉर्ट पर वापसी की जब डायबाला ने पेनाल्टी को बदलने के लिए अपना धैर्य बनाए रखा। रोमा के पास खेल को पलटने के मौके थे, लेकिन लेचे के गोलकीपर व्लादिमिरो फाल्कोने ने कुछ शानदार सेव किए।

### अर्जेंटीना के डिफेंडर सरविया माइनिरो में हो सकते हैं शामिल

रियो डी जेनेरियो। अर्जेंटीना के राष्ट्र-बैक रेनजो सरविया 2023 सीजन के लिए ब्राजील के सीरी ए क्लब एटलेटिको माइनिरो में शामिल हो सकते हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एटलेटिको के प्रबंधक एडुआर्डो कोडिने ने 2018 और 2019 में रेसिंग क्लब में 29 वर्षीय के साथ काम करने के बाद सरविया को एक टॉप ट्रांसफर टारगेट बनाया है। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष दो साल के सौदे पर बातचीत कर रहे हैं। सरविया ने अर्जेंटीना के लिए नौ बार खेला है।


### ट्रेविस हेड को लेकर चिंतित मार्क टेलर

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर नागपुर में भारत के खिलाफ पहले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट से बाहर किए जाने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को लेकर चिंतित हैं। मैच में ऑस्ट्रेलिया एक पारी और 132 रनों से हार गया। दाएं हाथ के बल्लेबाज पीटर हैंड्सकोम्ब हेड की जगह आए। हेड ने घरेलू सीजन में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 87.5 की औसत से 525 रन बनाए थे। उन्होंने नाइन के टूडे शो में कहा : मुझे पता है कि वे अगले टेस्ट के लिए अब टीम में वापस आ जाएंगे, लेकिन मुझे उस मनोवैज्ञानिक क्षति की चिंता है।

## महिला टी20 विश्व कप : रवि शास्त्री बोले भारत एक बड़ी जीत की ओर

हरमनप्रीत कौर की टीम अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप जीत से ले सकती है प्रेरणा

एजेंसी। नई दिल्ली भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि हरमनप्रीत कौर की टीम अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप जीत से प्रेरणा ले सकती है और उनका कहना है कि वे एक बड़ी वैश्विक खिताब अपने नाम कर सकते हैं। आईसीसी समीक्षा शो के नवीनतम एपिसोड में शास्त्री ने कहा : मैंने हमेशा कहा है जो महिला क्रिकेट टीम कोई बड़ा खिताब जीतने से दूर नहीं है। उन्होंने बाकी टीमों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि वे फाइनल में पहुंचते हैं और कुछ करीबी मैच हार जाते हैं। महिला टी-20 विश्व कप में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ परिणाम ऑस्ट्रेलिया में रहा, जहां 2020 टी-20 विश्व कप में भारत उपविजेता रहा। 1983 पुरुष वनडे विश्व कप जीत के सदस्य शास्त्री ने कहा कि अगर भारतीय टीम



2023 टी-20 विश्व कप में एक कदम आगे जाती है, तो यह देश में महिला क्रिकेट के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से क्रिकेट में लॉर्डस में जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

उन्होंने कहा : मुझे पता है कि 83 में क्या हुआ था, जब हमने विश्व कप जीता था, इसने सब कुछ बदल कर रखा दिया। खेल का पूरा नजरिया बदल गया। आप जानते हैं कि जिस तरह से खिलाड़ियों को समझा जाता था, जिस तरह से लोग

### बेंगलुरु शिफ्ट हुआ तीसरा टेस्ट

एजेंसी। धर्मशाला भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच धर्मशाला से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया है। भास्कर के सूत्रों ने बताया कि एक मार्च से शुरू होनेवाला यह मुकाबला अब धर्मशाला की जगह बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का वेन्यू बदलने की वजह धर्मशाला स्टेडियम की आउटफील्ड का तैयार नहीं होना है। इसी वजह से इसे बेंगलुरु में कराने का फैसला लिया गया है। धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम धौलाधारा की पहाड़ियों से घिरा

चाहते थे। वह रातोंरात बदल गया। उन्होंने कहा : मैं देख रहा हूँ कि महिला क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है। अब, अंडर-19 की युवा लड़कियां जिस तरह से खेली और जीतीं, वह अद्भुत था। विशेष रूप से फाइनल में इंग्लैंड को 68 रन पर ऑलआउट करना और फिर लक्ष्य को पूरा करना बेहतरीन

था। इसने कई युवा क्रिकेटर्स को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया। शेफाली वर्मा की कप्तानी वाली विजयी भारत अंडर-19 महिला टीम को अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी-20 शुरू होने से पहले बीसीसीआई द्वारा सम्मानित किया गया।

## पहले टेस्ट मैच में भारत के टॉप ऑर्डर का खराब प्रदर्शन

केएल राहुल, विराट कोहली फिर रहे विफल

भारतीय टीम के थिंक टैंक को दूसरे मैच से पहले लेने होंगे कड़े फैसले

एजेंसी। नागपुर नागपुर में चार मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के शुरुआती टेस्ट में विश्व नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की पारी और 132 रन की जीत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भारी जीत में भारतीय टीम की समस्या कम नहीं हुई है, जिसने जामथा में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (वीसीए) स्टेडियम में टीम के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं किया। लेकिन निश्चित रूप से विदेशी दौरों पर और घर में बेहतर तैयारी और अधिक दृढ़ विरोधियों के खिलाफ टीम के लिए खराब परिणाम होंगे। भारतीय टीम के थिंक टैंक को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट के लिए अगले दौर के चयन से पहले इन समस्याओं को



दूर करना होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार (17 फरवरी) से नई दिल्ली में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। हालांकि, भारत ने पहला टेस्ट जीता और श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली, लेकिन उनका समग्र प्रदर्शन उतना सही नहीं था जितना वे चाहते थे। प्रमुख चिंता बल्लेबाजी लाइनअप है, हालांकि गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और तेज गेंदबाजों ने भी एक या दो विकेट लिए। अक्षर पटेल ने पूरे मैच में एक विकेट लिया, उन्होंने अपनी शानदार निचले क्रम की बल्लेबाजी

से अधिक रन बनाए, जिससे भारत ने नागपुर में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। कप्तान रोहित शर्मा को छोड़कर भारत का शीर्ष क्रम बिल्कुल विफल रहा। लेकिन सलामी जोड़ीदार केएल राहुल और विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जो ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भारतीय टीम प्रबंधन को हल करने की जरूरत है। राहुल ने लगभग 71 गेंदों में 20 रन बनाकर संघर्ष किया। 46 टेस्ट में 2624 रन बनानेवाले राहुल ने आखिरी बार दिसम्बर 2021 में सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका में शतक लगाया था। हालांकि, उन्होंने जोहान्सबर्ग में अगले टेस्ट में अर्धशतक बनाया, बेंगलुरु के 30 वर्षीय खिलाड़ी ने 2014 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था। उनके संघर्षों को ध्यान में रखते हुए, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की चयन नीति पर सवाल उठाया है और पूछा है कि केएल राहुल को और कितने मौके मिलते रहेंगे, जब शुभमन गिल और सरफराज खान ने टेस्ट स्पोर्ट के लिए अपना दावा ठोका है।

## एटीपी टूर फाइनल में पहुंचने वाले पहले चीनी खिलाड़ी बने वू यिबिंग



एजेंसी। डलास वू यिबिंग एटीपी टूर फाइनल में पहुंचनेवाले पहले चीनी खिलाड़ी बने, उन्होंने डलास ओपन सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिकी टेलर फ्रिट्ज को 6-7(3), 7-5, 6-4 से हराया। वू एक अन्य अमेरिकी जॉन इस्मर से खेलेंगे, जिन्होंने शनिवार को

फाइनल मुकाबले में जेजे वुल्फ को 3-6, 7-5, 7-6(4) से हराया था। यह वू का पहला फाइनल होगा। वह अपने 31वें चैंपियनशिप मैच में अपने 17वें टूर-लेवल खिताब की तलाश में होंगे। वर्ल्ड नंबर 97 करियर के उच्च स्तर पर प्रवेश करते हुए, वू एटीपी लाइव रैंकिंग में 21 पावदान चढ़कर नंबर

76 पर पहुंच गए। वह अब झांग झिनेन को पीछे छोड़ते हुए एटीपी रैंकिंग के इतिहास में सर्वोच्च रैंकिंग वाले चीनी खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं, जो वर्तमान में करियर-हाई नंबर 91 पावदान पर हैं। पहले सेट में 5-4 पर दो सेट प्वाइंट गंवाने के बाद वू ने पांच ब्रेक प्वाइंट बचाए और दूसरे सेट में 2-2 की बढ़त बनाए रखी। तीसरे राउंड में 4-3 पर थे, जब वह शनिवार के सेमीफाइनल में फ्रिट्ज से एक लाइन-क्लिपिंग फोरहैंड के सामने कुछ शानदार बचाव करने में सफल रहे। वू ने कहा : मुझे याद है कि पहले सेट में मेरे दो सेट प्वाइंट थे। मुझे कहना होगा कि मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। फ्रिट्ज से जीत कर मैं काफी खुश और रिलेक्स हूँ।

## ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 97 रनों से हराया

न्यूजीलैंड की टीम 14 ओवर में सिर्फ 76 रन पर सिमट गई

एजेंसी। पार्ल एलिसा हीली (55), एशले गार्डनर (5/12) के शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 97 रनों से हराकर महिला टी-20 विश्व कप के अपने बचाव की जबरदस्त शुरुआत की। एलिसा (55) का 2020 महिला टी-20 विश्व कप फाइनल के बाद से प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवरों में 173/9 का शानदार स्कोर बनाने में मदद की। जवाब में, न्यूजीलैंड ने पहली ही गेंद पर सूजी बेट्स को खो दिया और 14 ओवर में



सिर्फ 76 रन पर सिमट गई। कीर्तियों की तरफ से अमेरिलिया केर ने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। एशले, महिला टी-

20 में शीर्ष क्रम की ऑलराउंडर, 5/12 के शानदार स्पेल के साथ मुख्य गेंदबाज थीं, उनकी सर्वश्रेष्ठ टी-20 गेंदबाजी के आंकड़े ने

संक्षिप्त स्कोर : 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 173/9 (एलिसा हीली 55, एलिसा पेरी 40, अमेरिलिया केर 3/23, ली ताहुरु 3/37) न्यूजीलैंड 14 ओवर में 76/10 (अमेरिलिया केर 21, बनावार्डिन बेजुडुडेनहॉर्ट 14; एशलेघ) गार्डनर 5/12, मेगन शुट्ट 2/8)।

पांच बार के चैंपियन को एक प्रमुख जीत दिलाने में मदद की। वहीं, न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन अमेरिलिया केर (21) और बनावार्डिन बेजुडुडेनहॉर्ट (14) ने बनाए, जबकि अमेरिलिया केर और ली ताहुरु ने तीन-तीन विकेट चटकाने में कामयाब रही।

## बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी दूसरा टेस्ट दिल्ली में 17 से 21 फरवरी के बीच

## ऑस्ट्रेलियाई टीम में कुहनमैन शामिल

26 वर्षीय स्पिनर का अभी भी टेस्ट में डेब्यू करना है बाकी

एजेंसी। नई दिल्ली बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनमैन को दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में लोग स्पिनर मिचेल स्वेपसन की जगह शामिल किया गया है। मिचेल स्वेपसन अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए स्वदेश वापस लौट रहे हैं। कुहनमैन के टीम में शामिल होने से पैट कमिंस को भारतीय टूर्नामेंट पिच पर एस्टन एगर के साथ बाएं हाथ का दूसरा स्पिन विकल्प मिल सकता है। दूसरा टेस्ट 17 से 21 फरवरी के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। स्वेपसन पहले टेस्ट के लिए चयन से चूक गए थे, जिसे भारत ने एक पारी और 132 रनों से जीता और अब अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए ब्रिस्बेन वापस लौट रहे हैं। उनकी जगह कुहनमैन को मौका दिया जा रहा है। जबकि 26

### ऑस्ट्रेलिया टीम

पैट कमिंस (कप्तान), एस्टन एगर, स्कॉट बोर्लैंड, एलेक्स केरी, कैमरून ग्रीन, पीटर हैंड्सकोम्ब, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मैट कुहनमैन, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, लॉस मॉरिस, टॉड मर्फी, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेपसन और डेविड वॉर्नर। नागपुर टेस्ट में टूर्नामेंट पिचों पर

वर्षीय स्पिनर का अभी भी टेस्ट में डेब्यू करना बाकी है। उन्होंने पिछले साल के मध्य में श्रीलंका के खिलाफ चार वनडे मैचों में प्रदर्शन किया और छह विकेट लेने में सफल रहे। उन्होंने मार्श शेफील्ड शीलड के मौजूदा दौर में एमसीजी में 21 ओवरों में 2/55 और 23 ओवरों में 1/67 विकेट हासिल किया था। ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि कैमरून ग्रीन, जिनकी अंगुली की चोट से उबरने में

### ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी उजागर : चैपल

एजेंसी। नई दिल्ली दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर इवान चैपल का मानना है कि नागपुर में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पारी और 132 रनों की हार ने टूर्नामेंट पिचों पर अच्छी स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी को उजागर कर दिया है। उन्होंने मेहमानों को चेतावनी दी है कि दौरे के अन्य मैचों में बेहतर करने के लिए उन्हें परिस्थितियों से अनुकूल होना होगा। उन्होंने कहा : पहले टेस्ट ने टूर्नामेंट पिचों पर अच्छी स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी को उजागर कर दिया है। अगर वे इस झटके को भुला कर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा और यह उन्हें श्रृंखला में बनाए रखेगा। यदि वे डगमगाते हैं, तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। चैपल ने रिविवार को

अच्छी प्रगति हुई है, दूसरे टेस्ट में वापसी कर सकते हैं। हरकनमौला की वापसी से ऑस्ट्रेलिया को

नाथन लियोन और टॉड मर्फी के साथ तीसरे स्पिनर को चुनने की अनुमति मिल सकती है, अगर

परिस्थितियां अनुकूल हों। मेहमानों को दूसरे टेस्ट में मिशेल स्टार्क की चोट से वापसी की भी उम्मीद है।

**ALOE VERA ENRICHED COCONUT HAIR OIL**

**AVAILABLE IN 2 SIZES**

**150ml & 250ml**